

॥ श्रीः ॥

नारदसंहिता ।

(ज्योतिषग्रन्थः)

बेरीनिवासि-पण्डित-वसतिरामशर्मानिर्मित-
भाषाटीकोपेता ।



से

मुम्बर्यां

खेमराज श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना

स्वकीये "श्रीवेङ्कटेश्वर" (स्टीम्) मुद्रणालये
मुद्रयित्वा प्रकाशिता ।

माघे संवत् १९६३, शके १८२८.


PDF Creation, Bookmarking and Uploading by:
Hari Pārṣada Dās (HPD) on 03-June-2015.

भूमिका ।




सिद्धान्त, संहिता और होरा इन तीन स्कन्धोंसे युक्त ज्योतिः-शास्त्र वेदका नेत्र कहा जाता है । संसारका शुभाशुभ विषय आँखोंसे ही देखा जासकता है, इसी प्रकार वेदविहित शुभाशुभ कर्मोंका उपादान और त्याग अर्थात् कौन कर्म किस समय करना और कब न करना; किस प्रकार करना इत्यादि नेत्रका कार्यज्योतिष-शास्त्रके द्वारा ही होता है । नेत्रवान् मनुष्य जैसे मार्गमें पड़े कण्टकादिकोंको देख, उनसे रक्षा अपनी करसकता है इसी प्रकार ज्योतिषका जाननेवाला, सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मोंको जानकर शुभ-कर्मोंके आचरणसे सुखी रहसकता है । जब मनुष्य इस मर्त्यलोकमें जन्म लेकर श्रेष्ठ कर्म करनेसे देवदुर्लभ कर्मोंका भी सिद्ध करसकता है तो कौन बुद्धिमान ऐसे उत्तम लोकमें आकर अपनी उन्नतिका साधन करनेमें चूकेगा ? । यही विचारकर स्वभावसे ही सर्वजीवोपकारी महर्षि नारदजीने मनुष्योंके लाभके लिये स्कन्ध-त्रयात्मक ज्योतिषशास्त्र बनाया उनमेंसे यह तृतीय होरास्कन्ध नारदसंहिता नामसे प्रसिद्ध है । इसमें शास्त्रोपनयन, ग्रहचार, अब्द-लक्षण, संवत्सरफल, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य-सङ्क्रान्ति, ग्रहगोचर, चन्द्रताराबलाध्याय, लग्नविचार, प्रथमरजोदर्शनविचार गर्भाधानसे लेकर विवाहपर्यन्त १६ संस्कार, प्रतिष्ठा, यात्रा, गृहप्रवेश, सद्योवृष्टि, कूर्मलक्षण, उत्पात, शान्ति इत्यादि अनेक

उपयोगी कर्मोंका वर्णन सरल बड़े श्लोकों द्वारा ३५ अध्यायोंमें किया गया है देवर्षि नारदकी महिमा कौन नहीं जानता जैसे योगी विज्ञानवेत्ता यह हैं अपनी तत्त्वज्ञानकी महिमासे बड़े २ गूढ विषय इन्होंने स्वनिर्मित इस “नारदसंहिता” में रक्खे हैं । और भी अनेक ज्योतिष ग्रन्थ उत्तम २ विद्यमान हैं । परन्तु यह नारदसंहिता आर्ष ग्रन्थ है । इसका वेदाङ्गहोना यथार्थही है । सुबोध होनेपर भी कहीं २ विषयके गहन होनेसे शास्त्र कठिन होताही है इससे सर्वसाधारण इसके समस्त आशयको भलीभांति जानसकें यह समझकर हमने बेरी-ग्रामनिवासी पण्डित वसतिराम ज्योतिर्विद् द्वारा भाषाटीका बनवायकर इस संहिताको सुन्दर टाइप और कागजमें मुद्रित कराकर उत्तम जिल्द बँधाय तैयार किया है आशा है कि लोग इस ग्रन्थका अध्ययन कर अपना तथा दूसरोंका उपकार करेंगे.



॥ श्रीः ॥

अथ भाषाटीकानारदसंहिताविषयानुक्रमणिका ।



विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अध्याय १.		कुलिकादियोग	६५
मंगलाचरण	१	अध्याय ६.	
ज्योतिःशास्त्रके आचार्य... ..	१	नक्षत्रप्रकरण	६७
ज्योतिः शास्त्रका उद्देश... ..	२	अधोमुख नक्षत्र	७२
शास्त्रोपनयन	३	तिर्यङ्मुख नक्षत्र... ..	७३
अध्याय २.		ऊर्ध्वमुख नक्षत्र	७४
संवत्सराधिप	४	स्थिरसंज्ञक नक्षत्र	७४
सूर्यचार	७	क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र... ..	७५
चंद्रचार	१०	अश्वसुहूर्त	७५
भौमचार	१३	हलप्रवाहसुहूर्त	७५
बुधचार	१५	रोगीका स्नानसुहूर्त	७७
गुरुचार	१९	नृत्यसुहूर्त	७७
शुक्रचार	२६	चंद्रोदयविचार	७८
शनिचार	२८	राजयात्रा	७८
राहुचार	२९	नक्षत्रोंकी तारासंख्या	८०
केतुचार	३२	नक्षत्रोंसे वृक्षोंकी उत्पत्ति	८१
अध्याय ३.		अध्याय ७.	
संवत्सरप्रकरण	३७	योगप्रकरण	८३
संवत्सरफल	४०	योगोंके स्वामी	७७
अयन तथा ऋतुविचार... ..	५२	अध्याय ८.	
अध्याय ४.		करणफल	८५
तिथिलक्षण	५५	भद्राका अन्यप्रकार	७७
अध्याय ५.		अध्याय ९.	
वारलक्षण	६२	शुभाशुभसुहूर्त	८६
सूर्यादिवारोंमें शुभाशुभ कर्म	६४		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अध्याय १०.		अध्याय १६.	
ऋकचयोग	८८	आधानप्रकरण	११९
संवर्तकयोग	८९	अध्याय १७.	
सिद्धियोग	९०	पुंसवनप्रकरण	१२०
दग्धयोग	९१	अध्याय १८.	
अध्याय ११.		सीमितोन्नयन	१२१
संक्रांतिप्रकरण	९३	अध्याय १९.	
अध्याय १२.		जातकर्मविचार	१२२
गोचरप्रकरण	९९	अध्याय २०.	
अध्याय १३.		नामकरणविचार... ..	१२३
चन्द्रबल	१०३	अध्याय २१.	
ताराबल	१०४	नवान्नप्राशनविचार	१२४
अध्याय १४.		अध्याय २२.	
अथ लग्नफल	१०५	चौलकर्म	१२५
मेषलग्नफल	"	अध्याय २३.	
वृषल०	१०६	मंगलांकुरार्पणकरना	१२७
मिथुनल०	"	अध्याय २४.	
कर्कल०	"	उपनयन विचार	१२८
सिंहल०	"	अध्याय २५.	
कन्याल०	१०७	ह्युरिकाबंधन विचार	१३७
तुलाल०	"	अध्याय २६.	
वृश्चिकल०... ..	"	समावर्तन विचार	१४०
धनल०	"	अध्याय २७.	
मकरल०	१०८	विवाहप्रश्नविचार	१४१
कुंभल०	"	विवाहप्रश्नका शुभाशुभ विचार	१४२
मीनल०	"	अध्याय २८.	
लग्नांके शुभाशुभफल	१०९	कन्यावरणविचार	१४४
अध्याय १५.			
रजस्वलाविचार	१११		
प्रथमार्तवविचार... ..	"		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अध्याय २९.		सद्योवृष्टिलक्षण	२३३
विवाहप्रकरण	१४६	वर्षाका शुभाशुभफल	२३५
होराचक्र देखना... ..	१५४	अध्याय ३६.	
द्वेषकाण चक्र	१५५	कूर्मका विभागकरना	२३७
त्रिंशंश चक्र	१५६	अध्याय ३७.	
विषघटी	१६१	उत्पत्तिप्रकरण	२३९
दुष्टमुहूर्त	१६२	उत्पातके अर्थ होम	२४१
विवाहमें शुभाशुभग्रह	१७१	अध्याय ३८.	
गणविचार	१७७	काकमैथुनदेखनेसे दोष	२४३
योनिविचार	१७९	काकघातव्रत करना	"
वर्णविचार	"	अध्याय ३९.	
गंडांतजन्मविचार	१८३	छिपकली (पल्ली) का शुभफल	२४५
लग्नका सूक्ष्मकाल	"	छिपकली तथा किरकाँटका शु-	
अध्याय ३०.		भाशुभफल	"
देवप्रतिष्ठा	१८५	किरकाँटके अशुभफलकी शांति	२४७
अध्याय ३१.		अध्याय ४०.	
वास्तु विधान	१८९	कपोतके घरमें प्रवेशसे शुभाशुभ	
वास्तुप्रकरण दूसरा प्रकार	१९५	फल	२४८
क्षेत्रफल	१९६	कपोतप्रवेशशांति	२४९
राशिफल	"	विंगला (कोतरी) के शब्दका	
अध्याय ३२.		शुभाशुभफल	२५०
वास्तुलक्षण	२०४	अध्याय ४१.	
अध्याय ३३.		शिथिलीजनन (अचानक गिर-	
यात्राप्रकरण	२०८	ना) प्रकार	२५१
दिक्रस्वामि और लालाटिकयोग	२१०	शिथिलीजनन शुभाशुभफल	"
अन्य चित्रपदयोग	२१८	शिथिलीजननशांति	"
अध्याय ३४.		अध्याय ४२.	
नववास्तुप्रवेशमुहूर्त	२३०	इन्द्रलुप्त (केशोंके गिरने) का प्रकार	२५३
अध्याय ३५.		तथा उसकी शांति	"
वर्षाप्रश्न	२३२		

(८)

नारदसंहिता-विषयानुक्रमणिका ।

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अध्याय ४३.		अध्याय ५१.	
उल्का तथा उल्काके नाम ...	२५४	भूकंपलक्षण
उल्काओंके शुभाशुभफल ...	२५५	भूकंपसे विप्रादिवर्णोंको शु-	...
अध्याय ४४.		भाशुभ... ..	२७४
परिवेष (मंडल) का प्रकार	२६०	अध्याय ५२.	
मंडलके शुभाशुभफल ...	२६१	अश्विनी-आदिनक्षत्रोंमें जन्मनेके	
अध्याय ४५.		फल	२७६
इन्द्रधनुषलक्षण ...	२६५	अध्याय ५३.	
इन्द्रधनुषसे शुभाशुभफल ...	"	मिश्रप्रकरण ...	२८२
अध्याय ४६.		ग्रहोंके स्थान ...	"
गंधर्वनगर दर्शन ...	२६७	अभ्यंगस्नान करना ...	२८३
तथा इसके फल... ..	"	विशेषतिथिमाहात्म्य ...	२८४
अध्याय ४७.		वैशाखादि मासोंका विशेष	
प्रतिसूर्यलक्षण तथा फल ...	२६८	माहात्म्य ...	२८६
अध्याय ४८.		तिथिमें शून्य लग्न... ..	२८७
निर्घातलक्षण ...	२६९	तिथिमें शून्यमास ...	२८८
निर्घात (वायुकेसंघर्षणसे बिज		गंडांतविचार ...	२८९
ली पडना) से अशुभ फल	"	अध्याय ५४.	
अध्याय ४९.		अश्वशांतिविचार... ..	२९१
दिग्दाहलक्षण ...	२७०	अध्याय ५५.	
दिग्दाह (सूर्यके उदयास्तसमय		श्राद्धविचार ...	२९७
का तेज) से अशुभ फलकथन	२७१	पुत्तलविधान ...	"
अध्याय ५०.		श्राद्धके अर्थ निषिद्धदिन ...	२९८
रजोलक्षण (धूलका प्रकार)...	२७२	श्राद्धके अर्थ शुभदिन ...	२९९
धूलीचढ़नेसे शुभाशुभकथन ...	२७३		

इति भाषाटीका-नारदसंहिताविषयानुक्रमणिका समाप्ता ।

॥ श्राः ॥

अथ नारदसंहिता

भाषाटीकासहिता ।



अणोरणुतरः साक्षादीश्वरो महतो महान् ॥

आत्मा गुहायां निहितो जंतोर्जयत्यतीन्द्रियः ॥ १ ॥

सूक्ष्मसेभी अत्यन्त सूक्ष्म और महान्से भी अत्यन्त महान् ऐसे परमात्मा जो कि अतीन्द्रिय याने किसी चक्षु आदि इंद्रियसे भी ग्रहण नहीं किये जाते हैं वे साक्षात् परमेश्वर जीवके अंतःकरणमें उत्कर्षतासे वर्तते हैं ॥ १ ॥

ब्रह्माचार्योवसिष्ठोऽत्रिर्मनुः पौलस्त्यलोमशौ ॥

मरीचिरंगिरा व्यासो नारदः शौनको भृगुः ॥ २ ॥

ब्रह्माजी, आचार्य, वसिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, लोमश, मरीचि, अंगिरा, वेदव्यास, नारद, शौनक, भृगु ॥ २ ॥

च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः ॥

अष्टादशैते गंभीरा ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाः ॥ ३ ॥

च्यवन, यवनाचार्य, गर्ग, कश्यप, पराशर, ये अठार हूँ गंभीर ज्योतिःशास्त्रको प्रवर्त करनेवाले भये हैं ॥ ३ ॥

सिद्धांतसंहिता होरा रूपं स्कंधत्रयात्मकम् ॥

वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिःशास्त्रमनूत्तमम् ॥ ४ ॥

(२)

नारदसंहिता ।

सिद्धांत, संहिता, होरारूप, तीन स्कंधों वाला वेदका निर्मल
नेत्ररूप परमोत्तम ज्योतिःशास्त्र ऐसे यह ग्रंथ कहा है ॥ ४ ॥

अस्य शास्त्रस्य संबन्धो वेदांगमिति कथ्यते ॥

अभिधेयं च जगतः शुभाशुभनिरूपणम् ॥ ५ ॥

यह ज्योतिःशास्त्र वेदांग कहलाता है जगत्का शुभ अशुभ
हालको वर्णन करताहै ॥ ५ ॥

यज्ञाध्ययनसंक्रांतिग्रहषोडशकर्मणाम् ॥

प्रयोजनं च विज्ञेयं तत्तत्कालविनिर्णयात् ॥ ६ ॥

यज्ञ, अध्ययन, संक्रांतिका पुण्यकाल, ग्रह षोडशकर्म, इन्होंके
यथार्थ समयका निर्णय (मुहूर्त) ज्योतिःशास्त्रसे ही होता है ॥ ६ ॥

विनैतदखिलं श्रौतस्मार्तकर्म न सिध्यति ॥

तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा ॥ ७ ॥

इसके बिना संपूर्ण श्रुति स्मृतिमें कहाहुआ कर्म सिद्ध नहीं होवे
इस लिये ब्रह्माजीने जगत्की सिद्धिके वास्ते पहिले ज्योतिःशास्त्र
रचा है ॥ ७ ॥

तं विलोक्याथ तत्सूनुर्नारदो मुनिसत्तमः ॥

उक्त्वा स्कंधद्वयं पूर्वं संहितास्कंधमुत्तमम् ॥ ८ ॥

तिसको देखकर ब्रह्माजीके पुत्र नारद मुनि पहिले दोस्कंध
बनाकर ॥ ८ ॥

वक्ष्ये शुभाशुभफलज्ञप्तये देहधारिणाम् ॥

होरास्कंधस्य शास्त्रस्य व्यवहारप्रसिद्धये ॥ ९ ॥

फिर देहधारियोंके शुभ अशुभ फलका ज्ञान होनेके वास्ते इस होरा स्कंध शास्त्रको व्यवहारकी सिद्धिके वास्ते कहते हैं ॥ ९ ॥

संज्ञा ह्युक्ताः समस्ताश्च सम्यग् ज्ञात्वा पृथक्पृथक् ॥

शास्त्रोपनयनाध्यायो ग्रहचारोऽब्दलक्षणम् ॥ १० ॥

तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगं तिथ्वृक्षसंज्ञकम् ॥

मुहूर्तौपग्रहोऽर्कस्य संक्रांतिर्गोचरस्तथा ॥ ११ ॥

इसमें अच्छे प्रकारसे अलग २ संज्ञा कही हैं शास्त्रोपनयनाध्याय अर्थात् इस शास्त्रका अभिप्राय वर्णन, ग्रहचार वर्णन, संवत्सरोका फल, तिथी, वार, नक्षत्र, और तिथी तथा नक्षत्रसे शीघ्र हुआ योग, इन्होंका विचार, मुहूर्त प्रकरण, उपग्रह प्रकरण, सूर्य संक्रांति फल, ग्रहगोचर, ॥ १० ॥ ११ ॥

चंद्रताराबलाध्यायः सर्वलग्नार्तवाह्वयः ॥

आधानपुंससीमंता जातनामान्नभुक्तयः ॥ १२ ॥

चंद्र तारा बल देखनेका अध्याय, सब लग्नोंका विचार प्रथम रजस्वलाका विचार आधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नाम करण अन्नप्राशन ॥ १२ ॥

चौलांकुरार्पणं मौंजीछुरिकाबंधनं क्रमात् ॥

समावर्तनवैवाहप्रतिष्ठासद्मलक्षणम् ॥ १३ ॥

चौलकर्म, मंगलाकुरार्पण, मौंजी बंधन, छुरिका बंधन ये सब क्रमसे कहे हैं और समावर्तनकर्म विवाहकर्म प्रतिष्ठाकर्म, घरोंका लक्षण, ॥ १३ ॥

यात्रा प्रवेशनं सद्योवृष्टिकूर्मविलक्षणम् ॥

उत्पातलक्षणं शांतिमिश्रकं श्राद्धलक्षणम् ॥ १४ ॥

यात्रा प्रकरण, प्रवेशमुहूर्त्त, सद्य वृष्टि, कूर्मलक्षण, उत्पात लक्षण,
शांतिकर्म, मिश्रकाध्याय, श्राद्धलक्षण ॥ १४ ॥

सप्तत्रिंशद्भिरध्यायैर्नारदीयाख्यसंहितां ॥

य इमां पठते भक्त्या स दैवज्ञो हि दैववित् ॥ १५ ॥

ऐसे इन प्रकरणों करके सैंतीस अध्यायोंसे यह नारद संहिता
बनाई गई है जो भक्तिसे इसको पढता है वह दैवको जानने वाला ज्यो
तिषी होता है ॥ १५ ॥

त्रिस्कंधज्ञो दर्शनीयः श्रौतस्मार्तक्रियापरः ॥

निर्दाभिकः सत्यवादी दैवज्ञो दैवविस्त्थिरः ॥ १६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां शास्त्रोपनयनाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

तीनों स्कंधों को जानने वाला, दर्शन करने योग्य, श्रुतिस्मृति
विहित कर्म करनेवाला पाखंडरहित सत्यवादी दैवको जानने वाला
स्थिर दैवज्ञ होता है ॥ १६ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां शास्त्रोपन

यनाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

चैत्राद्येष्वपि मासेषु मेषाद्याः संक्रमाः क्रमात् ॥

चैत्रादितिथिवारेशस्तस्याब्दस्य त्वर्धाश्वरः ॥ १ ॥

चैत्र आदि इन महीनोंमें मेष आदि संक्राति यथा क्रमसे

होती हैं और चैत्रशुक्ला प्रतिपदाको जो वार होता है वह वर्षका राजा कहलाता है ॥ १ ॥

मेषसंक्रांतिवारेशो भवेत्सोऽपि च भूपतिः ॥

कर्कटस्य तु वारेशो सस्येशस्तत्फलं ततः ॥ २ ॥

और मेषकी संक्रांतिको जो वार होवे वह सेनापति होता है कर्क की संक्रांतिको जो वार हो वह सस्यपति होता है ॥ २ ॥

तुलासंक्रांतिवारेशो रसानामधिपः स्मृतः ॥

मकराधिपतिः साक्षान्नीरसस्य पतिः क्रमात् ॥ ३ ॥

तुलाकी संक्रांतिका वार रसेश होता है और मकरकी संक्रांति का जो वार होवे वह नीरसेश अर्थात् सुवर्ण आदि धातुओंका तथा वज्रादिकोंका पति होता है ॥ ३ ॥

अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा दिवाकरः ॥

तस्मिन्नब्दे नृपक्रोधः स्वल्पसस्यार्घवृष्टिकृत् ॥ ४ ॥

वर्षपति (राजा) वा सेनापति (मंत्री) अथवा सस्येश सूर्य हो तो उस वर्षमें राजओंको क्रोध रहे थोड़ी खेती हो अन्नका भाव महंगा रहे वर्षा थोड़ी होवे ॥ ४ ॥

अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा निशाकरः ॥

तस्मिन्नब्दे करोति क्षमां पूर्णां शालिफलेक्षुभिः ॥ ५ ॥

वर्षपति वा सेनापति तथा सस्यपति चंद्रमा होय तो उस वर्ष में गेहूं चावल आदि धान्य तथा ईख आदि से भरपूर पृथ्वी होवे ॥ ५ ॥

अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा महीसुतः ॥

तस्मिन्नब्दे चौरवह्निवृष्टिक्षुद्रयकृत्सदा ॥ ६ ॥

जो राजा व मंत्री तथा सस्यपति मंगल होय तो उस वर्षमें चौर तथा अग्निका भयहो वर्षा नहींहो दुर्भिक्षहो ॥ ६ ॥

अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा शशांकजः ॥

अतिवायुं स्वल्पवृष्टिं करोति नृपविग्रहम् ॥ ७ ॥

राजा व मंत्री तथा सस्यपति बुध होतो अत्यन्त पवन चले थोड़ी वर्षाहो राजाओंका युद्ध होवे ॥ ७ ॥

अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा सुरार्चितः ॥

करोत्यनुत्तमां धात्रीं यज्ञधान्यार्थवृष्टिभिः ॥ ८ ॥

जो राजा व मंत्री तथा सस्यपति बृहस्पति होय तो यज्ञ धान्य द्रव्य वर्षा, इन्हों करके पृथ्वी परिपूर्ण होवे ॥ ८ ॥

अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा भृगोः सुतः ॥

करोति सर्वां संपूर्णां धात्रीं शालिफलेक्षुभिः ॥ ९ ॥

जो राजा व मंत्री तथा सस्यपति शुक्र होय तो चावल धान्य ईस आदिसे भरपूर पृथ्वी हो ॥ ९ ॥

अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वार्कनंदनः ॥

अंतकश्चौरवह्नयबुधान्यभूपभयप्रद्रः ॥ १० ॥

जो राजा व मंत्री तथा नरपति वा सस्यपति शनि होय तो दुर्भिक्ष हो चौर अग्नि जल धान्य राजा इन्होंका भय होय ॥ १० ॥

ज्ञात्वा बलाबलं सम्यग्वदेत्फलनिरूपणम् ॥

दंडाकारेऽर्कवेधे वा ध्वांक्षाकारेऽथ कीलके ॥ ११ ॥

दृष्टेऽर्कमंडले व्याधिर्भीतिश्चैरार्थनाशनम् ॥

छत्रध्वजपताकाद्यैराकारैस्तिमिरैर्धनैः ॥ १२ ॥ ॥

रविमंडलगैर्धूमैः स्फुलिंगैर्जननाशनम् ॥

सितरक्तैः पीतकृष्णैस्तैर्मिश्रैर्विप्रपूर्वकान् ॥ १३ ॥

ऐसे संपूर्ण बलाबल देखकर संवत्सरका फल कहना चाहिये अब सूर्यचार फल कहते हैं कि दंडके आकार काग तथा कीलके आकार सूर्यमें बेध दीख पड़े तो पीड़ा भय चोर द्रव्यनाश ये उपद्रव हों और छत्र ध्वजा पताका आदि अंधकार दीख पड़े सूर्य मंडलमें धँवा सरीखा दीखे अग्निके किणके दीखें तो मनुष्योंका नाश हो सफेद लाल पीली काली मिली हुई ऐसी सूर्यकी किरण दीखें तो बथाक्रमसे ब्राह्मण आदिकोंका नाश हो ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३

हन्ति द्वित्रिचतुर्भिर्वा राज्ञोऽन्यजन संक्षयः ॥

ऊर्ध्वैर्भानुकैस्ताम्रैर्नाशं याति स भूपतिः ॥ १४ ॥

और दो तीन चार वर्णकी मिली हुई किरण दीखे तो राजाओंका नाश हो अन्य प्रकार कुछ दुष्ट चिह्न हों तो प्रजाका नाश हो तांबासरीखा वर्णवाली सूर्यकी किरण ऊपरको फैली हुई हो तो राजाका नाश हो ॥ १४ ॥

पीतैर्नृपसुतः श्वेतैः पुरोधाश्चित्रितैर्जनाः ॥

धूमैर्नृपः पिशंगैश्चजलदोऽधोमुखैस्तथा ॥ १५ ॥

पीलावर्ण हो तो राजाके पुत्रका नाश, सफेद हो तो राजाका पुरोहित नष्टहोय अनेक वर्णोंकी मिली हुई हो तो प्रजानाश हो और धूम्र

वर्ण वा भरा वर्णकी किरण बादलोंसे नीचेको मुख करके दीखें तो राजाका नाश हो ॥ १५ ॥

उदयास्तमये काले स्वास्थ्यं तैः पांडुसन्निभैः ॥

भास्करस्ताम्रसंकाशः शिशिरे कापिलोऽपिवा ॥ १६ ॥

उदय तथा अस्त समय कछु कपिलार्ई सहित सफेद स्वच्छ किरण हो और तांबा सरीखा लालवर्ण अथवा कपिलार्ईवर्ण सूर्य होवे तो शिशिर ऋतुमें अच्छा कहा है ॥ १६ ॥

कुंकुमाभो वसंततौ कापिलो वापि शस्यते ॥

अपांडुरः स्वर्णवर्णो ग्रीष्मे चित्रो जलागमे ॥ १७ ॥

वसंतऋतुमें केशर सरीखा लालवर्ण वा कपिलवर्ण अच्छा है और ग्रीष्म (गरमी) ऋतुमें लालवर्ण सोनासरीखा और वर्षाऋतुमें विचित्रवर्ण अच्छा कहा है ॥ १७ ॥

पद्मोदराभः शरदि हेमंते लोहितच्छविः ॥

हेमंते प्रावृषि ग्रीष्मे रोगाणां वृष्टिभीतिकृत् ॥ १८ ॥

शरदऋतुमें कमलके मध्य भाग सरीखा हेमंतमें लालवर्ण अच्छा है और वर्षा तथा ग्रीष्म वा हेमंत ऋतुमें लालवर्ण होवे तो रोग होवे वर्षा नहीं हो ॥ १८ ॥

पीताभः कृष्णवर्णो पि लोहितस्तु यथाक्रमात् ॥

इन्द्रचापार्द्धमूर्तिश्चेद्भानुर्भूपविरोधकृत् ॥ १९ ॥

और पीला वर्ण काला वर्ण फिर लाल ऐसे क्रमसे तीन रंगोंवाला इंद्र धनुष होवे तथा सूर्यमें ये रंग देख पड़ें तो राजाओंका युद्ध होवे ॥ १९ ॥

मयूरपत्रसंकाशो द्वादशाब्दं न वर्षति ॥

शशरक्तनिभे भानौ संग्रामो ह्यचिराद्भवेत् ॥ २० ॥

मोरकी पंख सरीखा सूर्यका वर्ण दीख पडे तो वारहवर्ष तक वर्षा नहीं हो शशाके रक्त समान लालवर्ण होवे तो शीघ्र ही युद्धहो २०

चंद्रस्य सदृशो यत्र चान्यं राजानमादिशेत् ॥

अर्के श्यामे कीटभयं भस्माभे शस्त्रतो भयम् ॥ २१ ॥

चंद्रमाके समान वर्ण होवे तो अन्य राजाका राज्यहो काला वर्ण होय तो प्रजामें कीट सर्पादिकका भयहो भस्मसरीखा वर्ण होय तो शस्त्रभय (युद्ध) होवे ॥ २१ ॥

छिद्रेऽर्कमंडले दृष्टे तदा राजविनाशनम् ॥

घटाकृतिः क्षुद्रयकृत्पुरहा तोरणाकृतिः ॥ २२ ॥

सूर्यमंडलमें छिद्र दीख पडे तो राजाओंका नाश हो घटा सरीखा आकार दीख जाय तो दुर्भिक्ष भय हो, तोरणकी आकृति दीखे तो शहर (नगर) भंगहो ॥ २२ ॥

छत्राकृतिर्देशहंता खंडभानुर्नृपांतकृत् ॥

उदयास्तमये भानोर्विद्युदुल्काशनिर्यदि ॥ २३ ॥

छत्र सरीखा आकार होय तो देश नष्टहो खंडित सूर्य होवे तो राजा नष्ट होवे सूर्य अस्त होते समय अथवा उदय होते समय कोई तारा टूटे अथवा विजली गिरे तो ॥ २३ ॥

तदा नृपवधो ज्ञेयस्त्वथवा राजविग्रहः ॥

पक्षं पक्षाद्धमर्केन्दु परिविष्टावहर्निशम् ॥ २४ ॥

राजा नष्ट हो अथवा राज्य विग्रह हो पंद्रह दिनतक अथ वा सात दिनतक सूर्य चंद्रमाके दिनरात निरंतर मंडल रहे तो ॥ २४ ॥

राजानमन्यं कुरुतो लोहिताबुदयास्तगौ ॥
 उदयास्तमये भानुराच्छिन्नः शस्त्रसन्निभैः ॥ २५ ॥
 घनैर्युद्धं खरोघ्राद्यैः पापरूपैर्भयप्रदः ॥
 ऋतुकालानुरूपोऽर्कः सौम्यमूर्तिः शुभावहः ॥ २६ ॥
 रविचारमिदं सम्यग् ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिभिः ॥ २७ ॥
 इति श्रीनारदीयसंहितायां सूर्यचारः ॥

दूसरा राजाका राज्य हो और उदय अथवा अस्त होते समय सूर्य वा चंद्रमा रुधिरसमान लालवर्ण हों तो भी राज्य नष्ट हो उदयसमय वा अस्तसमय सूर्य तथा चंद्रमाको शस्त्र सरीखे आकार वाले बादल आच्छादित कर लें तो युद्धहो और गधा ऊंट आदिके आकारवाले बादलोंसे आच्छादित होय तो प्रजामें भयहो तथा ऋतु और कालके अनुरूप सुंदर स्वच्छ आकार सूर्य होय तो शुभ फल होवे इस प्रकार यह सूर्यचार पंडित जनोंसे अच्छे प्रकारसे समझना चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां सूर्यचारः ।

याम्यशृंगोन्नतश्वंद्रोऽशुभदो मीनमेषयोः ॥

सौम्यशृंगोन्नतश्रेष्ठो नृयुग्मकरयोस्तथा ॥ १ ॥

उदयकालमें मीन और मेषके चंद्रमाका शृंग दक्षिणकी तर्फ ऊंचा हो तो अशुभदायक है और मिथुन मकरके चंद्रमाका उत्तरकी तर्फका कोना ऊंचा हो तो शुभ है ॥ १ ॥

समोऽक्षघटयोः कर्कसिंहयोः शरसन्निभः ॥

चापकीटभयोः स्थूलः शूलवत्तौलिकन्ययोः ॥ २ ॥

वृषभ कुंभके चंद्रमाके दोनों कोने समान, कर्क वा सिंहके चंद्रमाके कोने बाणाकार, वृश्चिक और धनके चंद्रमाका स्थूल आकार, तुला तथा कन्याके चंद्रमाका शूलके आकार होय तो शुभदायक है ॥ २ ॥

विपरीतोदितश्चंद्रो दुर्भिक्षकलहप्रदः ॥

यथोक्तोऽभ्युदितश्चंद्रोः प्रतिमासं सुभिक्षकृत् ॥ ३ ॥

इनसे विपरीत चंद्रमा उदय होवे तो दुर्भिक्ष तथा कलह करे और महीना २ प्रति जैसा कहा है वैसाही उदय होय तो सुभिक्ष कारक जानना ॥ ३ ॥

आषाढद्वयमूलेंद्रधिष्ण्यानां याम्यगः शशी ॥

अग्निप्रदस्तोयचरवनसर्पविनाशकृत् ॥ ४ ॥

पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, ज्येष्ठा, मूल, इन नक्षत्रोंमें दक्षिणचारी चंद्रम होय तो अग्निभय हो जलचर जीव वनसर्प इन्होंका नाशहो ॥ ४ ॥

विशाखामैत्रयोर्याम्यपार्श्वगः पापकृत्सदा ॥

मध्यगः पितृदैवत्ये द्विदैवत्ये शुभोत्तरे ॥ ५ ॥

विशाखा तथा अनुराधा नक्षत्रपर आया हुआ चंद्रमा दक्षिणकी तर्फ होके गमन करे तो सदा अशुभ है मघापर मध्यमचारी विशाखापर आवे तब उत्तरचारी चंद्रमा शुभदायक है ॥ ५ ॥

सम्प्राप्य पौष्णभाद्रौद्रात्षट् चर्क्षाणि शशी शुभः ॥

मध्यगो द्वादशर्क्षाणि अतीत्य नव वासवात् ॥ ६ ॥

रेवतीआदि छःनक्षत्रोंपर आवे तब चंद्रमा शुभहै ग्रंथांतरोंमें लिखाहै कि ये छः अनागत नक्षत्रहैं अर्थात् उत्तराभाद्रपदपर स्थित चंद्रमा रेवतीके तारा पर दीख पडता है इसलिये शुभ कहा औ आर्द्रा आदि बारह नक्षत्रोंपर मध्यम चारी शुभहै ॥ ६ ॥

यमेंद्राहिमतोयेशा मरुतश्चाद्धितारकाः ॥

ध्रुवादिति द्विदेवाः स्युरध्यर्द्धाश्च पराः स्समाः ॥ ७ ॥

भरणी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, शतभिषा, स्वाती ये अर्द्धसंज्ञक तारे हैं और ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र, पुनर्वसु विशाखा ये अर्ध्यर्द्ध संज्ञक हैं बाकी रहे नक्षत्र सम कहे हैं ॥ ७ ॥

याम्यशृंगोन्नतः श्रेष्ठः सौम्यशृंगोन्नतः शुभः ॥

शुक्ले पिपीलिकाकारे हानिवृद्धी यथाक्रमात् ॥ ८ ॥

दक्षिणका शृंग ऊंचा श्रेष्ठ है और उत्तरका शृंग भी ऊंचा श्रेष्ठ है शुक्लपक्षमें कीडीके आकार याने मध्यमें पतला ऐसा चंद्रमा हानि और कृष्णपक्षमें शुभ दायक है और दक्षिणको स्थूल होवे तो हानि उत्तरको ज्यादा स्थूल हो तो वृद्धिदायकहै ॥ ८ ॥

सुभिक्षकृद्विशालेंदुरविशालोर्घनाशनः ॥

अधोमुखे शस्त्रभयं कलहो दंडसन्निभे ॥ ९ ॥

स्थूल सुंदर चंद्रमा सुभिक्षकारक है कृश चंद्रमा उदय होय तो दुर्भिक्षकारक है नीचेको मुख होय तो शस्त्र भय हो दंडाकार होय तो प्रजामें कलह हो ॥ ९ ॥

कुजाद्यैर्निहते शृंगे मंडले वा यथाक्रमात् ॥

क्षेमार्धवृष्टिर्नृपतिजनानां नाशकृच्छशी ॥ १० ॥

इति श्रीनारदीयसहितायां चन्द्रचारः ॥

मंगलादि ग्रहों करके चंद्रमंडलका शृंग वेधित होवे तो क्रमसे क्षेम नाश, भावमहिगा, वर्षानाश, राजानाश, प्रजानाश, यह फल होता है ॥ १० ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां चंद्रचारः ।

सप्ताष्टनवमर्क्षेषु स्वोदयाद्रुक्ते कुजे ॥

तद्वक्रमुष्णं तस्मिन्स्यात्प्रजापीडाग्निसंभवः ॥ १ ॥

अपने उदयके नक्षत्रमे सातवां आठवां नवमा नक्षत्रपर मंगल वक्री होय तो उस नक्षत्रपर रहे तबतक प्रजामें पीडा हो अग्नि-कोप हो ॥ १ ॥

दशमैकादशे ऋक्षे द्वादशे वा प्रतीपगे ॥

वक्रमल्पसुखं तस्मिन्स्तस्य वृष्टिविनाशनम् ॥ २ ॥

और दशवाँ और ग्यारहवाँ बारहवाँ नक्षत्रपर वक्री होयतो प्रजामें थोडा सुख वर्षाका नाश ॥ २ ॥

कुजे त्रयोदशे ऋक्षे वक्रिते वा चतुर्दशे ॥

व्यालाख्यवक्रं तत्तस्मिन्सस्यवृद्धिरहेर्भयम् ॥ ३ ॥

रंग उदय नक्षत्रसे तेरहवें चौदहवें नक्षत्रपर वक्री होय तो यह व्यालनामक वक्री कहा है इसमें खेतीकी वृद्धि हो और सर्पोंका भय हो ॥ ३ ॥

पंचदशे षोडशक्षे तद्वक्रं रुधिराननम् ॥

सुभिक्षकृद्भयं रोगान्करोति यदि भूमिजः ॥ ४ ॥

पंद्रहवें सोलहवें नक्षत्रपर वक्री होय तो वह रुधिरानन वक्री कहा है तहां सुभिक्ष हो भय और रोग होवे ॥ ४ ॥

अष्टादशे सप्तदशे तदासिमुसलं स्मृतम् ॥

दस्युभिर्धनहान्यादि तस्मिन्भौमे प्रतीपगे ॥ ५ ॥

अठारहवां नक्षत्र वा सतरहवां नक्षत्रपर वक्र हो वह असिमुसल नामक है तहां चौरादिकोंसे धननाश हो ॥ ५ ॥

फाल्गुन्योरुदितो भौमो वैश्वदेवे प्रतीपगः ॥

अस्तगश्चतुरास्यर्क्षे लोकत्रयविनाशकृत् ॥ ६ ॥

पूर्वफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रोंपर मंगलका उदय हो और उत्तषाराढा नक्षत्रपर वक्री हो और रोहिणी नक्षत्रपर अस्त होय तो त्रिलोकीको नष्ट करे ॥ ६ ॥

उदितः श्रवणे पुष्ये वक्रतो नृपहानिदः ॥

यद्दिग्भ्योऽभ्युदितो भौमस्तद्दिग्भूपभयप्रदः ॥ ७ ॥

श्रवण पुष्य इनपर उदयहोकर वक्री होय तो राजाकी हानि करे जिस दिशामें मंगल उदय हो उस दिशाके राजाको भयकारक जानना ॥ ७ ॥

मघामध्यगतो भौमस्तत्रैव च प्रतीपगः ॥

अवृष्टिशस्त्रभयदः पांडुदेशाधिपांतकृत् ॥ ८ ॥

मघा नक्षत्रपर मंगल उदय होवे फिर वक्री होजाय तो वर्षा नहीं हो प्रजामें युद्धभय पांडुदेशके राजाका नाश हो ॥ ८ ॥

पितृद्विद्वैवधातृणां भिद्यंते योगतारकाः ॥

दुर्भिक्षं मरणं रोगं करोति यदि भूमिजः ॥ ९ ॥

मघा, विशाखा, रोहिणी इन नक्षत्रोंपर मंगल हो तब इनके ताराओंको भेदन करे तो प्रजामें दुर्भिक्ष महामारी रोग होवे ॥ ९ ॥

त्रिषूतरासु रोहिण्यां नैऋत्ये श्रवणेंदुभे ॥

अवृष्टिदश्वरन्भौमे रोहिणीदक्षिणे स्थितः ॥ १० ॥

तीनों उत्तरा, रोहिणी, मूल, श्रवण, मृगशिरा इन नक्षत्रोंपर मंगल होय अथवा रोहिणी नक्षत्रके तारासे दक्षिणको स्थित होय तो वर्षा नहीं हो ॥ १० ॥

भूमिजः सर्वधिष्य्यानामुदग्गामी शुभप्रदः ॥

याम्यगोनिष्टफलदो भेदे भेदकरो नृणाम् ॥ ११ ॥

यह मंगल सब नक्षत्रोंसे उत्तरकी तरफ होकर चले तो शुभ-दायक जानना और दक्षिणकी तरफ होकर चले तो अशुभ दायी है तारांको भेद करे तो प्रजामें युद्ध हो ॥ ११ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां भौमचारः ॥

विनोत्पातेन शशिजः कदाचिन्नोदयं व्रजेत् ॥

अनावृष्ट्यग्निभयकृदनर्थं नृपविग्रहम् ॥ १ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां भौमचारः समाप्तः ॥

कभी उत्पातके बिनाही समयपर बुध उदय नहीं होतो वर्षा नहीं हो अग्निभय अनर्थ और राजाओंका युद्ध होवे ॥ १ ॥

वसुश्रवणविश्वेंदुधातृभेषु चरन्बुधः ॥

भिनत्ति यदि तत्तारामवृष्टिव्याधिभीतिकृत् ॥ २ ॥

धनिष्ठा श्रवण उत्तराषाढा मृगशिरा रोहिणी इन नक्षत्रोंपर विचरता हुआ बुध जो इन ताराओंको भेदन करे तो वर्षा नहीं हो प्रजा में रोग भयहो ॥ २ ॥

आर्द्रादिपितृभांतिषु दृश्यते यदि चंद्रजः ॥

तदा दुर्भिक्षकलहरोगाणां वृद्धिभीतिकृत् ॥ ३ ॥

आर्द्रा आदि मघा नक्षत्रपर्यंत बुध स्थित रहे और इन ताराओंको भेदन करे तब दुर्भिक्ष कलह रोग इन्होंकी वृद्धिसे प्रजामें भय हो ॥ ३ ॥

हस्तादिरसतारासु विचरन्निदुनंदनः ॥

क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं कुरुते पशुनाशनम् ॥ ४ ॥

हस्त आदि ज्येष्ठापर्यंत नक्षत्रोंपर बुध स्थित होय तो प्रजामें कुशल सुभिक्ष आरोग्य हो पशुओंका नाश हो ॥ ४ ॥

अहिर्बुध्न्यार्यमाग्नेययमभेषु चरन्त्यदि ॥

धातुक्षयं च जंतूनां करोति शशिनंदनः ॥ ५ ॥

उत्तरा भाद्रपदा उत्तरा फाल्गुनी कृत्तिका, भरणी इन नक्षत्रोंपर गति करता हुआ बुध होय तो जीवोंके शरीरकी सात धातुओंका नाश हो अर्थात् दुर्भिक्ष हो ॥ ५ ॥

दस्रवारुणनैर्ऋत्यरेवतीषु चरन्बुधः ॥

भिषकृतुरगवाणिज्यवृत्तीनां नाशकस्तदा ॥ ६ ॥

अश्विनी, शतभिषा, मूल, रेवती इन नक्षत्रोंपर विचरता हुआ बुध करता हुआ बुध, वैद्य अश्व तथा वणिजकी वृत्तिकरने वालोंका नाश करे ॥ ६ ॥

पूर्वात्रये चरन् सौम्यो योगतारां भिनत्ति चेत् ॥

क्षुच्छस्त्रामयचौरैभ्यो भयदः प्राणिनस्तदा ॥ ७ ॥

तीनों पूर्वाओंपर विचरताहुआ बुध अपने योग ताराको भदन करे तो दुर्मिक्ष, राजयुद्ध, रोग, चौर इन्होंसे प्राणियोंको भय हो ॥ ७ ॥

याम्याग्निधातृवायव्यधिष्ण्येषु प्राकृतागतिः ॥

ईशेंदुसार्पापित्र्येषु ज्ञेया मिश्राह्वया गतिः ॥ ८ ॥

भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, स्वाती इन्होंपर बुध होय तो बुधकी प्राकृता गति कही है आर्द्रा, मृगशिर, आश्लेषा, मघा इनपर होय तो मिश्रा गति कही है ॥ ८ ॥

संक्षिप्तादितिभाग्यार्थमेज्यधिष्ण्येषु या गतिः ॥

गतिस्तीक्ष्णाजचरणेहिर्बुध्न्येंद्राश्विपूषसु ॥ ९ ॥

योगांतिकांबुविश्वारव्यमूलगस्येंदुजस्य च ॥

घोरा गतिर्हरित्वाष्ट्रसुवारुणभेषु च ॥ १० ॥

पुनर्वसु, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पुष्य इन नक्षत्रोंपर संक्षिप्ता तथा पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी इन्होंपर होय तो तीक्ष्णा गति कही है पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, मूल इन नक्षत्रोंपर बुध होय तो योगांतिका गति कहलाती है । श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिषा इनपर होय तब घोरा गति कही है ॥ ९ ॥ १० ॥

इन्द्राग्निमित्रमार्तुडभेषु पापाह्वया गतिः ॥

प्राकृताद्यासु गतिषु ह्युदितोस्तमितोपि वा ॥ ११ ॥

एतावंति दिनान्येव दृश्यस्तावन्न दृश्यगः ॥

चत्वारिंशत्क्रमात्रिंशद्वाविंशद्विंशतिर्नव ॥ १२ ॥

और विशाखा, अनुराधा, हस्त इन नक्षत्रोंपर होय तब पापाँ गति कही है । इन प्राकृत आदि गतियोंपर प्राप्त हुआ बुध उदय होवे अथवा अस्त होजाय तब जितने दिनोंतक रहता है उनका प्रमाण यथाक्रमसे ऐसे जानना कि प्राकृता गतिमें ४० दिन फिर मिश्रामें ३० दिन संक्षिप्तामें २२ तीक्ष्णामें २० योगांतिकामें ९ दिन ॥ ११ ॥ १२ ॥

पंचदशैकादशाभिर्दिवसैः शशिनंदनः ॥

प्राकृतायां गतौ सस्यक्षेमरोग्यसुवृष्टिकृत् ॥ १३ ॥

घोरामें १५ और पापामें ११ दिनतक उदय वा अस्त रहता है इन गतियोंपर दृश्यहुवा भी बुध अदृश्यही रहता है प्राकृता गतिमें खेतीकी वृद्धि, कुशल, आरोग्य शुभवर्षा होवे ॥ १३ ॥

मिश्रसंतिक्षयोर्मध्ये फलदोऽन्यास्वनिष्टदः ॥

वैशाखे श्रावणे पौषे आषाढेष्युदितो बुधः ॥ १४ ॥

जनानां पापफलदस्त्वतरेषु शुभप्रदः ॥

इषोर्जमासयोः शस्त्रदुर्भिक्षाग्निभयप्रदः ॥

उदितश्चंद्रजः श्रेष्ठो रजतस्फटिकोपमः ॥ १५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां बुधचारः ।

और मिश्रा तथा संक्षिप्ता गतिमें भी शुभफल होता है अन्य गतियोंमें अशुभफल होता है वैशाख, श्रावण, पौष, आषाढ इन महीनोंमें बुध उदय होय तो मनुष्योंको अशुभ फल देता है और अन्य महीनोंमें उदय हो तो शुभफल देता है । आश्विन और कार्तिकमें उदय होय तो युद्ध, दुर्भिक्ष, अग्निभय ये फल करता है और चांदी तथा स्फटिक मणिके समान स्वच्छ उदय होवे तो बुध शुभ कहा है ॥ १४ ॥ १५ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां बुधचारः ।

अथ गुरुचारः ।

द्वीभा ऊर्जादिमासास्स्युः पंचांत्यैकादशस्त्रिभाः ॥

यद्विष्णुयाभ्युदितो जीवस्तत्रक्षत्राह्ववत्सरः ॥ १ ॥

कार्तिक आदि मास दो २ नक्षत्रोंसे होते हैं और पांचवाँ बारहवाँ ग्यारहवाँ ये महीने तीन २ नक्षत्रोंसे होते हैं जिस नक्षत्रपर बृहस्पति उदय हो उसही नामका वर्ष होता है इसका भावार्थ यह है कि, कृत्तिका आदि दो दो नक्षत्रकरके कार्तिक आदि वर्ष होते हैं पांचवाँ ग्यारहवाँ बारहवाँ ये वर्ष तीन २ नक्षत्रोंकरके होते हैं जैसे कि, कृत्तिका वा रोहिणीपर स्थित बृहस्पति उदय हो उस वर्षको कार्तिक कहते हैं, मृगशिर आर्द्रा में मार्गशिर वर्ष, पुनर्वसु पुष्यमें पौष, आश्लेषा मघामें माघ, पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनी हस्तमें फाल्गुन, चित्रा स्वातिमें चैत्र, विशाखा अनुराधामें वैशाख, ज्येष्ठ

मूलमें ज्येष्ठ,पूर्वाषाढा उत्तराषाढामें आषाढ, श्रवण, धनिष्ठामें श्रावण, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपदमें भाद्रपद, रेवती अश्विनी भरणीमें स्थित बृहस्पति उदय हो वह वर्षमें आश्विन कहाताहै ॥ १ ॥

पीडा स्यात्कार्तिके वर्षे रथगोश्रुपजीविनाम् ॥

क्षुच्छस्त्राग्निभयं वृद्धिः पुष्पकौसुंभजीविनाम् ॥ २ ॥

इस प्रकार कार्तिक वर्षमें बृहस्पति उदय हो तो रथ तथा गौ आदि पशुओंसे आजीविका करनेवाले, अग्निसे आजीविका करनेवाले, हलवाई आदि पुष्प वा कसुंभा आदिसे आजीविका करनेवाले इन्होंको पीडा हो और दुर्भिक्ष, युद्ध, अग्निभय हो ॥ २ ॥

अनावृष्टिः सौम्यवर्षे मृगाशुशलभांडजैः ॥

सर्वसस्यवधो व्याधिर्वैरं राज्ञां परस्परम् ॥ ३ ॥

मार्गशिर वर्षमें वर्षा नहीं हो तो, मृग, मूसा, टीडी, तोते आदि पक्षी इन्होंसे खेतीका नाश हो संपूर्ण प्रजामें बीमारी राजाओंका परस्पर वैर होवे ॥ ३ ॥

निवृत्तवैरा क्षितिपा जगदानंदकारकाः ॥

पुष्टिकर्मरताः सर्वे पौषेब्देध्वरतत्पराः ॥ ४ ॥

पौषसंज्ञक वर्षमें राजाओंमें परस्पर मित्रता प्रजामें आनंद संपूर्ण मनुष्य सुखी तथा यज्ञकरनेमें तत्पर रहैं ॥ ४ ॥

माघेऽब्दे सततं सर्वे पितृपूजनतत्पराः ॥

सुभिक्षं क्षेममारोग्यं वृष्टिः कर्षकसंमता ॥ ५ ॥

माघ वर्षमें निरंतर सब मनुष्य पितरोंका पूजन करनेमें तत्पर रहैं सुभिक्ष हो क्षेम आरोग्य हो किसान लोगोंके मनके माफिक वर्षा होय ॥ ५ ॥

चौराश्च प्रबलास्त्रीणां दौर्भाग्यं स्वजनाः स्वलाः ॥

क्वचिद्दृष्टिः क्वचित्सस्यं क्वचिद्दृष्टिश्च फाल्गुने ॥ ६ ॥

फाल्गुन नामक वर्षमें चोर प्रबल हो । स्त्रियोंको दुःख स्वज-
नोंमें दुष्टता वर्षा कहीं २ हो खेती थोड़ी निपजे ॥ ६ ॥

चैत्रेब्दे मध्यमा वृष्टिरुत्तमात्रं सुदुर्लभम् ॥

सस्यार्घवृष्टयः स्वल्पा राजानः क्षेमकारिणः ॥ ७ ॥

चैत्रनामक वर्षमें मध्यम वर्षा हो उत्तम अन्न महंगा हो वर्षा
थोड़ी हो राजाओंमें क्षेमकुशल रहे ॥ ७ ॥

वैशाखे धर्मनिरता राजानः सप्रजा भृशम् ॥

निष्पत्तिः सर्वसस्यानामध्वरोद्युक्तचेतसः ॥ ८ ॥

वैशाख वर्षमें राजालोग धर्ममें तत्पर रहें प्रजामें धर्मकी वृद्धि
संपूर्ण खेतियाँ अच्छी निपजें सबके मनका भय निवृत्त हो ॥ ८ ॥

वृक्षगुल्मलतादीनां क्षेमं सस्यविनाशनम् ॥

ज्येष्ठेब्दे धर्मतत्त्वज्ञाः सन्नृपाः पीडिताः परैः ॥ ९ ॥

ज्येष्ठ वर्षमें वृक्ष गुच्छ बेल आदिक तथा खेतियोंका नाश हे
धर्मतत्त्वको जाननेवाले राजालोग शत्रुओंसे पीडित होवें ॥ ९ ॥

क्वचिद्दृष्टिः क्वचित्सस्यं न तु सस्यं क्वचित्क्वचित् ॥

आषाढेब्दे क्षितीशाः स्युरन्योन्यजयकांक्षिणः ॥ १० ॥

आषाढ वर्षमें राजालोग आपसमें युद्धकी इच्छा करें कहीं वर्षा
हो कहीं खेती हो कहीं बिलकुल खेती नहीं हो ॥ १० ॥

अनेकसस्यसंपूर्णा सुरार्चनसमाकुला ॥

पापपाखंडहंत्री भूः श्रावणेब्दे विराजते ॥ ११ ॥

श्रावणनामक वर्षमें अनेक प्रकारकी खेतियोंसे शोभित तथा
देवताओंके पूजनसे समाकुल पाप पाखंडरहित पृथ्वी होवे ॥११॥

पूर्व तु सस्यसंपूर्तिर्नाशं यात्यपरं तु यत् ॥

मध्यवृष्टिर्महत्सस्यं नृपाणां समरं महत् ॥ १२ ॥

अब्दे भाद्रपदे लोके क्षेमाक्षेमं क्वचित्क्वचित् ॥

धनधान्यसमृद्धिश्च सुभिक्षमतिवृष्टयः ॥ १३ ॥

भाद्रपद वर्षमें पहिली खेती (सामणू) अच्छी हो और पिछली
खेती (सादू) नष्ट हो मध्यम वर्षा खेती अच्छी राजाओंका महान्
युद्ध हो और कहीं कुशल कहीं दुःख धन धान्यकी वृद्धि अत्यंत
वर्षा यह फल होता है ॥ १२ ॥ १३ ॥

सुवृष्टिः सर्वसस्यानि फलितानि भवन्ति च ॥

भवन्त्याश्वयुजे वर्षे संतुष्टाः सर्वजंतवः ॥ १४ ॥

आश्विननामक वर्षमें सुन्दर वर्षा संपूर्ण खेतियोंकी उत्पत्ति फल
अच्छा सब प्राणी सुखी यह फल होता है ॥ १४ ॥

सौम्यभागे चरन् भानां क्षेमरोग्यसुभिक्षकृत् ॥

विपरीतं गुरोर्याम्ये मध्ये च प्रतिमध्यमम् ॥ १५ ॥

बृहस्पति अपने योगताराके उत्तरकी तरफ होकर जाय तो प्रजामें
क्षेम आरोग्य सुभिक्ष हो दक्षिणकी तरफ गमन करे तो इससे विपरीत
फल हो मध्यमें रहे ती मध्यम फल हो ॥ १५ ॥

पीताग्निश्यामहरितरक्तवर्णोंगिराः क्रमात् ॥

व्याध्यग्निरणचौरास्त्रभयकृत्प्राणिनां तदा ॥ १६ ॥

बृहस्पतिका तारा पीला, अग्नि समान, श्याम, हरित, लालवर्ण होय तो यथाक्रमसे प्रजामें रोग, अग्निभय, युद्ध, चोर, शस्त्रभय होता है ॥ १६ ॥

अनावृष्टिर्धूम्रनिभः करोति सुरपूजितः ॥

दिवा दृष्टो नृपवधस्त्वथवा राज्यनाशनम् ॥ १७ ॥

धूमांसरीखा वर्ण होय तो वर्षा नहीं हो, दिनमें दर्शन होय तो राजाका नाश हो अथवा राज्य नष्टहो ॥ १७ ॥

संवत्सरशरीरः स्यात् कृत्तिकारोहिणी उभे ॥

नाभिस्त्वाषाढद्वितयमार्द्रा हृत्कुसुमं मघा ॥ १८ ॥

कृत्तिका रोहिणी ये दो नक्षत्र संवत्सरका शरीर हैं, पूर्वाषाढा उत्तराषाढा नाभिहै, आर्द्रा हृदय, मघा पुष्प है ॥ १८ ॥

दुर्भिक्षाग्निमहद्गीतिः शरीरैः क्रूरपीडिते ॥

नाभ्यां तु क्षुद्रयं पुष्पे सम्यक् मूलफलक्षयम् ॥ १९ ॥

शरीरके नक्षत्र अर्थात् कृत्तिका रोहिणी ये नक्षत्र क्रूर ग्रहोंकरके पीडित होवें तो दुर्भिक्ष हो अग्निभय और महान् भय हो नाभिके नक्षत्र क्रूरग्रहोंसे पीडित हो तो दुर्भिक्ष हो पुष्प पीडित हो तो मूल फलोंका नाशहो ॥ १९ ॥

हृदये सस्यनिधनं शुभं स्यात् पीडितः शुभैः ॥

मेषराशिगते जीवै त्वीतिर्मेषविनाशनम् ॥ २० ॥

हृदयके नक्षत्र पीडित होवें तो खेतीका नाशहो और इसी प्रकार ये सब अंग शुभ ग्रहोंसे पीडित होवें तो शुभ फल हो मेष-

राशिपर बृहस्पति होय तो टीडीआदि ईतिभय तथा मेंढाओंका नाश हो ॥ २० ॥

सस्यवृद्धिः प्रजारोग्यं वृष्टिः कर्षकसंमता ॥
वृषराशिगते जीवे शिशुह्वीपशुनाशनम् ॥
मध्या वृष्टिः सस्यहानिर्नृपाणां समरं महत् ॥ २१ ॥

खेतीकी वृद्धि प्रजाषे कुशल रहै किसान लोगोंके मनकी माफिक वर्षा हो वृषराशिपर बृहस्पति होय तो बालक स्त्री पशु इन्होंका नाशहो मध्यम वर्षा हो खेतीकी हानि राजाओंका महान युद्ध हो ॥ २१ ॥

जनानां भीतिरीतिश्च नृपाणां दारुणं रणम् ॥
विप्रपीडा मध्यवृष्टिः सस्यवृद्धिस्तृतीयभे ॥ २२ ॥

मिथुनराशिपर बृहस्पति होय तो मनुष्योंको भय हो खेतीमें टीडीआदिकोंका भय हो राजाओंका दारुण युद्धहो ब्राह्मणोंको पीडा मध्यमवर्षा खेतीकी वृद्धि हो ॥ २२ ॥

प्रभूतपयसो गावः सुजनाः सुखिनः स्त्रियः ॥
मदोद्धताः कर्किणीज्ये सस्यवृद्धियुता धरा ॥ २३ ॥

कर्कराशिका बृहस्पति होय तो गौ बहुत दूध देवें श्रेष्ठजनोंको सुख स्त्री मदोन्मत्त सुखी होवे पृथ्वीपर खेतीकी वृद्धि हो ॥ २३ ॥

सिंहराशिगते जीवे निःस्वा भूः सुरसत्तमाः ॥
अतिवृष्टिव्यालभयं नृपा युद्धे लयं ययुः ॥ २४ ॥

सिंहराशिपर बृहस्पति होव तो पृथ्वीपर ब्राह्मण धनहीन होवें
पृथ्वीपर सर्पोंका भय हो वर्षा बहुत हो राजालोग युद्धमें मृत्युको
प्राप्त होवें ॥ २४ ॥

जीवे कन्यागते वृष्टिः हृष्टा स्वस्थाः क्षितीश्वराः ॥

महोत्सुकाःक्षितिसुराः स्वस्थाःस्युर्निखिला जनाः॥२५॥

बृहस्पति कन्याराशिपर आवे तब वर्षा हो राजा प्रसन्न होवें
ब्राह्मणलोग बहुत प्रसन्न रहें सब मनुष्य स्वस्थ (प्रसन्न) रहैं ॥ २५ ॥

जीवे तुलागते सर्वधातुमूलातुलं जगत ॥

तथापि धात्री संपूर्णा धनधान्यसुवृष्टिभिः ॥ २६ ॥

तुलाराशिपर बृहस्पति होय तो जगत्में धातु मूल आदि सब
द्रव्य बहुतहों पृथ्वीपर धन धान्य सुंदर वर्षा होवे ॥ २६ ॥

मदोद्धतानां भूपानां युद्धे जनपदक्षयः॥

अतुष्टा वृष्टिरत्युग्रं डामरं कीटगे गुरौ ॥ २७ ॥

वृश्चिकराशिका बृहस्पति होय तो मदोन्मत्त राजाओंके युद्धमें
देशका क्षयहो वर्षा खराब हो दारुण युद्धहो ॥ २७ ॥

जीवे चापगते भीतिरीतिर्भूपभयं महत् ॥

अतुष्टा वृष्टिरत्युग्रा पीडा निःस्वाः क्षितीश्वराः ॥ २८ ॥

धनराशिपर बृहस्पति होय तब प्रजामें भय टीडी आदि उपद्रवोंका
भय राजाओंका महान् भय हो वर्षा अच्छी नहीं हो अत्यंत पीडा
हो राजालोग निर्धन होवें ॥ २८ ॥

अशत्रवो जना धात्री पूर्णा सस्यार्धवृष्टिभिः ॥

वीतरोगभयाः सर्वे मकरस्थे सुरार्चिते ॥ २९ ॥

मकरका बृहस्पति होय तब पृथ्वीपर सब मनुष्योंकी मित्रता रहे वर्षा बहुतहो खेती बहुत निपजे सबलोग कुशलपूर्वक रहैं ॥ २९ ॥

सुरस्पद्भिर्जना धात्री फलपुष्पार्धवृष्टिभिः ॥

संपूर्णा कुंभगे जीवे वीतरोगयुता धरा ॥ ३० ॥

कुंभका बृहस्पति होय तब पृथ्वीपर मनुष्य देवताओंकी बराबर रहैं फल पुष्प वर्षा बहुत हो पृथ्वीपर क्षेम आरोग्य रहैं ॥ ३० ॥

धान्यार्धवृष्टिसंपूर्णा क्वचिद्रोगः क्वचिद्भयम् ॥

न्यायमार्गरता भूपाः सर्वे मीनस्थिते गुरौ ॥ ३१ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां बृहस्पतिचारः ॥

मीनका बृहस्पति होय तब अन्न सस्ता हो, वर्षा बहुतहो, कहीं रोगहो, कहीं भयहो, संपूर्ण राजा न्यायमार्गमें स्थित रहैं ॥ ३१ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां गुरुचारः ।

सौम्यमध्यमयाम्येषु मार्गेषु त्रिविथयः ॥

शुक्रस्य दस्रभाद्यैश्च पर्यायश्च त्रिभिस्त्रिभिः ॥ १ ॥

उत्तर, मध्यम, दक्षिण इन मार्गोंमें तीन २ वीथी कहीहैं तहां अश्विनी आदि तीन २ नक्षत्रोंपर शुक्रके पर्याय करके यथाक्रमसे जानना १ ॥

नागेभैरावताश्चैव वृषभो गोजरद्ववाः ॥

मृगाजदहनाख्यास्स्युर्याम्यांता वीथयो नव ॥ २ ॥

जैसे कि नाग १ गज २ ऐरावत ३ वृषभ ४ गौ ५ जरद्व ६ मृग ७ अज ८ दहन ९ ये नव वीथी दक्षिणपर्यंतहैं ॥ २ ॥

सौम्यमार्गेषु तिसृषु चरन् वीथिषु भार्गवः ॥

धान्यार्धवृष्टिसस्यानां परिपूर्तिं करोति सः ॥ ३ ॥

तहां उत्तरमार्गकी तीन वीथियों में विचरताहुआ शुक्र अन्नसस्ता-
वर्षा खेतीकी वृद्धि यह फल करता है ॥ ३ ॥

मध्यमार्गेषु तिसृषु करोत्येषां तु मध्यमः ॥

याम्यमार्गेषु तिसृषु तेषामेवाधमं फलम् ॥ ४ ॥

और मध्यमार्गकी तीन वीथियोंमें विचरे तब सब वस्तु मध्यम
फल होताहै दक्षिणकी तीन वीथियोंमें विचरे तब अन्नादिक सब
वस्तु महिगी होवें ॥ ४ ॥

पूर्वस्यां दिशि जलदः शुभकृत् पितृपंचके ॥

स्वातित्रये पश्चिमायां सम्यक् शुक्रस्तथाविधः ॥ ५ ॥

मघा आदि पांच नक्षत्रोंपर प्राप्त हुआ शुक्र पूर्वदिशामें उदयहो
वा अस्त होय वर्षा अच्छी हो स्वाति आदि तीन नक्षत्रोंपर प्राप्तहुआ
पश्चिम दिशामें उदय वा अस्त हो तबभी ऐसा ही शुभफल
जानना ॥ ५ ॥

विपरीते त्वनावृष्टिर्वृष्टिकृद्बधसंयुतः ॥

कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्याममावास्यां यदा सितः ॥ ६ ॥

उदयास्तमयं याति तदा जलमयी क्षितिः ॥

मिथः सप्तमराशिस्थौ पश्चात्प्राग्बीथिसंस्थितौ ॥ ७ ॥

गुरुशुक्रावनावृष्टिर्दुर्भिक्षमरणप्रदौ ॥

कुजज्ञजीवरविजाः शुक्रस्याग्रेसरा यदा ॥ ८ ॥

युद्धातिवायुदुर्भिक्षं जलनाशकरास्तदा ॥

कृष्णरक्तस्तनुः शुक्रो पवनानां विनाशकृत् ॥ ९ ॥

इतिनारदीयसंहितायां शुक्रचारः ।

इससे विपरीत हो तो विपरीत फल जानना और बुधसहित शुक्र होय तब वर्षा होतीहै कृष्णपक्षकी अष्टमी चतुर्दशी तथा अमावास्याको शुक्र उदयहो अथवा अस्तहोय तो पृथ्वी पर वर्षा बहुतहो और बृहस्पति तथा शुक्र आपसमें सातवीं राशिपर स्थित होकर प्राग्वीथि और पश्चिमवीथि पर स्थितहोवें तो वर्षा नहीं हो दुर्भिक्षा तथा मरणहो और मंगल बुध बृहस्पति शनि ये शुक्र के आगे स्थितहोवें तो युद्धहो पवन बहुत चले दुर्भिक्ष होवे वर्षा नहीं हो शुक्रका तारा काला वर्ण तथा लाल वर्ण होय तो यवनों (म्लेच्छों) का नाशहो ॥ ६-९ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां शुक्रचारः ।

श्रवणानिलहस्ताद्राभरणीभाग्यभेषु च ॥

चरन्शनैश्वरो नृणां सुभिक्षारोग्यसस्यकृत् ॥ १ ॥

श्रवण, स्वाति, हस्त, आर्द्रा, भरणी, पूर्वाफाल्गुनी इन नक्षत्रों पर विचरताहुआ शनि मनुष्योंको शुभहै सुभिक्ष कुशल करताहै ॥ १ ॥

जलेशसार्पमाहेंद्रनक्षत्रेषु सुभिक्षकृत् ॥

शुच्छस्त्रावृष्टिदो मूलेहिर्बुध्यान्त्यभयोर्भयम् ॥ २ ॥

शतभिषा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, इनपर होय तबभी सुभिक्षहो मूलपर होय तो दुर्भिक्ष, युद्ध, अनावृष्टि यह फलहो उत्तराभाद्रपदा तथा रेवती पर होय तब प्रजामें भयहो ॥ २ ॥

मूर्ध्नि चैकं मुखे त्रीणि गुह्ये द्वे नयने द्वयम् ॥

हृदये पंच ऋक्षाणि वामहस्ते चतुष्टयम् ॥ ३ ॥

जन्मके नक्षत्रसे शनिके नक्षत्रतक गिनै फिर एक नक्षत्र
मस्तकपर धरै मुखपर तीन गुदापर दो नेत्रोंपर दो हृदयपर पांच
और बायें हाथपर चार नक्षत्र रखे ॥ ३ ॥

वामपादे तथा त्रीणि देया त्रीणि च दक्षिणे ॥

दक्षहस्ते च चत्वारि जन्मभाद्रविजः स्थितः ॥ ४ ॥

बायें पैरपर तीन दहिने पैरमें तीन दहिने हाथपर चार ऐसे
जन्मके नक्षत्रसे शनिके नक्षत्रतक रखना ॥ ४ ॥

रोगो लाभस्तथा हानिलाभः सौख्यं च बंधनम् ॥

आयासं चेष्टयात्रा च ह्यर्थलाभः क्रमात्फलम् ॥ ५ ॥

इनका फल यथा क्रमसे रोग, लाभ, हानि, लाभ, सौख्य,
बंधन, दुःख, मनोवांछित यात्रा, द्रव्यप्राप्ति, यह फल जानना ॥ ५ ॥

वक्रकृद्रविजस्येह तद्रूपफलमीदृशम् ॥

करोत्येवं समः साम्यं शीघ्रगो व्युत्क्रमात्फलम् ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां शनिचारः ॥

शनि बक्री होय तब अशुभ फल जानना मध्यम गतिपर रहे
तब मध्यम फल जानना शीघ्रगति होय तो शुभ फल जानना ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां शनिचारः ।

अमृतास्वादनाद्राहुः शिरच्छिन्नोपि सोऽमृतः ॥

विष्णुना तेन चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः ॥ १ ॥

अमृत चषनेके कारणसे राहुका शिर विष्णु भगवानने सुदर्शन-
चक्रसे काटदिया था तौ भी अमृत पीकर अमरहो ग्रह होगया ॥ १ ॥

वरेण धातुरकेंदू असते सर्वपर्वणि ॥

विक्षेपावननेर्वशाद्राहुदूरं गतस्तयोः ॥ २ ॥

फिर ब्रह्माजीके वरसे अमावस्या पूर्णिमा पर्वणीविषे सूर्यचंद्रमाको असताहै तहां विक्षेपहोनेसे और हीनवंश (असुर) होनेसे राहु तिन सूर्य चंद्रमासे दूर चलागया है ॥ २ ॥

षण्मासवृद्ध्या ग्रहणं शोधयेद्रविचंद्रयोः ॥

पर्वशाःस्युस्तथा सप्त देवाः कल्पादितः क्रमात् ॥ ३ ॥

छह २ महीनोंके अंतरमें सूर्य चंद्रमाका ग्रहण होताहै तहां कल्पकी आदिसे इस मर्यादाके ग्रहणोंमें यथाक्रमसे सात देवता अधिपति होतेहैं ॥ ३ ॥

ब्रह्मेन्द्रिद्रवनाधीशवरुणाग्निमाह्वयाः ॥

पशुसस्यद्रिजातीनां वृद्धिर्ब्राह्मे च पर्वणि ॥ ४ ॥

ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, अग्नि, यम ये सात हैं तहां ब्राह्म संज्ञक ग्रहणमें अर्थात् जिसका अधिपति ब्रह्मा हो ऐसे ग्रहणमें पशु खेती, ब्राह्मण इन्होंकी वृद्धि हो ॥ ४ ॥

तद्भदेव फलं सौम्ये बुधपीडा च पर्वणि ॥

विरोधो भूभुजां दुःखमैद्रे सस्यविनाशनम् ॥ ५ ॥

चंद्रसंज्ञक ग्रहणमें भी यही फल हो परंतु पंडितजनोंको पीडाहो इंद्रसंज्ञक ग्रहणमें राजाओंका विरोध दुःख हो और खेतीका नाश हो ॥ ५ ॥

अर्थेशानामर्थहानिः कौबेरे धान्यवर्धनम् ॥

नृपाणामशिवं क्षेममितरेषां तु वारुणे ॥ ६ ॥

कुबेर संज्ञक ग्रहणमें साहूकारलोगोंके धनकी हानि हो और प्रजामें धान्यकी वृद्धि हो वरुणसंज्ञकग्रहणमें राजाओंको दुःख अन्य प्रजामें सुख हो ॥ ६ ॥

प्रवर्षणं सस्यवृद्धिः क्षेमं हौताशपर्वणि ॥

अनावृष्टिः सस्यहानिर्दुर्भिक्षं याम्यपर्वणि ॥ ७ ॥

अग्निसंज्ञक ग्रहणमें वर्षा अच्छी हो खेतीकी वृद्धि हो प्रजामें कुशल हो याम्य पर्वमें वर्षा नहीं हो खेतीकी हानि दुर्भिक्ष हो ॥ ७ ॥

वेलाहीने सस्यहानिर्नृपाणां दारुणं रणम् ॥

अतिवेले पुष्पहानिर्भयं सस्यविनाशनम् ॥ ८ ॥

वेलाहीन अर्थात् स्पष्टसमयसे पहले ही ग्रहण होने लगजाय तो खेतीकी हानि राजाओंका दारुण युद्ध हो अतिवेल उक्तसमयसे पीछे वा ज्यादै ग्रहण हो तो पुष्पोंकी हानि, भय, खेतीका नाश हो ॥ ८ ॥

एकस्मिन्नेव मासे तुचंद्रार्कग्रहणं यदा ॥

विरोधं धरणीशानामर्थवृष्टिविनाशनम् ॥ ९ ॥

जो एक ही महीनेमें चन्द्रमा सूर्य इनदोनोंका ग्रहण होय तो राजाओंका वैर हो धनका और वर्षाका नाश हो ॥ ९ ॥

ग्रस्तोदितावस्तमितौ नृपधान्यविनाशदौ ॥

सर्वग्रस्ताविनेदूभौ क्षुद्राद्यग्निभयप्रदौ ॥ १० ॥

ग्रहण होताहुआ उदय हो अथवा अस्त होय तो राजाका तथा धान्यका नाशहो सूर्य चंद्रमा इन दोनोंका सर्व ग्रहण होय तो दुर्भिक्ष, वायु, अग्नि इन्होंका भय हो ॥ १० ॥

द्विजादींश्च क्रमाद्धन्ति राहुर्दृष्टो दिगादितः ॥

दशैव ग्रासभेदाःस्युर्मोक्षभेदास्तथा दश ॥ ११ ॥

पूर्वआदि दिशाओंमें क्रमसे जिसदिशामें ग्रास दीखे तहाँ ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंको नष्ट करताहै जैसे पूर्वमें ब्राह्मण, दक्षिणमें राजा, इत्यादि ग्रासके दश भेदहैं और मोक्षके भी दश भेदहैं ११ ॥

न शक्या लक्षितुं देवैः किं पुनः प्राकृतैर्जनैः ॥

आनीय खेटान् सिद्धांतात्तेषां चारं विचिंतयेत् ॥ १२ ॥

वे सब भेद अच्छे प्रकारसे तो देवताओंसे भी नहीं देखेजातेहैं फिर साधारण मनुष्योंसे क्या देखेजावेंगे सिद्धान्तशास्त्रसे ग्रहोंको स्पष्टकर तिनकर भेद विचारना चाहिये ॥ १२ ॥

शुभाशुभात्तेः कालस्य ग्रहचारो हि कारणम् ॥

तस्मादन्वेषणीयं तत्कालज्ञानाय धीमता ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां राहुचारः ॥

समयकी शुभ अशुभ प्राप्ति करनेमें ग्रहोंका चारही कारण है इसलिये बुद्धिमान् मनुष्यने कालज्ञानके वास्ते वह कारण देखलेना चाहिये ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां राहुचारः ।

उत्पातरूपाः केतूनामुदयास्तमया नृणाम् ॥

दिव्यंतरिक्षा भौमास्ते शुभाशुभफलप्रदाः ॥ १ ॥

केतुका उदय अस्त होना मनुष्योंको उत्पातरूप कहाहै सो स्वर्ग अंतरिक्ष भूमि इनमें शुभ अशुभ फलदायी उत्पात होने कहे हैं ॥ १ ॥

यज्ञध्वजास्त्रभवनरथवृक्षगजोपमाः ॥

स्तंभशूलगदाकारा अंतरिक्षाः प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥

जैसे यज्ञध्वजा, अस्त्र, मंदिर, रथ, वृक्ष, हस्ती, शूल, स्तंभ, गदा, इनके आकार चिह्न किसीको आकाशमें दीखपड़ें वह अंतरिक्ष उत्पात कहा है ॥ २ ॥

नक्षत्रसंस्थिता दिव्या भौमा ये भूमिसंस्थिताः ॥

एकोप्यमित्ररूपः स्याज्जंतूनामशुभाय वै ॥ ३ ॥

नक्षत्रोंमें स्थित कोई उत्पात दीखें वे दिव्य उत्पात कहे हैं भूमिमें जो उत्पात दीखें वे भौम उत्पात कहे हैं इनमेंसे एकभी उत्पात शत्रुरूप है प्राणियोंको अशुभफलदायी जानना ॥ ३ ॥

यावतो दिवसात्केतुर्दृश्यते विविधात्मकः ॥

तावन्मसौः फलं वाच्यं मासैश्चैव तु वत्सराः ॥ ४ ॥

जितनेदिनोंतक केतु ग्रह (शिखावालातारा) उदय रहे उतने ही महीनोंतक फल जानना और जितने महीनोंतक दीखे उतनेही वर्षोंतक शुभ अशुभ फल जानना ॥ ४ ॥

ये दिव्याः केतवस्तेपि शश्वत्तीव्रफलप्रदाः ॥

अंतरिक्षा मध्यफला भौमा मंदफलप्रदाः ॥ ५ ॥

जो आकाशमें केतु दीखें वे निरंतर दारुण फल करते हैं और जो आकाशमें उत्पात दीखतेहैं वे मध्यम फलदायी हैं पृथ्वीके उत्पात मंदफलदायी हैं ॥ ५ ॥

ह्रस्वः स्निग्धः सुप्रसन्नः श्वेतकेतुः सुभिक्षकृत् ॥

क्षिप्रादस्तमयं याति दीर्घकेतुः सुवृष्टिकृत् ॥ ६ ॥

छोटासा चिकना स्वच्छ सफेद पूँछवाला ऐसा केतु शुभदायकहै
जो शीघ्रही छिपजाय ऐसा दीर्घ केतु भी शुभदायकहै ॥ ६ ॥

अनिष्टदो धूमकेतुः शक्रचापस्य सन्निभः ॥

द्वित्रिचतुःशूलरूपः स च राज्यांतकृत्तदा ॥ ७ ॥

धूमासरीखा तथा इंद्रधनुषके वर्ण सरीखा केतु अशुभ है और
दो, तीन, चार शूलोंका रूप होय तो राज्यको नष्ट करै ॥ ७ ॥

मणिहारसुवर्णाभा दीप्तिमंतोर्कसूनवः ॥

केतवोभ्युदिताः पूर्वापरयोर्नृपघातकाः ॥ ८ ॥

मणि, हार, सुवर्ण, इन सरीखी कांतिवाले केतु उदय होयें
तो पहिले और पिछले राजाओंको नष्ट करैं वे सूर्यके पुत्र
कहलाते हैं ॥ ८ ॥

बंधूकर्विबक्षतजशुकतुंडाग्निसन्निभाः ॥

हुताशनप्रदास्तेपि केतवश्चाग्निसूनवः ॥ ९ ॥

बंधूक याने दुपहरिया, नाम फूल सरीखे तथा लालवर्ण तथा
तोता सरीखे हरेवर्ण, अग्नि समान वर्ण ये केतु अग्निभय करते हैं ये
अग्निके पुत्र कहेहैं ॥ ९ ॥

व्याधिप्रदा मृत्युसुता वक्रास्ते कृष्णकेतवः ॥

भूसुता जलतैलाभा वर्तुलाः क्षुद्रयप्रदाः ॥ १० ॥

टेढे आकारवाले कालेवर्ण केतु मृत्युके पुत्र हैं वे रोगदायक
हैं जलके समान तथा तेल समान कांतिवाले गोलवर्ण केतु भूमिके
पुत्र कहे हैं वे दुर्भिक्षका भय करते हैं ॥ १० ॥

क्षेमः सुभिक्षदाः श्वेताः केतवः सोमसूनवः ॥

पितामहात्मजः केतुः त्रिवर्णास्त्रिशिखान्विताः ॥ ११ ॥

सफेद वर्णवाले केतु चन्द्रमाके पुत्र कहे हैं वे क्षेम कुशल और सुभिक्ष करनेवाले हैं ब्रह्माका पुत्र केतु तीन वर्णोंवाला तथा तीन शिखाओंवाला कहा है ॥ ११ ॥

ब्रह्मदंडाह्वयः केतुः प्रजानामंतकृत्सदा ॥

ऐशान्यां भार्गवसुताः श्वेतरूपास्त्वनिष्टदाः ॥ १२ ॥

वह ब्रह्मदण्ड नामक केतु है सदा प्रजाको नष्ट करनेवाला है सफेद रूपवाले केतु ईशान दिशामें उदय होते हैं वे शुक्रके पुत्र अशु-
भफलदायी हैं ॥ १२ ॥

अनिष्टदाः पंगुसुताः द्विशिखाः कनकाह्वयाः ॥

विकचारख्या गुरुसुता नेष्टा याम्यस्थिता अपि ॥ १३ ॥

दो शिखाओंवाले सुवर्णसरीखे वर्णवाले केतु शनिके पुत्र हैं वे अशुभ कहे हैं । विकच नामक केतु दक्षिण दिशामें उदय होते हैं वे बृहस्पतिके पुत्र अशुभ हैं ॥ १३ ॥

सूक्ष्माः शुक्राः बुधसुता घोराश्वौरभयप्रदाः ॥

कुजात्मजाः कुंकुमाख्या रक्ताः शूलास्त्वनिष्टदाः ॥ १४ ॥

सूक्ष्मरूप, श्वेतवर्ण, केतु बुधके पुत्र हैं वे घोर हैं चोरोंका भय करते हैं । लाल वर्णवाले कुंकुम नामक केतु मंगलके पुत्र कहे हैं वे अशुभ फलदायक हैं ॥ १४ ॥

(३६)

नारदसंहिता ।

अग्निजा विश्वरूपाख्या अग्निवर्णाः शुभप्रदाः ॥

अरुणाः श्यामलाकाराः पापपुत्राश्च पापदाः ॥ १५ ॥

विश्वरूप नामक केतु अग्निके पुत्रहैं वे अग्निसमान वर्णवाले शुभदायक हैं । लाल तथा श्यामवर्ण केतु पापके पुत्र हैं वे अशुभ फलदायक हैं ॥ १५ ॥

शुक्रजा ऋक्षसदृशाः केतवः शुभदायकाः ॥

कंकास्यब्राह्मजाः श्वेताः कष्टा वंशलतोपमाः ॥ १६ ॥

नक्षत्र समान आकारवाले साधारण तारासमान केतु शुक्रके पुत्र शुभदायक हैं । कंकनामक श्वेतवर्ण केतु वांस तथा लतासमान आकार उदय होते हैं वे कष्टदायक कहे हैं ॥ १६ ॥

कबंधाख्याः कालमुता भस्मरूपास्त्वनिष्टदाः ॥

विधिपुत्राह्वयाः शुक्लाः केतवो नेष्टदायकाः ॥ १७ ॥

कबंधनामक कालके पुत्र हैं वे भस्मसमान वर्णवाले अशुभ कहे हैं और सफेद वर्ण केतु ब्रह्माके पुत्र हैं वे शुभदायक नहीं हैं ॥ १७ ॥

कृत्तिकासु समुद्रतो धूमकेतुः प्रजांतकृत् ॥

प्रासादशैलवृक्षेषु जातो राज्ञां विनाशकृत् ॥ १८ ॥

कृत्तिका नक्षत्रोंके पास केतु उदय होय तो प्रजाका नाशकरे देवमंदिर पर्वत बड़ावृक्ष इनके ऊपर केतु उदय हो तो राजाओंका नाश करे ॥ १८ ॥

सुभिक्षकृत्कुमुदाख्यः केतुः कुमुदसन्निभः ॥

आवर्तकेतुः शुभदः श्वेतश्चावर्तसन्निभः ॥ १९ ॥

कुमुद नामक केतु कुमोदिनी पुष्पसरीखा होता है वह सुभिक्ष फलदायक है भौहरीदार सफेद केतु आवर्त्तसंज्ञक कहा है वह शुभ-दायक है ॥ १९ ॥

संवर्तकेतुः संध्यायां त्रिशिरा नेष्टदारुणः ॥ २० ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां केतुचारांतर्गतग्रहचा-
राध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

संध्यासमयमें तीन शिखाओंवाला उदय हो वह संवर्त्त केतु कहा है सो दारुण अशुभ फलकारक है ॥ २० ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां केतुचारां
तर्गतग्रहचाराध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

ब्राह्मंदैवं मानुषं च पित्र्यं सौरं च सावनम् ॥

चांद्रमार्क्षं गुरोर्मानमिति मानानि वै नव ॥ १ ॥

ब्राह्म, दैव, मानुष, पित्र्य, सौर, सावन, चांद्र, नाक्षत्र, गुरुमान ऐसे नव प्रकारके वर्ष मासादि प्रमाण हैं ॥ १ ॥

एषां तु नवमानानां व्यवहारोत्र पंचभिः ॥

तेषां पृथक्पृथक्कार्यं वक्ष्यते व्यवहारतः ॥ २ ॥

इन नव भेदोंमें यहां पांच प्रकारोंसे व्यवहार होता है तिनके जुदेजुदे कार्यव्यवहार कहते हैं ॥ २ ॥

ग्रहणं निखिलं कार्यं गृह्यते सौरमानतः ॥

विधेर्विधानं स्त्रीगर्भं सावनेनैव गृह्यते ॥ ३ ॥

ग्रहणके सबकार्य सौर मानसे किये जाते हैं किसी कार्यका विधान स्त्रीका पुर्ष सावनमाससे गिना जाता है ॥ ३ ॥

प्रवर्षणं मेघगर्भो नाक्षत्रेण प्रगृह्यते ॥

यात्रोद्वाहव्रतक्षौरतिथिवर्षादिनिर्णयः ॥ ४ ॥

वर्षाकाल मेघका गर्भ ये नाक्षत्र मासके क्रमसे ग्रहण किये जाते हैं । यात्रा, विवाह, व्रत, क्षौर, तिथि वर्षादिका निर्णय ॥ ४ ॥

पर्ववास्तूपवासादि कृत्स्नं चांद्रेण गृह्यते ॥

गृह्यते गुरुमानेन प्रभवाद्यब्दलक्षणम् ॥ ५ ॥

पर्वणी वास्तुकर्म व्रत नियम यह चांद्रमाससे ग्रहण किये जाते हैं अर्थात् चैत्रशुक्ल पक्षसे जो संवत् लगता है वही क्रम लिया जाता है और प्रभवादिक संवत्सरोका लक्षण गुरुमानसे ग्रहण किया जाता है ॥ ५ ॥

भचक्रगतिराक्षं स्यात्सावनं त्रिंशता दिनैः ॥

सौरं संक्रमणं प्रोक्तं चांद्रं प्रतिपदादिकम् ॥ ६ ॥

नक्षत्रोंकी गतिके अनुसार गिनाजाय वह आर्क्ष (नक्षत्र मास) कहा है और पूरे तीस दिनका होय वह सावन मास कहा है । सूर्यकी संक्रांतिके क्रमसे हो वह सौर मास है प्रतिपदाआदि क्रमसे चांद्र-संज्ञक मास होता है ॥ ६ ॥

तत्तन्मासैर्द्वादशभिस्तत्तदब्दो भवेत्ततः ॥

गुरुचारेण संभूताः षष्ट्यब्दाः प्रभवादयः ॥ ७ ॥

तिन बारह महीनोंकरके तिसी २ नामवाला वर्ष होता है तहां बृहस्पतिकी राशिक्रमसे प्रभवआदि साठ संवत्सर होते हैं ॥ ७ ॥

प्रभवो विभवः शुक्रः प्रमोदोथ प्रजापतिः ॥

अंगिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेश्वरः ॥ ८ ॥

प्रभव १ विभव २ शुक्ल ३ प्रमोद ४ प्रजापति ५ अंगिरा ६
श्रीमुख ७ भाव ८ युवा ९ धाता १० ईश्वर ११ ॥ ८ ॥

बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषसंज्ञकः ॥

चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः ॥ ९ ॥

बहुधान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १५ चित्रभानु
१६ सुभानु १७ तारण १८ पार्थिव १९ व्यय २० ॥ ९ ॥

सर्वजित सर्वधारी च विरोधी विकृतः खरः ॥

नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥ १० ॥

सर्वजित २१ सर्वधारी २२ विरोधी २३ विकृत २४ खर २५
नन्दन २६ विजय २७ जय २८ मन्मथ २९ दुर्मुख ३० ॥ १० ॥

हेमलंबो विलंबश्च विकारी शार्वरी प्लवः ॥

शुभकृच्छोभनः क्रोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ ११ ॥

हेमलंब ३१ विलंब ३२ विकारी ३३ शार्वरी ३४ प्लव ३५
शुभकृत् ३६ शोभन ३७ क्रोधी ३८ विश्वावसु ३९ पराभव
४० ॥ ११ ॥

पुवंगः कीलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत् ॥

पारिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसोनलः ॥ १२ ॥

पुवंग ४१ कीलक ४२ सौम्य ४३ साधारण ४४ विरोधकृत्
४५ पारिधावी ४६ प्रमादी ४७ आनंद ४८ राक्षस ४९ अनल
५० ॥ १२ ॥

पिंगलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी रौद्रदुर्मती ॥

दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ १३ ॥

पिंगल ५१ कालयुक्त ५२ सिद्धार्थी ५३ रौद्र ५४ दुर्मति
५५ दुन्दुभि ५६ रुधिरोद्गारी ५७ रक्ताक्षी ५८ क्रोधन ५९
क्षय ६० ऐसे ये ६० वर्ष हैं ॥ १३ ॥

युगं स्यात्पंचभिर्वर्षैर्युगानि द्वादशैव ते ॥

तेषामीशाः क्रमाज्ज्ञेया विष्णुर्देवपुरोहितः ॥ १४ ॥

पांचवर्षोंका युग होता है फिर वे बारह युग होते हैं उन्हींके
स्वामी क्रमसे विष्णु १ बृहस्पति २ ॥ १४ ॥

पुरंदरो लोहितश्च त्वष्टाहिर्बुध्न्यसंज्ञकः ॥

पितरश्च ततो विश्वेशशीन्द्राग्नी भगोऽश्विनौ ॥ १५ ॥

युगस्य पंचवर्षेशा वह्नीनेंद्रब्जजेश्वराः ॥

तेषां फलानि प्रोच्यन्ते वत्सराणां पृथक्पृथक् ॥ १६ ॥

इंद्र ३ भौम ४ त्वष्टा ५ अहिर्बुध्न्य ६ पितर ७ विश्वेदेवा ८
चंद्रमा ९ इंद्राग्नि १० भग ११ अश्विनीकुमार १२ ये बारह देवता
कहेहैं । तहां एक युगके पांचवर्षेश कहेहैं । अग्नि १ सूर्य २ चंद्रमा
३ ब्रह्मा ४ शिव ५ ये पांच जानने ॥ १५ ॥ १६ ॥

क्वचिद्बुद्धिः क्वचिद्धानिः क्वचिद्भितिः क्वचिद्भदः ॥

तथापि मोदते लोकः प्रभवाब्दे विमत्सरः ॥ १७ ॥

तित साठ ६० संवत्सरोंके फल कहतेहैं । प्रभवनामक वर्ष-
में कहीं हानि हो कहीं वृद्धि हो कहीं भय हो कहीं रोग हो तौ भी
संपूर्ण प्रजा वैररहित होकर सुखी रहै ॥ १७ ॥

आन्वीक्षिकीसु निरताः सप्रजाः स्युः क्षितीश्वराः ॥

कर्षकाभिमता वृष्टिर्विभवाब्दे विवैरिणः ॥ १८ ॥

विभवनाम वर्षमें राजा प्रजा नीतिमें प्रवृत्त रहैं किसानलोगोंके मनके अनुसार वर्षाहो लोगोंमें आपसमें प्रीति बढे ॥ १८ ॥

सकलत्रात्मजाञ्छश्वल्लालयत्यबला जनाः ॥

अमरस्पर्द्धिनः शुक्ले वत्सरे विगतारयः ॥ १९ ॥

शुक्ल नामक वर्षमें पुरुष निरंतर स्त्रीपुत्रोंका सुख भोगैं और स्त्रियां पुत्रोंका सुख भोगैं देवताओंके समान आनन्दवृद्धि हो प्रजामें शत्रुता न रहै ॥ १९ ॥

अतिव्याध्वर्दिता लोकाः क्षितीशाः कलहोत्सुकाः ॥

प्रमोदाब्दे प्रमोदंते तथापि निखिला जनाः ॥ २० ॥

प्रमोदनाम वर्षमें लोगोंमें अत्यंत बीमारी रहै राजाओंमें कलह रहै तौभी संपूर्ण प्रजा सुख भोगैं ॥ २० ॥

क्लेशः क्वचिन्न प्रेक्ष्यंते स्वजनानामनामयः ॥

एवं वै मोदते लोका प्रजापतिशरद्युतः ॥ २१ ॥

प्रजापतिनामक वर्षमें प्रजामें दुःख कभी नहीं हो स्वजनोंके साथ मित्राता बढै रोग नहीं हो ऐसे प्रजामें आनंद रहै ॥ २१ ॥

अतिथिस्वजनैस्सार्द्धमन्नं बोभुज्यते मधु ॥

पेपीयंते कामिनीभिरंगिरौऽब्दे निरंतरम् ॥ २२ ॥

अंगिरा नामक वर्षमें अतिथिजन तथा स्वजन मनुष्योंके साथ अन्न मिष्ट पदार्थ भोजन किया जाय स्त्रियाँ अच्छे प्रकारसे रमण करैं ॥ २२ ॥

श्रीमुखेन्दे दुग्धपूर्णा गोकर्णवलयेव भूः ॥

सस्यपीता वरावारि गावस्तुंगपयोधराः ॥ २३ ॥

श्रीमुखनामक वर्षमें पृथ्वीपर दूधदेनेवाली गौओंकी वृद्धि हो
खेतियोंमें वर्षा बहुत अच्छी हो गौओंके दूधकी वृद्धिहो ॥ २३ ॥

स्युर्भुजो प्रभाभाजः प्रभंजनभुजः परे ॥

भावाब्दे भूसुरग्राम भ्रमणं लोभतः सदा ॥ २४ ॥

भाव नामक वर्षमें राजाओंके तेजकी वृद्धि, शत्रुओंको दुःखहो
ब्राह्मण लोगोंके समूह लोभके कारण प्रजामें भ्रमते रहें ॥ २४ ॥

सदाऽजस्रं रमयति युवाब्दे युवतीजनः ॥

युवानो निखिला लोकाः क्षितिश्चापि फलोत्कटा ॥ २५ ॥

युवा नामक वर्षमें स्त्रियां निरंतर रमणकरें और पृथ्वीपर फल
बहुत उत्पन्न होवे ॥ २५ ॥

धात्री धात्रीव लोकानामभया च फलप्रदा ॥

धात्रब्दे धरणीनाथाः परस्परजयोत्सुकाः ॥ २६ ॥

धाता नामक वर्षमें पृथ्वी लोगोंको माताके समान सुखदेनेवाली
हो, भय नहींहो, पृथ्वीपर फल बहुत हों राजालोग आपसमें युद्ध
करनेकी इच्छा करें ॥ २६ ॥

ईश्वराब्दे स्थिराः क्षमेशा जगदानंदिनी मही ॥

अध्वरे निरता विप्राः स्वस्वमार्गे रताः परे ॥ २७ ॥

ईश्वरनामक वर्षमें राजालोग सुखी रहें पृथ्वीपर सब मनुष्य
बहुत खुशी रहें ब्राह्मण लोग यज्ञकरनेमें तत्पर रहें अन्य लोग अपने
अपने काममें तत्पर रहें ॥ २७ ॥

बहुधान्ये च बहुभिर्धान्यैः पूर्णाखिला धरा ॥

प्रभूतपयसो गावो राजानः स्युर्विवैरिणः ॥ २८ ॥

बहुधान्य नामक वर्षमें पृथ्वी बहुत धान्यसे परिपूर्ण होवे गौवें बहुत दूध देवें राजाओंमें वैर नहीं रहे ॥ २८ ॥

बलाहका न मुञ्चति कुत्रचित्प्रचुरं पयः ॥

प्रमाथ्यब्दे वीतरागास्तथापि निखिला जनाः ॥ २९ ॥

प्रमाथी नामक वर्षमें मेघ कहीं विशेष वर्षा नहीं करें मनुष्योंमें आपसमें वैर होवे ॥ २९ ॥

प्रवहंति जलं स्वच्छं स्रवंति प्रचुरं पयः ॥

विक्रमाब्देखिलाः क्षमेशा विक्रमाक्रांतभूमयः ॥ ३० ॥

विक्रम नामक वर्षमें वर्षा बहुत हो सम्पूर्ण राजा लोग सेनाओंसे भरपूरहोके पृथ्वी दबानेका उद्योग करें ॥ ३० ॥

विविधैरन्नपानाद्यैर्हृष्टपुष्टांगचेतसः ॥

मदोन्मत्ताखिला लोका वृषाब्दे वृषसन्निभाः ॥ ३१ ॥

वृष नामक वर्षमें अन्नादिकोंके प्रभावसे सब मनुष्य हृष्टपुष्टशरीर-वाले मदोन्मत्त होकर वृष (बैल) समान पुष्ट रहें ॥ ३१ ॥

विचित्रा वसुधा चित्रपुष्पवृष्टिफलादिभिः ॥

चित्रभानुशरद्वेषा भाति चित्रांगना यथा ॥ ३२ ॥

चित्रभानु वर्षमें विचित्र पुष्प फलादिकोंके प्रभावसे यह पृथ्वी ऐसी विचित्र शोभित होवे कि जैसे चित्रांगना (सुंदरीनारी) शोभित हो ॥ ३२ ॥

नन्दन्तीह जनाः सर्वे भूमिभूरिफलान्विता ॥

सुभानुवत्सरे भूमिभीमभूपालविग्रहा ॥ ३३ ॥

सुभानु नामक वर्षमें पृथ्वी बहुत फलोंसे भरपूर हो सब मनुष्य आनंद करें राजालोगोंका युद्ध हो ॥ ३३ ॥

प्रतरन्त्युंडुपोपायैः सरितोर्थाय संततम् ॥

तारणाब्दे त्वतुलिता अर्थवंतो हि जंतवः ॥ ३४ ॥

तारण नामक वर्षमें प्रयोजनकेवास्ते निरंतर नौकाके उपायोंकरके सब मनुष्य नदियोंसे पार गमन करें और बहुत धनका संचय करें ॥ ३४ ॥

पतन्ति करकोपेताः पयोधारा निरंतरम् ॥

पापादपेतमनसः पार्थिवाब्दे तु पार्थिवाः ॥ ३५ ॥

पार्थिव नामक वर्षमें ओला सहित निरंतर वर्षा हो राजालोग अपने मनमें पापका चिंतवन न करें ॥ ३५ ॥

दीध्यते वसुधा वीरभटवारणवाजिभिः ॥

व्यपेतव्याधयः सर्वे व्ययाब्दे तु व्ययान्विताः ॥ ३६ ॥

व्ययनाम वर्षमें शूरवीर हस्ती घोड़े इन्होंने पृथ्वी परिपूर्ण, प्रजामें बीमारी नहीं हो सब मनुष्य द्रव्यका खर्च बहुत करें ॥ ३६ ॥

गीर्वाणपूर्वगीर्वाणान् गर्वानिर्भरचेतसः ॥

सर्वाजिद्वत्सरे सर्व उर्वीशान् हंति भूमिपान् ॥ ३७ ॥

सर्वजित् नामक वर्षमें गर्वसे भरपूर हुए संपूर्ण पृथ्वीके राजालोग देवता तथा दैत्योंको नष्ट करें अर्थात् पृथ्वीपर बहुत सुख बटै ॥ ३७ ॥

सर्वधारीवत्सरेस्मिन् जगदानंदिनी धरा ॥

प्रशांतवैरा राजानः प्रजापालनतत्पराः ॥ ३८ ॥

सर्वधारी नामक वर्षमें पृथ्वीपर सबजगह आनंद होवे राजालोग आपसमें वैरभाव नहीं करें अपनी २ प्रजापालनमें तत्पर रहें ॥ ३८ ॥

विरोधं सततं कुर्वत्यन्योन्ध्यं क्षितिपाः प्रजाः ॥

विरोधिवत्सरे भूमिभूरिवारिधरैर्वृता ॥ ३९ ॥

विरोधी नामक वर्षमें राजालोग आपसमें युद्ध करें पृथ्वीपर वर्षा बहुत हो ॥ ३९ ॥

विकृतिः प्रकृतिं याति प्रकृतिर्विकृतिं तथा ॥

तथापि मोदते लोकस्तस्मिन् विकृतवत्सरे ॥ ४० ॥

विकृत नामक वर्षमें खराब नीचजन उत्तम पदवीको प्राप्तहोवें और अच्छे जन निरादरको प्राप्तहों परंतु सबलोग सुखी रहें ॥ ४० ॥

खराब्दे सततं सम्यग्बध्यन्ते पशवः प्रजाः ॥

राजानोविलयं यांति परस्परविरोधतः ॥ ४१ ॥

खर नामक वर्षमें संपूर्ण प्रजा तथा पशु बंधनमें प्राप्त होवें राजालोग आपसमें युद्ध करके नष्टहोजायें ॥ ४१ ॥

आनंददा धराजस्रं प्रजाभ्यः फलसंचयैः ॥

नंदनाब्दे स्वहानिः स्यात्कोशधान्यविनाशकृत् ॥ ४२ ॥

नंदन नामक वर्षमें प्रजामें धान्य फल आदिकोसे सब प्रजाको निरंतर आनंद रहै और सोना चांदी आदि धनका व खजानाका नाश हो ॥ ४२ ॥

नश्यते वारिधाराभिः पूर्वकृष्यखिलं फलम् ॥

राजभिश्चापरं सर्वं विजयाब्दे जयेप्सुभिः ॥ ४३ ॥

विजय नामक वर्षमें बहुत वर्षा होनेसे पहिली खेती (सामणू) का नाशहो और पिछली खेतीके समय राजाओंके युद्धादिकका उपद्रव होवे ॥ ४३ ॥

शैलोद्यानवनारामफलैरतुलिता मही ॥

जेगीयते वेणुनादैर्जयाब्दे च महाजलम् ॥ ४४ ॥

जय नामक वर्षमें पर्वत फुलवाड़ी वन बगीचा इन्होंमें सर्वत्र बहुत फलोंवाली पृथ्वी होवे और बहुत वर्षा होनेकी अत्यंत प्रशंसा होवे ॥ ४४ ॥

मन्मथाब्देखिला लोकास्तत्केलिपरलोलुपाः ॥

शालीक्षुयवगोधूमैर्नयनाभिनवा धरा ॥ ४५ ॥

मन्मथ नामक वर्षमें सब लोग काम क्रीडा करनेमें, तत्पर रहैं चावल आदि धान्य, ईख, जव, गेहूं इन्हों करके पृथ्वी बहुत मनो-हर शोभित हो ॥ ४५ ॥

दुर्मुखाब्देग्निरोगाः स्युः प्रचुरान्नं तथा पयः ॥

राजानः सप्रजास्तुष्टा निःस्वाश्च द्विजसत्तमाः ॥ ४६ ॥

दुर्मुख नामक वर्षमें अग्निभय तथा रोग हो अन्न बहुत हो दूधकी वृद्धि हो राजा प्रजामें आनंद रहे ब्राह्मण लोग दरिद्री होवें ॥ ४६ ॥

हेमलंबे नृपाः सर्वे परस्परविरोधिनः ॥

प्रजापीडात्वनर्घत्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥ ४७ ॥

हेमलंब नामक वर्षमें सब राजालोग आपसमें वैरभाव करें प्रजामें पीडा अन्नादिकका भाव महँगा रहै तौ भी लोगोंमें सुख रहै ॥ ४७ ॥

विलंबवत्सरे राजविग्रहो भूरिवृष्टयः ॥

आतंकपीडिता लोकाः प्रभूतं चापरं फलम् ॥ ४८ ॥

विलंब नामक वर्षमें राजाओंका युद्ध हो वर्षा बहुत हो लोगोंमें रोगवृद्धि हो अन्य सब फल अच्छा हो ॥ ४८ ॥

विकारिणो विकार्यब्दे पित्तरोगादिभिर्नराः ॥

मेघो वर्षति संपूर्णं समुद्रवसनक्षितौ ॥ ४९ ॥

विकारी नामक वर्षमें मनुष्य पित्त आदि रोगोंसे पीडित हों वर्षा बहुत हो पृथ्वीपर सर्वत्र जल फैल जावे ॥ ४९ ॥

शार्वरीवत्सरे सर्वसस्यवृद्धिरनुत्तमा ॥

चलिताचलसंकाशैः पयोदैरावृतं नभः ॥ ५० ॥

शर्वरीनामक वर्षमें पृथ्वीपर सब खेतियोंकी बहुत अच्छी वृद्धि हो और चलित अचल (पर्वत) समान कांतिवाले मेघोंकरके आकाश आच्छादित रहै ॥ ५० ॥

दीप्यन्ते सततं भूपाः प्लुवाब्दे प्लवगा जनाः ॥

राजते पृथिवी सर्वा सततं विविधोत्सवैः ॥ ५१ ॥

प्लुव नामक वर्षमें राजालोग निरंतर विराजमान हों मनुष्य नौकामें स्थित हो गमन करें संपूर्ण पृथ्वी अनेक उत्सवों करके शोभित हो ॥ ५१ ॥

शुभकृद्भत्सरे सर्वसस्यानामतिवृद्धयः ॥

नृपाणां स्नेहमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम् ॥ ५२ ॥

शुभकृत नामक वर्षमें संपूर्ण खेतियोंकी अत्यंत वृद्धि हो राजाओंकी आपसमें मित्रता बढ़े प्रजामें प्रीति बढ़े ॥ ५२ ॥

शोभनाख्ये हायने तु शोभनं भूरि वर्त्तते ॥

नृपाश्चैवात्र निर्वैराः सर्वसम्पद्युता धरा ॥ ५३ ॥

शोभन नामक वर्षमें पृथ्वीपर बहुत शोभन हो, और राजा निर्वैरहों, पृथ्वी संपूर्ण संपत्तसे युक्तहो ॥ ५३ ॥

क्रोधयब्दे सततं रोगाः सर्वसस्यसमृद्धयः ॥

दंपत्योर्वैरमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम् ॥ ५४ ॥

क्रोधी नामक वर्षमें प्रजामें निरंतर रोग होवे और संपूर्ण खेतियोंकी वृद्धिहो स्त्रीपुरुषोंका आपसमें वैर हो ॥ ५४ ॥

शश्वद्रिश्वावसावब्दे मध्यसस्यार्धवृष्टयः ॥

प्रचुराश्चौररोगाश्च नृपा लोभाभिभूतयः ॥ ५५ ॥

विश्वावसु नामक वर्षमें निरंतर मध्यम खेती उत्पन्न हों, मध्यम वर्षा तथा अन्नका भाव महंगा रहै रोग तथा चौरोंकी वृद्धि हो राजा-लोग लोभी हों ॥ ५५ ॥

पराभवाब्दे राजानः प्राप्नुवन्ति पराभवम् ॥

आमयः क्षुद्रधान्यानिप्रभूतानि सुवृष्टयः ॥ ५६ ॥

पराभवनाम वर्षमें राजा लोग तिरस्कारको प्राप्त हों रोग होवे और मटरमोट आदि तुच्छ धान्य ज्यादा निपजै वर्षा ज्यादा हो ॥ ५६ ॥

पुवंगाब्दे सस्यहानिश्चौररोगादिता जनाः ॥

मध्यवृष्टिः क्षितीशानां विरोधं च परस्परम् ॥ ५७ ॥

पुवंगनामक वर्षमें खेतीकी हानि चौरोंकी वृद्धि प्रजामें रोग मध्यमवर्षा राजाओंका आपसमें युद्ध होवे ॥ ५७ ॥

प्रचुराः पित्तरोगाः स्युर्मध्या वृष्टिरहेर्भयम् ॥

कीलकाब्दे त्वीतिभयं प्रजाक्षोभः परस्परम् ॥ ५८ ॥

कीलक वर्षमें पित्तके रोग बहुत होवें मध्यम वर्षा हो सर्पोंका भयहो
टीडी आदिकोंका भयहो प्रजामें आपसमें वैर हो ॥ ५८ ॥

प्रचुराः शैत्यरोगाः स्युर्मध्या वृष्टिरहेर्भयम् ॥

सौम्याब्दे चैव सततं शांतवैराः क्षितीश्वराः ॥ ५९ ॥

सौम्य वर्षमें राजालोग आपसमें निरंतर प्रसन्न रहें शरदीके
रोग बहुत होवें वर्षा मध्यम हो सर्पोंका भयहो ॥ ५९ ॥

साधारणेब्दे राजानः सुखिनो गतमत्सराः ॥

प्रजाश्च पशवः सर्वे वृष्टिः कर्षकसंमता ॥ ६० ॥

साधारण नामक वर्षमें राजा सुखी रहें आपसमें वैरभाव नहीं करें
प्रजामें आनंद पशुवृद्धि और किसान लोगोंके मनके माफिक वर्षा
हो ॥ ६० ॥

विरोधकृद्भ्रत्सरे तु परस्परविरोधिनः ॥

राजानो मध्यमा वृष्टिः प्रजा स्वस्था निरंतरम् ॥ ६१ ॥

विरोधकृत् नामक वर्षमें राजालोग आपसमें वैरभाव करें वर्षा
मध्यम हो प्रजामें निरंतर आनंद रहे ॥ ६१ ॥

अनर्घ्यामयरोगेभ्यो भीतिरीतिर्निरंतरम् ॥

परिधावीवत्सरे तु नृणां वृष्टिस्तु मध्यमा ॥ ६२ ॥

परिधावी नामक वर्षमें अन्नादिकका भाव महंगा रोग टीडी आदि
उपद्रवका निरंतर भयहो मध्यम वर्षाहो ॥ ६२ ॥

नृपसंक्षोभमत्युग्रं प्रजापीडा त्वनर्घता ॥

तथापि दुःखमाप्नोति प्रमादीवत्सरे जनः ॥ ६३ ॥

प्रमादी वर्षमें राजाओंका अत्यंत वैरभाव प्रजामें पीडा भाव
महँगा हो सब जन दुःखको प्राप्त होवें ॥ ६३ ॥

आनंदवत्सरे सर्वजंतवः पशवः सदा ॥

आनंदयति चान्योन्यमन्यथा तु क्वचित्क्वचित् ॥ ६४ ॥

आनंद नामक वर्षमें संपूर्ण जीव पशु आपसमें आनंद करें
कहीं दुःख भी रहै ॥ ६४ ॥

प्रजायां मध्यमसुखं तदधीशाहवो^६न्वहम् ॥

निष्क्रिया राक्षसाब्दे तु राक्षसा इव जंतवः ॥ ६५ ॥

राक्षस नामक वर्षमें प्रजामें मध्यम सुख रहै राजाओंका हमेशा
युद्ध होवे सब जन राक्षसोंकी तरह क्रिया रहित होवें ॥ ६५ ॥

अनलाब्देऽनलभयं मध्यवृष्टिरनर्घता ॥

नृपाः संक्षोभसंभूता भूरिभीकरभूमिपाः ॥ ६६ ॥

अनल वर्षमें अग्निभय मध्यम वर्षा भाव महँगी राजाओंमें
परस्पर बहुत भयंकर वैरभाव उत्पन्न हो ॥ ६६ ॥

पिंगलाब्दे तु सततं दिक्पूरितघनस्वनम् ॥

राजानः स्वभुजाक्रांता भुंजते क्षमामनुत्तमाम् ॥ ६७ ॥

पिंगल नामक वर्षमें निरंतर दिशाओंमें मेघवर्षनेका शब्द होतारहै
राजालोग अपनी भुजाके बलसे पृथ्वीको भोगें ॥ ६७ ॥

अतिवृष्टिः कालयुक्ते वत्सरे सुखिनो जनाः ॥

सततं सर्वसस्यानि संपूर्णाश्च तथा द्रुमाः ॥ ६८ ॥

कालयुक्त नामक वर्षमें वर्षा बहुत हो सब जन सुखी रहैं निरंतर
संपूर्ण खेती निपजै और सब वृक्षोंके अच्छा फल लगे ॥ ६८ ॥

सिद्धार्थीवत्सरे भूपाश्चान्योन्यं स्नेहकांक्षिणः ॥

संपूर्णसस्यां वसुधां दुदुहुर्गा यथा तथा ॥ ६९ ॥

तिद्धार्थी नामक वर्षमें राजालोग आपसमें मित्रता बढ़नेकी
इच्छा करें और जैसे गौको दहते हैं ऐसे संपूर्ण खेतियोंसे
भरपूर हुई पृथ्वीका दोहन करें (भोगकरैं) ॥ ६९ ॥

अन्योन्यं नृपसंक्षोभं चौरव्याघ्रादिभिर्भयम् ॥

मध्यवृष्टिरनर्घत्वं रौद्राब्दे नैव गुर्जरे ॥ ७० ॥

रौद्र नामक वर्षमें राजालोग आपसमें वैरभाव करें और चौर
व्याघ्र आदिकोंका भय हो मध्यम वर्षा हो अन्नादिकोंका भाव
महँगा रहै परंतु गुर्जर (गुजरात) देशमें यह फल नहीं हो अर्थात्
शुभफलहो ॥ ७० ॥

दुर्मत्यब्दे दुर्मतयो भवंत्यखिलभूमिपाः ॥

तथापि सुखिनो लोकाः संग्रामे निर्जितारयः ॥ ७१ ॥

दुर्मति वर्षमें संपूर्ण राजालोगोंकी बुद्धि खराबरहै तोभी सब
प्रजाके लोग युद्धमें शत्रुओंको जीतें और सुखी रहैं ॥ ७१ ॥

सर्वसस्यैश्च संपूर्णा धात्री दुंदुभिवत्सरे ॥

राजभिः पाल्यते पूर्वदेशेश्वरविनाशनम् ॥ ७२ ॥

दुंदभि नामक वर्षमें पृथ्वी खेतियोंसे भरपूरहो राजालोग प्रजाकी
पालना करैं पूर्व देशका नाश हो ॥ ७२ ॥

आहवे निहताः सर्वे भूपा रोगैस्तथा जनाः ॥

तथापि तत्र जीवन्ति रुधिरोग्द्वारिवत्सरे ॥ ७३ ॥

रुधिरोग्द्वारी नामक वर्षमें राजालोग युद्धमें मृत्युको प्राप्तहों और प्रजालोग बीमारीसे मरें कितेक लोग जीवते रहें ॥ ७३ ॥

रक्ताक्षिवत्सरे सस्यवृद्धिर्वृष्टिरनुत्तमा ॥

प्रेक्षन्ते सर्वदान्योन्यं राजानो रक्तलोचनाः ॥ ७४ ॥

रक्ताक्षी नामक वर्षमें खेतीकी वृद्धिहो वर्षा बहुत अच्छी हो राजालोग सदा आपसमें क्रूर दृष्टिसे वैरभाव करें ॥ ७४ ॥

क्रोधनाब्दे मध्यवृष्टिः पूर्वसस्यं न तु क्वचित् ॥

संपूर्णमितरत्सस्यं सर्वे क्रोधपरा जनाः ॥ ७५ ॥

क्रोधन नामक वर्षमें मध्यम वर्षाहो पहली खेती (सामणू) कहीं निपजे पिछली खेती अच्छी निपजे संपूर्ण जन क्रोधमें तत्पर रहें ७५ ॥

कार्पासगुडतैलेक्षुमधुसस्यविनाशनम् ॥

क्षीयमाणाश्चापि नराः जीवन्ति क्षयवत्सरे ॥ ७६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां संवत्सरफलम् ॥

क्षय नामक वर्षमें कपास गुड तेल ईख शहद खेती इन्होंका नाश हो क्षीण होते हुए मनुष्य जीवें ॥ ७६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां संवत्सरफलं समाप्तम् ।

आद्यब्देशचमूनाथसस्यपानांबलाबलम् ॥

तत्कालग्रहचारं च सम्यग् ज्ञात्वा फलं वदेत् ॥ ७७ ॥

प्रथम वर्षेश, सेनापति सस्यपति इन्होंका बलाबल विचारके तत्काल ग्रहोंका चार विचारके अच्छे प्रकारसे संवत्का फल कहै ॥ ७७ ॥

सौम्यायनं मासषट्कं मृगाद्यं भानुभुक्तितः ॥

अहः सुराणां तद्रात्रिः कर्काद्यं दक्षिणायनम् ॥ ७८ ॥

मकर आदि छः राशियोंपर सूर्य रहै तबतक उत्तरायण कहाता है वह देवताओंका दिन और कर्क आदि छह संक्रातियोंमें जो दक्षिणायन कहा है वह देवताओंकी रात्रि है ॥ ७८ ॥

गृहप्रवेशवैवाहप्रतिष्ठा मौजिबंधनम् ॥

यज्ञादिमंगलं कर्म कर्तव्यं चोत्तरायणे ॥

याम्यायनेऽशुभं कर्म मासप्रधान्यमेव च ॥ ७९ ॥

गृह प्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा, मौजीबंधन, यज्ञादि मंगल, ये कर्म उत्तरायण सूर्य हो तब करने चाहिये और दक्षिणायनमें अशुभ कर्म तथा मासप्रधान्य महीनाके योगमें होनेवाले कर्म करने चाहिये ॥ ७९ ॥

ऋमाच्छिशिरवासंतग्रीष्माः स्युश्चोत्तरायणे ॥

वर्षा शरच्च हेमंत ऋतवो दक्षिणायने ॥ ८० ॥

उत्तरायण सूर्यमें ऋमसे शिशिर वसंत ग्रीष्म ये तीन ऋतु होती हैं, दक्षिणायनमें वर्षा शरद हेमंत ये ऋतु होती हैं ॥ ८० ॥

माघादिमासौ द्वौद्वौ च ऋतवः शिशिरादयः ॥

चांद्रो दर्शावधिः सौरः संक्रांत्या सावनो दिनैः ॥ ८१ ॥

त्रिंशद्भिश्चंद्रभगणो मासो नाक्षत्रसंज्ञकः ॥

मधुश्च माधवः शुक्रः शुचिश्चापि नभाह्वयः ॥ ८२ ॥

माघ आदि दो २ महीने ये शिशिर आदि ऋतु यथाऋसे जानने । चांद्रमास अमावस्याको समाप्त होता है सौरमास संक्रा-

तिपर पूरा होता है सावनमास पूरे तीसदिनमें समाप्त होता है और
नाक्षत्रमास चंद्रमाके नक्षत्रोंका क्रमसे होता है मधु १ माधव २
शुक्र ३ शुचि ४ नभ ५ ॥ ८१-८२ ॥

नभस्य इष ऊर्जश्च सहाख्यश्च सहस्यकः ॥

तपः स्तपस्यः क्रमशश्चैत्रादीनां तु संज्ञकाः ॥ ८३ ॥

नभस्य, ६ इष ७ ऊर्ज ८ सह ९ सहस्यक १० तपा ११
तपस्य १२ ये बारह चैत्र आदि महीनोंके नाम जानने ॥ ८३ ॥

यस्मिन्मासे पौर्णमासी येन धिष्ण्येन संयुता ॥

तन्नक्षत्राह्वयो मासः पौर्णमासी तथाह्वया ॥ ८४ ॥

जिस महीनेमें जिस नक्षत्रसे युक्त पौर्णमासी होय उसी नक्ष-
त्रके नामसे महीना होता है और उसी नामसे पूर्णमासी होती है जैसे
चित्रानक्षत्र होनेसे चैत्रमास चैत्री पौर्णमासी विशाखा होनेसे वैशा-
खमास वैशाखी पौर्णमासी इत्यादि ॥ ८४ ॥

तत्पक्षौ दैवपैत्राख्यौ शुक्लकृष्णौ च तावुभौ ॥

शुभाशुभे कर्मणि च प्रशस्तौ भवतः सदा ॥ ८५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां संवत्सराध्यायस्तृतीयः ॥

तिसके शुक्ल और कृष्णसे दो पक्ष दैव पैत्रनामसे प्रसिद्ध हैं
शुभ अशुभ कर्ममें प्रशस्त कहे हैं अर्थात् शुक्ल पक्षमें शुभकर्म
शुभ हैं ॥ ८५ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां संवत्सराध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

वह्निर्विरिंचिर्गिरिजागणेशः फणी विशाखो दिनकृन्महेशः ।
दुर्गान्तको विष्णुहरी स्मरश्च सर्वः शशी चेतिपुराणदृष्टः ॥ १ ॥

अथ प्रतिपदा आदि तिथियोंके स्वामी अग्नि १ ब्रह्मा २
गौरी ३ गणेश ४ सर्प ५ स्कंद ६ सूर्य ७ शिव ८ दुर्गा ९ यम
१० विश्वेदेवा ११ हरि १२ कामदेव १३ शिव १४ चंद्रमा १५
ये प्रतिपदा आदि पूर्णिमातक तिथियोंके स्वामी हैं ॥ १ ॥

अमाया पितरः प्रोक्तास्तिथीनामधिपाः क्रमात् ॥ २ ॥

अमावस्याके स्वामी पितर हैं ऐसे तिथियोंके स्वामी यथाक्रमसे
जानने चाहिये ॥ २ ॥

तिथीनामपराः संज्ञाः कथ्यन्ते ता यथाक्रमात् ॥ ३ ॥

तिथियोंकी अन्यभी संज्ञा है सो यथा क्रमसे नंदा, भद्रा, जया,
रिक्ता, पूर्णा ऐसे जाननी ॥ ३ ॥

पर्यायत्वेन विज्ञेया नेष्टमध्येष्टदा सिते ॥

कृष्णपक्षेपीष्टमध्यनेष्टदाः क्रमशः सदा ॥ ४ ॥

ये तिथि अर्थात् प्रतिपदासे ५ तक फिर १० तक फिर १५ तक
ऐसे शुक्लपक्षमें अशुभ, मध्यम, श्रेष्ठ, ऐसे फलदायी जाननी और
कृष्णपक्षमें श्रेष्ठ मध्यम, अशुभ ऐसे क्रमसे जाननी ॥ ४ ॥

चित्रलेख्यासवक्षेत्रतैलशय्यासनादि यत् ॥

वृक्षच्छेदो मृदाशमार्थं कर्मप्रतिपदीरितम् ॥ ५ ॥

चित्र लिखना, मदिरा निकालनी, खेतका काम, तेल मालिश,
शय्या, आसन, वृक्षकाटना, घर पत्थरका काम. ये कर्म प्रतिपदा
तिथिविषे करने शुभ हैं ॥ ५ ॥

विवाहमौंजीयात्राश्च सुरस्थापनभूषणम् ॥

गृहं पुष्ट्यखिलं कर्म द्वितीयायां विधीयते ॥ ६ ॥

विवाह, मौंजीबंधन, यात्रा, देवस्थापन, आभूषण, घर प्रारंभ, संपूर्ण पुष्टिके कर्म, ये सब द्वितीया तिथि विषे करने चाहियें ॥ ६ ॥

मौंजी प्रतिष्ठाश्च शिल्पविद्या निखिलमंगलम् ॥

पश्चिमोष्ठांबुयानोक्तं तृतीयायां विभूषणम् ॥ ७ ॥

मौंजीबंधन, प्रतिष्ठा, शिल्पविद्या, संपूर्ण मंगलकार्य, पशु, हाथी, ऊंट इनका खरीदना जलमें गमन करना ये कर्म तृतीया तिथि विषे करने शुभ हैं ॥ ७ ॥

अथर्वविद्याशस्त्राग्निबंधनोच्चाटनादिकम् ॥

मारणाद्यखिलं कर्म रिक्तास्वेव विधीयते ॥ ८ ॥

अथर्व विद्या अर्थात् गायन तथा मंत्रादि विद्या शस्त्र विद्या अग्नि बंधन उच्चाटन मारण आदि कर्म रिक्ता ४।९।१४ तिथियोंमें करने चाहियें ॥ ८ ॥

यानोपनयनोद्गाहग्रहशांतिकपौष्टिकम् ॥

चरस्थिराखिलं कर्म पंचम्यां मंगलोत्सवम् ॥ ९ ॥

सवारी करना, उपनयनकर्म, विवाह, ग्रहशांति, पौष्टिक कर्म, चर स्थिर मंगलोत्सव, ये कम पंचमी तिथिमें करने चाहियें ॥ ९ ॥

पशुवास्तुमहीसेवापण्यांबुक्रयविक्रये ॥

भूषणं व्यवहारादि कर्म षष्ठ्यां विधीयते ॥ १० ॥

पशुकर्म, वास्तुकर्म, पृथ्वीके काम, सेवाकर्म, दूकान, जल, खरी-दना, बेचना, आभूषण, व्यवहार ये कम षष्ठी तिथिमें करने चाहियें १०

यानस्थापनवाहादि राजसेवादि कर्म यत् ॥

विवाहवास्तुभूषाद्यं सप्तम्यां चोपनायनम् ॥ ११ ॥

गमन, स्थापन, वाहन, राजसेवा आदिकर्म, विवाह, वास्तु, आभूषण, उपनयनकर्म ये सप्तमीमें करने चाहिये ॥ ११ ॥

कृषिवाणिज्यधान्याश्मलोहसंग्रामभूषणम् ॥

शिवस्थापनखाताम्बुकर्माष्टम्यां विधीयते ॥ १२ ॥

खेती वणिज धान्य पत्थर लोहा संग्राम आभूषण शिवस्थापन खोदनेका काम जलकर्म ये अष्टमी विषे करने चाहिये ॥ १२ ॥

प्रासादस्थापनं यानमुद्राहो व्रतबंधनम् ॥

शांतिपुष्ट्यादिकं कर्म दशम्यांतु प्रशस्यते ॥ १३ ॥

देवमंदिरकी पूजा गमन विवाह व्रतबंधन शांतिपुष्टि आदिकर्म ये दशमीविषे करने श्रेष्ठ हैं ॥ १३ ॥

व्रतोपवासवैवाहकृषिवाणिज्यभूषणम् ॥

शिल्पनृत्यं गृहं कर्म एकादश्यां विचित्रकम् ॥ १४ ॥

व्रत उपवास विवाह खेती वणिज आभूषण शिल्पकर्म नृत्य गृह कर्म विचित्रकर्म ये एकादशीतिथिमें करने चाहिये ॥ १४ ॥

चरस्थिराखिलं कर्म दानशांतिकपौष्टिकम् ॥

यात्रान्नग्रहणं त्यक्त्वा द्वादश्यां निखिलं हितम् ॥ १५ ॥

चर स्थिर सम्पूर्ण कर्म, दानशांति पौष्टिककर्म यात्रा अन्नसंग्रह इनकर्मोंके बिना अन्यकर्म द्वादशी तिथिमें करने शुभ हैं १५ ॥

अग्न्याधानं प्रतिष्ठा च विवाहव्रतबंधनम् ॥

निखिलं मंगलं यानं त्रयोदश्यां प्रशस्यते ॥ १६ ॥

अग्निस्थापन, प्रतिष्ठा, विवाह, यज्ञोपवीत, संपूर्ण मंगलकर्म यात्रा
ये त्रयोदशीको करने शुभ हैं ॥ १६ ॥

बंधनाग्निप्रदानोग्रघातव्रणरणक्रिया ॥

शस्त्रास्त्रलोहकर्माणि चतुर्दश्यां विधीयते ॥ १७ ॥

बंधन अग्निलाना उग्रघात रण शस्त्र अस्त्र लोहकर्म ये सब
चतुर्दशीको करने शुभ हैं ॥ १७ ॥

तैलस्त्रीसंगमं चैव दंतकाष्ठोपनायनम् ॥

सक्षौरं पौर्णमास्यां च विनान्यदखिलं हितम् ॥ १८ ॥

तेलकी मालिश, स्त्रीसंग, दांतून करना, यज्ञोपवीत क्षौर इनके
विना अन्यकर्म पौर्णमासी विषे करने शुभ हैं ॥ १८ ॥

पितृकर्मत्वमावास्यामेकं मुक्त्वा कदाचन ॥

न विदध्यात् प्रयत्नेन यत्किञ्चिन्मंगलादिकम् ॥ १९ ॥

अमावास्या तिथिविषे एक पितृ कर्मविना अन्य कुछ मंगलकर्म
कभी नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥

अष्टमी द्वादशी षष्ठी चतुर्थी च चतुर्दशी ॥

तिथयः पक्षरंध्राख्या दुष्टास्ता अतिनिदिताः ॥ २० ॥

अष्टमी द्वादशी षष्ठी चतुर्थी चतुर्दशी ये तिथि पक्षरंध्रनामक
अर्थात् पक्षमें छिद्ररूप कही हैं ये अशुभ अत्यंत निंदित हैं ॥ २० ॥

चतुर्थमनुरंध्रांकतत्वसंज्ञास्तु नाडिकाः ॥

त्याज्या दुष्टासु तिथिषु पंचस्वेतासु सर्वदा ॥ २१ ॥

और ४-१४-७-९-५- इतनी प्रमाण घड़ी यथाक्रमसे
इन आदि दुष्ट पांच तिथियोंमें सदा त्याग देनी चाहिये फिर अशुभ
नहीं है ॥ २१ ॥

अमावास्या च नवमी त्यक्त्वा विषमसंज्ञिकाः ॥

तिथयस्ताः प्रसस्ताः स्युर्मध्यमा प्रतिपत्तथा ॥ २२ ॥

फिर अमावस्या नवमीको त्यागकर ये विषमसंज्ञक तिथि भी शुभदायक कही हैं और प्रतिपदा तिथि मध्यम है ॥ २२ ॥

दर्शषष्ठ्यां प्रतिपदि द्वादश्यां प्रतिपर्वसु ॥

नवम्यां च न कुर्वीत कदाचिदंतधावनम् ॥ २३ ॥

अमावस्या षष्ठी प्रतिपदा द्वादशी पूर्णमासी इनमें कभी दांतून नहीं करनी चाहिये ॥ २३ ॥

षष्ठ्यां तैलं तथाष्टम्यां मांसं क्षौरं तथा कलौ ॥

पूर्णिमादर्शयोर्नारीसेवनं परिवर्जयेत् ॥ २४ ॥

षष्ठीमें तेल अष्टमीविषे मांस चतुर्दशी विषे क्षौर पूर्णमासी वा अमावस्या विषे स्त्रीरमण वर्जदेना चाहिये ॥ २४ ॥

व्यतीपाते च संक्रांतौ एकादश्यां च पर्वसु ॥

अर्कभौमदिने षष्ठ्यां नाभ्यंगं च न वैधृतौ ॥ २५ ॥

व्यतीपात, संक्रान्ति, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, रविवार मंगल, षष्ठी, वैधृतियोग इन विषे तैल उबटना आदिकी मालिश नहीं करना ॥ २५ ॥

यः करोति दशम्यां च स्नानमामलकैः सह ॥

पुत्रहानिर्भवेत्तस्य त्रयोदश्यां धनक्षयः ॥ २६ ॥

दशमीके दिन जो आवलोंसे स्नान करता है उसके पुत्रकी हानि होती है और त्रयोदशी विषे करे तो धनका क्षय हो ॥ २६ ॥

अर्थपुत्रक्षयं तस्य द्वितीयायां न संशयः ॥

अमायां च नवम्यां च सप्तम्यां च कुलक्षयः ॥ २७ ॥

द्वितीया विषे धन और पुत्रका नाश हो अमावस्या नवमी सप्तमी इन विषे आंवल्लोसे स्नान करे तो कुलका क्षय हो ॥ २७ ॥

या पूर्णमास्यनुमतिर्निशि चंद्रवती यदा ॥

दिवा चंद्रवती राका ह्यमावास्या तथा द्विधा ॥ २८ ॥

जिसमें रात्रिमें चंद्रमा प्राप्त हो अर्थात् चतुर्दशीमें पूर्णिमा आई हो वह अनुमति कही है और दिनमें भी चंद्रमाकी पूर्ण कलाओंसे युक्त हो वह राकासंज्ञक पूर्णिमा तिथि कही है तैसे ही अमावस्या भी दो प्रकारकी कही है ॥ २८ ॥

सिनीवाली सेंदुमती कुहूँनैदुमती मता ॥

कार्तिके शुक्लनवमी त्वादिः कृतयुगस्य सा ॥ २९ ॥

एक तो सिनीवाली है उसको चंद्रमा दीखजाता है और कुहूँ संज्ञक कही है उसको चंद्रमाकी सब कला क्षीण होजाती हैं और कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि सत्ययुगादितिथि कही है ॥ २९ ॥

त्रेतादिर्माधवे शुक्ला तृतीया पुण्यसंज्ञिता ॥

कृष्णा पंचदशी माघे द्वापरादिरुदीरि ता ॥ ३० ॥

वैशाख शुक्ला तृतीया त्रेताकी आदि तिथि कही है पवित्र है माघकी अमावस्या द्वापरकी आदि तिथि कही है ॥ ३० ॥

कल्पादिस्यात्कृष्णपक्षे नभस्ये च त्रयोदशी ॥

द्वादश्यूर्जे शुक्लपक्षे नवम्याश्वयुजे सिते ॥ ३१ ॥

भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी कलियुगादि तिथि कही है ॥ और
कार्तिक शुक्ल द्वादशी आश्विन शुक्ल नवमी ॥ ३१ ॥

चैत्रे भाद्रपदे चैव तृतीया शुक्लसंज्ञिता ॥

एकादशी सिता पौषेऽप्याषाढे दशमी सिता ॥ ३२ ॥

चैत्र-शुक्ल तृतीया भाद्रपद शुक्ल तृतीया, पौष शुक्ल एकादशी
आषाढ शुक्ल दशमी ॥ ३२ ॥

माघे च सप्तमी शुक्ला नभस्येऽप्यसिताष्टमी ॥

श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पूर्णिमा ॥ ३३ ॥

माघ शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, श्रावणकी अमावस्या,
फाल्गुनकी पूर्णिमा ॥ ३३ ॥

आषाढे कार्तिके मासि चैत्रे ज्येष्ठे च पूर्णिमा ॥

मन्वादयः स्नानदानश्राद्धेष्वानंत्यपुण्यदा ॥ ३४ ॥

आषाढकी पूर्णिमा और कार्तिक, चैत्र, ज्येष्ठ इन्हींकी पूर्णिमा
ये मन्वादिक तिथि कहीहैं स्नान दान श्राद्ध इन कर्मोंमें अनंत फल
दायक हैं ॥ ३४ ॥

भाद्रकृष्णे त्रयोदश्यां मघास्विदुः करे रविः ॥

गजच्छाया तदा ज्ञेया श्राद्धेत्यंतफलप्रदा ॥ ३५ ॥

भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विषे मघा नक्षत्रपर चन्द्रमा हो औ
हस्तपर सूर्य होय तो गजच्छाया योग कहा है श्राद्धमें अत्यंत फल
दायक है ॥ ३५ ॥

एकस्मिन्वासरे तिस्रस्तिथयः स्युः क्षयातिथिः ॥

तिथिर्वारत्रयेष्वेका त्वधिकात्यंतनिदिता ॥ ३६ ॥

एकवार निरंतर एक वार विषे तीन तिथि क्षय होवें अथवा निरंतर तीन उनही वारोंमें एक तिथि बढी हो वह अत्यंत निन्दित कही है ॥ ३६ ॥

सूर्यास्तमनपर्यंतं यस्मिन् वारोपि या तिथिः ॥

विद्यते सा त्वखंडास्याद्दूनाचेत्खंडसंज्ञिता ॥ ३७ ॥

सूर्य अस्त हो तबतक एकही तिथि उस वारमें रहे तो वह अखंडा तिथि कहाती है जो ऊन (अधूरी) रह जावे तो वह खंडिता कहलाती है ॥ ३७ ॥

तिथेः पंचदशो भागः क्रमात्प्रतिपदादयः ॥

द्विघटीप्रमितं तत्र मुहूर्त्तं कथितं बुधैः ॥ ३८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां तिथिलक्षणाध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

तिथिका पंद्रहवाँ भाग अर्थात् चंद्रमंडलका पंद्रहवाँ भाग प्रतिपदा आदि तिथि कही हैं और दो घटीका एक मुहूर्त्त होता है ॥ ३८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां तिथिलक्षणाध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

नृपाभिषेकमांगल्यसेवायानास्त्रकर्म यत् ॥

औषधाइवधान्यादि विधेयं रविवासरे ॥ १ ॥

राज्याभिषेक, मंगलकर्म, सेवा, सवारी, अस्त्रकर्म, औषध, युद्ध, धान्य कर्म ये रविवार विषे करने चाहियें ॥ १ ॥

शंखमुक्तांबुरजतवृक्षेक्षुस्त्रीविभूषणम् ॥

पुष्पगीतक्रतुक्षीरकृषिकर्मन्दुवासरे ॥ २ ॥

शंख मोती चांदी वृक्ष ईश्व स्त्रीका आभूषण पुष्प गीत यज्ञ दूध
खेती ये कर्म सोमवार में करने चाहियें ॥ २ ॥

विषाग्निबंधनस्तेयं संधिविग्रहमाहवे ॥

धात्वाकरप्रवालास्त्रकर्मभूमिजवासरे ॥ ३ ॥

विषे अग्नि बंधन चोरी युद्धमें संधि या विग्रह धातु खजान मूंगा
शस्त्रकर्म ये मंगलवारमें करने चाहियें ॥ ३ ॥

नृत्यशिल्पकलागीतलिपिभूरससंग्रहम् ॥

विवाहधातुसंग्रामकर्म सौम्यस्य वासरे ॥ ४ ॥

नृत्य शिल्पकला गीत लिखना पृथ्वीके रसोंका संग्रह विवाह
धातु संग्राम ये कर्म बुधवारमें करने चाहियें ॥ ४ ॥

यज्ञपौष्टिकमांगल्यं स्वर्णवस्त्रादिभूषणम् ॥

वृक्षगुल्मलतायानकर्म देवेज्यवासरे ॥ ५ ॥

यज्ञ पौष्टिक कर्म मांगल्यकर्म सुवर्ण वस्त्र आदिका शृंगार वृक्ष
गुच्छा लता सवारी ये कर्म बृहस्पति वारमें करने चाहियें ॥ ५ ॥

नृत्यगीतादिवादित्रस्वर्णस्त्रीरत्नभूषणम् ॥

भूषण्योत्सवगोधान्यकर्म भार्गववासरे ॥ ६ ॥

नृत्य, गीत, बाजा, सुवर्ण, स्त्री, रत्न, आभूषण, भूमि दूकान,
उत्सव, गौ, धान्य इन्होंके कार्य शुक्रवार विषे करने चाहियें ॥ ६ ॥

त्रपुसीसायसोऽश्मास्त्रविषपापासवानृतम् ॥

स्थिरकर्माखिलं वास्तुसंग्रहं सौरिवासरे ॥ ७ ॥

राँग, सीसा, लोहा, पत्थर, शस्त्र, विष, पाप, मदिरा, झूठ,
स्थिरकर्म, वास्तुकर्म (घरमें प्रवेश) संग्रह, ये कर्म शनिवारमें करने
शुभ हैं ॥ ७ ॥

रविः स्थिरश्चरश्चंद्रः कुजः क्रूरो बुधोखिलः ॥

लघुरीज्यो मृदुः शुक्रस्तीक्ष्णो दिनकरात्मजः ॥ ८ ॥

सूर्य स्थिर है चंद्रमा चर है मंगलक्रूर और बुध अच्छे प्रकार पूर्ण है बृहस्पति लघु (अच्छा हलका) है शुक्र मृदु (कोमल) है शनि तीक्ष्ण कहा है ॥ ८ ॥

अभ्यक्तो भानुवारे यः स नरः क्लेशवान् भवेत् ॥

ऋक्षेशे कांतिभाग् भौमे व्याधिः सौभाग्यमिंदुजे ॥ ९ ॥

जो मनुष्य रविवारको तेल आदिकी मालिश करै वह दुःखी होवे चंद्रवारको तेल लगावे तो अच्छी कांति बढै मंगलको लगावे तो बीमारी हो बुधको सौभाग्य प्राप्त हो ॥ ९ ॥

जीवे नैःस्वं सिते हानिर्मदे सर्वसमृद्धयः ॥

उदयादुदयं वार इति पूर्वविनिश्चितम् ॥ १० ॥

बृहस्पतिको दरिद्रता शुक्रको हानि और शनिवारको तेल लगावे तो सब बातोंकी समृद्धिहो सूर्यके उदयप्रति वार लगता है यह पहिलेका निश्चय चला आताहै ॥ १० ॥

लंकोदयात् स्याद्द्वारादिस्तस्मादूर्ध्वमधोपि वा ॥

देशान्तरचरार्द्धाभिर्नाडीभिरपरो भवेत् ॥ ११ ॥

लंकामें सूर्य उदय हो वह वारादि हैं और लंकासे ऊपरको तथा नीचेको जो देशांतर हैं उनके चर खंडाओंकरके घटियोंके अंतर होते हैं अर्थात् सब जगह सब समयमें एकवक्त वार नहीं लगताहै शास्त्रोक्तविधिसे वारप्रवेश देखा जाता है ॥ ११ ॥

बलप्रदस्य खेटस्य वारे सिध्यति यत्कृतम् ॥

तत्कर्म बलहीनस्य दुःखेनापि न सिध्यति ॥ १२ ॥

बलदायक ग्रहके वारमें जो कर्म किया जाय वह सिद्ध होता है वही काम जो बलहीन ग्रहके वारमें किया जाय तो परिश्रम होकर भी कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ १२ ॥

बुधेन्दुजीवशुक्राणां वासराः सर्वकर्मसु ॥

सिद्धिदाः क्रूरवारेषु यदुक्तं कर्म सिध्यति ॥ १३ ॥

बुध, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र ये वार सब कामोंमें अच्छे हैं और क्रूरवारोंमें उग्र कर्म कहे हैं वेही सिद्ध होते हैं ॥ १३ ॥

रक्तवर्णो रविश्चन्द्रो गौरो भौमस्तु लोहितः ॥

दूर्वावर्णो बुधो जीवः पीतः श्वेतस्तु भार्गवः ॥ १४ ॥

सूर्य लालवर्ण है चंद्रमा गौरवर्ण है मंगल लालवर्ण है बुध हरितवर्ण है बृहस्पतिक पीलावर्ण है शुक्र सफेदवर्ण है ॥ १४ ॥

कृष्णः शौरिः स्ववारेषु स्वस्ववर्णाः क्रियाः शुभाः ॥ १५ ॥

शनैश्चर कालावर्ण है तहां अपने २ वर्णोंके कामकरनें शुभ कहेहैं

अद्रि ७ बाणा ५ वधय ४ स्तर्क ६ तोयाकर ४

धराधराः ७ ॥ बाणा ५ मि ३ लोचनानि २ स्यु-

र्वेद ४ बाहु २ शिलीमुखाः ५ ॥ १६ ॥

अब कुलिक आदि योग कहते हैं रविवारको ७-५-४ इन प्रहरोंमें और चंद्रवारको ६-४-७ इन प्रहरोंमें मंगलवारको ५-३-२- इन प्रहरोंमें बुधको ४-२-५- इन प्रहरोंमें ॥ १६ ॥

लोके ३ न्दु १ वसवो ८ नेत्र २ शैला ७ ग्री ३ न्दु १ रसो
 ६ रसः ६॥ कुलिका यमघंटाख्या अर्धप्रहरसंज्ञकाः ॥ १७ ॥
 बृहस्पतिको ३-१-८- इन प्रहरोंमें शुक्रको २-७-३- इन
 प्रहरोंमें शनिको १-६-६- इन प्रहरोंमें यथाक्रमसे कुलिक, यम
 घंटक, प्रहरार्द्ध अर्थात् वारवेला ये तीन योग होते हैं ॥ १७ ॥

प्रहरार्धप्रमाणास्ते विज्ञेया सूर्यवासरात् ॥

यस्मिन्वारे क्षणो वार इष्टस्तद्वासराधिपः ॥ १८ ॥

आद्यषष्ठो द्वितीयोऽस्मात्तस्मात्षष्ठस्तृतीयकः ॥

षष्ठषष्ठश्चैतरेषां कालहोराधिपाः स्मृताः ॥ १९ ॥

जिस वारके जो तीन प्रहर दिखाये हैं उनमें यथाक्रमसे आधे २
 प्रहर तक ये योग रहते हैं जैसे रविवारमें ७ प्रहरमें आधे प्रहरतक
 कुलिकयोग फिर ५ प्रहरमें यमघंटक फिर ४ प्रहरमें ४ घड़ी अर्ध-
 प्रहर (वारवेला) ऐसे सभीमें जानों ये शुभकर्ममें निर्दिष्ट हैं
 जिसवारमें जिस वक्त जिसकी होरा आती है तब वह वार
 स्वामी होता है पहले तो वर्त्तमान वार फिर उससे छठा वार फिर
 तिससेभी छठा वार फिर तिससे छठा ऐसे छठे छठे वारकी काल
 होरा होती है ॥ १८ ॥ १९ ॥

सार्धनाडीद्वयेनैवं दिवा रात्रौ यथाक्रमात् ॥

यस्य खेटस्य यत्कर्म वारे प्रोक्तं विधीयते ॥

ग्रहस्य कर्म वारेऽपि तत्क्षणे तस्य सर्वदा ॥ २० ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां वारलक्षणाऽध्यायः पंचमः ॥ ६ ॥

दिनरात्रिमें यथाक्रमसे २॥ अर्द्ध घडीकी काल होरा जाननी जिसग्रहके वारमें जो काम करना कहा है वही काम उसी वारकी होरामें भी सदा करलेना चाहिये जैसे रविवारको चंद्रमाकी होरा आवै तब चंद्रवारके कार्य करने योग्य हैं ॥ २० ॥ इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां वारलक्षणाध्यायः पंचमः ॥ ५ ॥

नक्षत्रेशाः क्रमादस्रयमवह्निपितामहाः ॥

चंद्रेशाऽदितिजीवाहिपितरो भगसंज्ञिताः ॥ १ ॥

दस्र (अश्विनीकुमार) १ यम २ वह्नि ३ ब्रह्मा ४ चंद्रमा ५ शिवजी ६ अदिति ७ बृहस्पति ८ सर्प ९ पितर १० भग ११ ॥ १ ॥

अर्यमार्कत्वष्टमरुच्छक्राग्निमित्रवासवाः ॥

निर्ऋत्युदाग्निवश्वविधि गोविंदवसुतोयपाः ॥ २ ॥

अर्यमा १२ सूर्य १३ त्वष्टा १४ वायु १५ इंद्राग्नि १६ मित्र १७ इंद्र १८ निर्ऋति १९ जल २० विश्वेदेवा २१ ब्रह्मा २२ विष्णु २३ वसु २४ वरुण २५ ॥ २ ॥

ततोऽजपादाहिर्बुध्न्यः पूषा चेति प्रकीर्तिताः ॥

वस्त्रोपनयनं क्षौरः सीमंताभरणक्रिया ॥ ३ ॥

अजैकपाद् २६ अहिर्बुध्न्य २७ पूषा ८ ऐसे ये २७ देवता आश्विनी आदि २७ नक्षत्रोंके स्वामी कहेहैं । अब इन नक्षत्रोंमें करने योग्य कार्योंको कहते हैं वस्त्र यज्ञोपवीत क्षौर सीमंत आभूषण कर्म ॥ ३ ॥

स्थापनाश्वादियानं च कृषिविद्यादयोऽश्विभे ॥

वापीकूपतडागादि विषशस्त्रोग्रदारुणम् ॥ ४ ॥

प्रतिष्ठा, घोड़ा आदि सवारी, खेती विद्या पढना इत्यादि काम अश्विनी नक्षत्रमें करने शुभ हैं और बावड़ी कुँवा तलाव कराना विष शस्त्र उग्र दारुण काम ॥ ४ ॥

विलप्रवेशगणितनिक्षेपा याम्यभे शुभाः ॥

अग्न्याधानास्त्रशस्त्रोग्रसन्धिविग्रहदारुणाः ॥ ५ ॥

गुफामें प्रवेश होना गणित विद्या धरोहड़ जमा करना ये कार्य भरणी नक्षत्रमें करने शुभ हैं अग्निस्थापन अस्त्र शस्त्र उग्रकर्म संधि दारुण विग्रह ॥ ५ ॥

संग्रामौषधवादित्रक्रियाः शस्ताश्च बह्निभे ॥

सीमंतोपनयनोद्वाहवस्त्रभूषास्थिरक्रियाः ॥

गजवास्त्वभिषेकाश्च प्रतिष्ठा ब्रह्मभे शुभाः ॥ ६ ॥

संग्राम औषध बाजा ये काम कृत्तिका नक्षत्रमें करने शुभ हैं, और सीमंतकर्म, यज्ञोपवीत, विवाह, वस्त्रपहिनना, आभूषण, स्थिरक्रिया, व हाथी लेना, वास्तुकर्म, अभिषेक, प्रतिष्ठा ये कर्म रोहिणी नक्षत्रमें शुभ हैं ॥ ६ ॥

प्रतिष्ठभूषणोद्वाहसीमंतोपनयनक्रियाः ॥

क्षौरवास्तुगजोष्ट्राश्च यात्रा शस्ता च चंद्रभे ॥ ७ ॥

प्रतिष्ठा, आभूषण, विवाह, सीमंतकर्म, उपनयन, क्षौर, वास्तु-कर्म, हाथी, ऊंटका काय, यात्रा ये मृगशिरा नक्षत्रमें शुभ हैं ॥ ७ ॥

ध्वजतोरणसंग्रामप्राकारास्त्रक्रियाःशुभाः ॥

संधिविग्रहवैतानरसाद्याःशिवभे शुभाः ॥ ८ ॥

ध्वजा, तोरण, संग्राम, किला, (कोट) शस्त्र क्रिया, संधि, विग्रह
मंडप, रसक्रिया, ये कर्म आर्द्रा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ ८ ॥

प्रतिष्ठा यानसीमंतवस्त्रवास्तूपनायनम् ॥

क्षौरास्त्रकर्मादितिभे विधेयं धान्यभूषणम् ॥ ९ ॥

प्रतिष्ठा, गमन, सीमंतकर्म, वस्त्रकर्म, वास्तु, उपनयन, क्षौरकर्म,
अस्त्रकर्म, धान्य, आभूषण, ये कार्य पुनर्वसु नक्षत्रमें करने
शुभ हैं ॥ ९ ॥

यात्राप्रतिष्ठासीमंतव्रतबंधप्रवेशनम् ॥

करग्रहं विना सर्वं कर्म देवेज्यभे शुभम् ॥ १० ॥

यात्रा, प्रतिष्ठा, सीमंत, यज्ञोपवीत, गृहप्रवेश ये कर्म तथा विवाह
कर्म विना अन्य सब कार्य पुष्य नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १० ॥

अनृतव्यसनद्यूतक्रोधाग्निविषदाहकम् ॥

विवादरसवाणिज्यं कर्म कद्रुजभे शुभम् ॥ ११ ॥

झूठ, व्यसन, जूवा, क्रोध, अग्नि, विष, दाह, विवाद, रस,
वाणिज्य ये कर्म आश्लेषा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ ११ ॥

कृषिवाणिज्यगोधान्यरणोपकरणादिकम् ॥

विवाहनृत्यगीताद्यं निखिलं कर्म पैत्रभे ॥ १२ ॥

खेती, वाणिज्य, गौ, धान्य, रण, कोई वस्तुसंचय तैयारी, विवाह,
नृत्य, गीत ये सब कर्म मघा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १२ ॥

विवादविषशस्त्राग्निदारुणोग्राहवादिकम् ॥

पूर्वात्रयेऽखिलं कर्म कर्तव्यं मांसविक्रयम् ॥ १३ ॥

विवाद विष शस्त्र अग्नि दारुण उग्रकर्म युद्ध मांस वेचना
इत्यादि कर्म तीनों पूर्वाओंमें करने शुभ हैं ॥ १३ ॥

वस्त्राभिषेकलोहाशमविवाहव्रतबंधनम् ॥

प्रवेशस्थापनाश्वेभवास्तुकर्मोत्तरात्रये ॥ १४ ॥

वस्त्र अभिषेक लोहा पत्थर विवाह यज्ञोपवीत प्रवेश प्रतिष्ठा-
कर्म घोडा हाथी वास्तुकर्म ये सब कार्य तीनों उत्तराओंमें करने
शुभ हैं ॥ १४ ॥

प्रतिष्ठोद्गाहसीमंतयानवस्त्रोपनायनम् ॥

क्षौरवास्त्वभिषेकाश्च भूषणं कर्म भानुभे ॥ १५ ॥

प्रतिष्ठा विवाह सीमंतकर्म सवारी वस्त्र उपनयनकर्म क्षौर वास्तु-
कर्म अभिषेक आभूषण ये कर्म हस्त नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १५ ॥

प्रवेशवस्त्रसीमंतप्रतिष्ठाव्रतबंधनम् ॥

त्वाष्ट्रभे वास्तुविद्या च क्षौरभूषणकर्म यत् ॥ १६ ॥

प्रवेश वस्त्र सीमंत प्रतिष्ठा यज्ञोपवीत वास्तुविद्या क्षौर आभूषण ये
कर्म चित्रा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १६ ॥

प्रतिष्ठोपनयोद्गाहवस्त्रसीमंतभूषणम् ॥

प्रवेशाश्वेभकृष्यादिक्षौरकर्म समीरभे ॥ १७ ॥

प्रतिष्ठा उपनयन विवाह वस्त्र सीमंतकर्म आभूषण प्रवेश घोडा
हाथी खरीदना खेती क्षौरकर्म ये स्वाति नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १७ ॥

वस्त्रभूषणवाणिज्यवस्तुधान्यादिसंग्रहः ॥

इंद्राग्निभे नृत्यगीतशिल्पलोहाश्मलेखनम् ॥ १८ ॥

वस्त्र आभूषण वणिज वस्तु व धान्य आदिका संग्रह, नृत्य गीत शिल्पकर्म लोहा पत्थर लिखना ये कर्म विशाखा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १८ ॥

प्रवेशस्थापनोद्गाहव्रतबंधाष्टमंगलाः ॥

वास्तुभूषणवस्त्राश्वा मैत्रभे संधिविग्रहः ॥ १९ ॥

प्रवेश प्रतिष्ठा विवाह व्रतबन्ध अष्ट प्रकारके मंगल, वास्तुकर्म, आभूषण वस्त्र अश्वा संधि विग्रह ये कार्य अनुराधा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ १९ ॥

क्षौरास्त्रशास्त्रवाणिज्यगोमहिष्यंबुकर्म यत् ॥

इंद्रभे गीतवादित्रशिल्पलोहाश्मलेखनम् ॥ २० ॥

क्षौरकर्म, अस्त्रकर्म, शस्त्रकर्म, वणिज, गौ, महिषी, जल, गीत, वाजा, शिल्प, लोहा, पत्थर, लिखना, ये कर्म ज्येष्ठानक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ २० ॥

विवाहकृषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजम् ॥

नैर्ऋते नृत्यशिल्पास्त्रशास्त्रलोहाश्मलेखनम् ॥ २१ ॥

विवाह, खेती, वणिज, दारुण, युद्ध, औषध, नृत्य, शिल्प, अस्त्र, शस्त्र, लोहा, पत्थर, लिखना ये कर्म मूल नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ २१ ॥

प्रतिष्ठाक्षौरसीमंतयानोपनयनौषधम् ॥

पुराणे स्तु गृहारंभो विष्णुभे च समीरितम् ॥ २२ ॥

प्रतिष्ठा, क्षौर, सीमंत, सवारी; उपनयन; औषध पुराना घर
चिनना इन कामोंमें श्रवण नक्षत्र शुभहै ॥ तीनों पूर्वा तीनों उत्तराओं
का फल एकत्र कह चुकेहैं ॥ २२ ॥

वस्त्रोपनयनं क्षौरं मौंजीबंधनभेषजम् ॥

वसुभे वास्तुसीमंतप्रवेशाश्च विभूषणः ॥ २३ ॥

वस्त्र, उपनयनकर्म, क्षौर, मौंजीबंधन, औषध, वास्तुकर्म, सीमंत;
गृहप्रवेश, आभूषण ये कर्म धनिष्ठानक्षत्रमें करने शुभहैं ॥ २३ ॥

वेशस्थापनं क्षौरमौंजीबंधनभेषजम् ॥

अश्वारोहणसीमंतवास्तुकर्म जलेशभे ॥ २४ ॥

गृहप्रवेश, प्रतिष्ठा, क्षौर, मौंजीबंधन, औषध घोड़ेकी सवारी
करना, सीमंत, वास्तुकर्म ये शतभिषा नक्षत्रमें करने शुभहैं ॥ २४ ॥

विवाहव्रतबंधाश्च प्रतिष्ठायानभूषणम् ॥

वेशवस्त्रसीमंतक्षौरभेषजमंत्यभे ॥ २५ ॥

विवाह, व्रतबंध, प्रतिष्ठा, सवारी, आभूषण, प्रवेश, वस्त्र, सीमंत,
क्षौर, औषध, ये रेवती नक्षत्रमें करने शुभहैं ॥ २५ ॥

पूर्वात्रयाग्निमूलाहिद्विदैवत्यमघांतकम् ॥

अधोमुखं तु नवकं भानां तत्र विधीयते ॥ २६ ॥

तीनों पूर्वा, कृत्तिका, मूल, आश्लेषा, विशाखा, मघा, भरणी ये
नव नक्षत्र अधोमुख संज्ञक हैं ॥ २६ ॥

॥ इति अधोमुखम् ॥

विलप्रवेशगणितभूतसाधनलेखनम् ॥

शिल्पकर्म लताकूपानिक्षेपोद्धारणादि यत् ॥ २७ ॥

इन अधोमुख नक्षत्रोंमें गुफामें प्रवेश होना गणित मंत्र यंत्र साधन, लिखना शिल्पकर्म लता (बेल) लगाना कूवामें गिरी हुई वस्तु निकालना शुभ है ॥ २७ ॥

मित्रेदुत्वाष्टहस्तार्द्रादितिभांत्योश्ववायुभम् ॥

तिर्यङ्मुखं नवकं भानां तत्र विधीयते ॥ २८ ॥

इति तिर्यङ्मुखम् ॥

अनुराधा, मृगशिर, चित्रा, हस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु रेवती अश्विनी स्वाति ये नव नक्षत्र तिर्यङ्मुख संज्ञक हैं ॥ २८ ॥

हलप्रवाहगमनं गत्री यंत्रगजोष्टकम् ॥

अजादिग्रहणं चैव हयकर्म यतस्ततः ॥ २९ ॥

इन नक्षत्रोंमें हल जोतना, गमन, गाड़ी बनाना, हाथी ऊंट, बकरी आदि खरीदना घोडा खरीदना ये शुभ हैं ॥ २९ ॥

खरगोरथनौयानं लुलायहयकर्म च ॥

शकटग्रहणं चैव तथा पश्चादिकर्म च ॥ ३० ॥

और गधा, बैल, रथ, नौका इन्होंकी सवारी करना भैंस, घोडा का कार्य गाडीका कार्य ऊंट खरीदना तथा अन्य पशुका कार्य शुभ है ॥ ३० ॥ इति तिर्यक् कर्म ॥

ब्रह्मविष्णुमहेशार्थशततारावसूत्राः ॥

ऊर्ध्वास्यं नवकं भानां प्रोक्तं चैव विधीयते ॥ ३१ ॥

इत्यूर्ध्वमुखम् ॥

रोहिणी, श्रवण, आर्द्रा, पुष्य, शतभिषा, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा ये नव नक्षत्र ऊर्ध्वमुखसंज्ञक कहे हैं ॥ ३१ ॥

पुरहर्म्यगृहारामवारणध्वजकर्म च ॥

प्रासादभित्तिकोद्यानप्राकाराश्चैव मण्डपम् ॥ ३२ ॥

इन नक्षत्रोंमें शहर, हवेली, घर, बगीचा, हाथी, ध्वजा, इन्होंके कार्य, देवमंदिर, दीवाल, बाग, कोट, मंडप ये कार्य शुभ हैं ॥ ३२ ॥
इति ऊर्ध्वमुखानि ॥

स्थिरं रोहिण्युत्तराभं क्षिप्रं सूर्याश्विपुष्यभम् ॥

साधारणं द्विदैवत्यं वह्निभं चरसंज्ञितम् ॥ ३३ ॥

रोहिणी तीनों उत्तरा ये स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं हस्त, अश्विनी, पुष्य ये क्षिप्रसंज्ञक हैं विशाखा, भरणी, कृत्तिका ये साधारण संज्ञक नक्षत्र हैं ॥ ३३ ॥

वस्वादित्यंबुपस्वातिविष्णुभं मृदुसंज्ञितम् ॥

चित्रांत्यमित्रशशिभमुग्रं पूर्वामघांतकम् ॥

मूलेंद्राह्यार्द्रभं तीक्ष्णं स्वनामसदृशं फलम् ॥ ३४ ॥

धनिष्ठा, पुनर्वसु, शतभिषा, स्वाती, श्रवण ये नक्षत्र चरसंज्ञक हैं और चित्रा रेवती, अनुराधा मृगशिर ये मृदुसंज्ञक हैं ॥ मूल ज्येष्ठा आश्लेषा आर्द्रा ये तीक्ष्णसंज्ञक नक्षत्र ये अपने नामके सदृश फल देनेवाले हैं । ये संज्ञा मुहूर्त देखनेमें काम आती हैं ॥ ३४ ॥

चित्रादित्याश्विविष्णवंत्यरविमित्रवमूडुषु ॥

स मृगेषु च बालानां कर्णवेधक्रिया हिता ॥ ३५ ॥

दसैंद्रादितिष्येषु करादित्रितये तथा ॥

गजकर्माखिलं यत्तद्विधेयं स्थिरभेषु च ॥ ३६ ॥

चित्रा पुनर्वसु अश्विनी, श्रवण, रेवती हस्त, अनुराधा, धनिष्ठा, मृगशिर इन नक्षत्रोंमें बालकोंके कान बिंधवाने चाहियें अश्विनी, मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति इन नक्षत्रोंमें हाथीका लेना देना शुभहै । और स्थिरसंज्ञक नक्षत्रोंमें भी लेना देना शुभ है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

अथ अश्वमुहूर्त्तः ।

सुदिने चरभे क्षिप्रे मृदुभे स्थिरभेषु च ॥

वाजिकर्माखिलं कर्म सूर्यवारे विशेषतः ॥ ३७ ॥

चंद्रबल आदि से शुभवार हो और चरसंज्ञक, क्षिप्र मृदु और स्थिरसंज्ञक नक्षत्र हों तब सब प्रकारसे घोड़ोंका कार्य (बेचना खरीदना आदि) करना रविवार विषे शुभ कहा है ॥ ३७ ॥

चित्राश्रवणवैरिचित्र्युत्तरासु गमागमम् ॥

दर्शाष्टम्यां चतुर्दर्श्यां पशूनां न कदाचन ॥ ३८ ॥

चित्रा श्रवण रोहिणी तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें तथा अमावस्या अष्टमी चतुर्दशी इन तिथियोंमें गौ बैल आदि पशुओंको खरीदके घरमें नहीं लावे और घरसे बाहर भी नहीं निकाले ॥ ३८ ॥

अथ हलप्रवाहमुहूर्त्तः ।

मृदुध्रुवक्षिप्रचरविशाखापितृभेषु च ॥

हलप्रवाहं प्रथमं विदध्यान्मूलेभ वृषैः ॥ ३९ ॥

मृदु ध्रुव क्षिप्र चर इन संज्ञावाले तथा विशाखा और मघा

नक्षत्र व मूल नक्षत्रमें खेतमें पहिले बैलोंकरके हल जोतना शुभदायक है ॥ ३९ ॥

हलादौ वृषनाशाय भत्रयं सूर्यभुक्तभात् ॥

अग्रे यच्चैव वै लक्ष्म्यै सौम्यं पार्श्वे च पंचकम् ॥ ४० ॥

और हलचक्रकी आदिमें सूर्यके नक्षत्रसे तीन नक्षत्र हैं वे बैलोंका नाश करते हैं फिर ३ नक्षत्र अग्रभागमें हैं उनमें लक्ष्मी प्राप्ति हो बराबरमें ५ नक्षत्र शुभदायक कहे हैं ॥ ४० ॥

शूलत्रयेऽपि नवकं मरणायान्यपंचकम् ॥

श्रियै पुच्छे त्रयं श्रेष्ठं स्याच्चक्रे लांगले शुभम् ॥ ४१ ॥

त्रिशूलके ऊपर नौ नक्षत्र मरणदायक हैं अन्य पांच नक्षत्र लक्ष्मीदायक हैं फिर पूँछके ऊपर तीन नक्षत्र श्रेष्ठ हैं ऐसे हलचक्रपर २८ नक्षत्र रखकर शुभ अशुभ फल विचारना चाहिये ॥ ४१ ॥

मृदुध्रुवक्षिप्रभेषु पितृवायुवसूडुषु ॥

समूलभेषु बीजोत्तिरत्युत्कृष्टफलप्रदा ॥ ४२ ॥

और मृदुसंज्ञक ध्रुवसंज्ञक क्षिप्रसंज्ञक तथा मघा स्वाति धनिष्ठा मूल इन नक्षत्रोंमें बीज बोवना अत्यंत शुभदायक है ॥ ४२ ॥

भवेद्भ्रत्रितयं मूर्ध्नि धान्यनाशाय राहुभात् ॥

गले त्रयं कज्जलाय वृद्ध्यै च द्वादशोदरे ॥ ४३ ॥

राहुके नक्षत्रसे तीन नक्षत्र मस्तकपर धरने वे धान्यका नाश करने वाले हैं और गलपर तीन नक्षत्र हैं उनमें जल थोड़ा वर्षे अथवा अन्नके कौवा लगजाता है उदरपर बारह नक्षत्र वृद्धिदायक हैं ॥ ४३ ॥

निस्तंडुलत्व लांगूले भचतुष्टयमीरितम् ॥

नाभौ वह्निः पंचकं यद्वीजोत्ताविति चिंतयेत् ॥ ४४ ॥

पूँछपर चार नक्षत्र हैं उनमें दांता कमपडता है फिर पांच नक्षत्रनाभिपर हैं उनमें अग्निका भय हो ऐसे बीज बोनेमें यह राहुचक्र भी विचारा जाताहै ॥ ४४ ॥

अथ रोगिस्नानमुद्घर्त्तः ।

स्थिरेष्वदितिसर्पांत्यपितृमारुतभेषु च ॥

न कुर्याद्रोगमुक्तश्च स्नानं वारेंदुशुक्रयोः ॥ ४५ ॥

स्थिरसंज्ञक नक्षत्र और पुनवसु, आश्लेषा, रेवती, मघा, स्वाति इन नक्षत्रोंमें तथा चंद्र शुक्रवार विषे रोगसे छुटा हुआ पुरुषने स्नान नहीं करना चाहिये ॥ ४५ ॥

अथ नृत्यमुद्घर्त्तः ।

उत्तरात्रयमित्रेंद्रवसुवारुणभेषु च ॥

पुष्यार्कपौष्णधिष्ण्येषु नृत्यारंभः प्रशस्यते ॥ ४६ ॥

तीनों उत्तरा अनुराधा ज्येष्ठा धनिष्ठा शतभिषा पुष्य हस्त रेवती इन नक्षत्रोंमें नाचना प्रारंभ करना शुभहै ॥ ४६ ॥

पूर्वार्धयुंजि षड्भानि पौष्णभाद्रुद्रमात्ततः ॥

मध्ययुंजि द्वादशर्क्षाणीन्द्रभात्रिवभानि च ॥ ४७ ॥

रेवती आदि छह नक्षत्र पूर्वार्ध युंजा संज्ञक कहे हैं फिर आर्द्रा आदि बारह नक्षत्र मध्य युंजासंज्ञक कहे हैं और ज्येष्ठा आदि नव नक्षत्र परार्ध युंजासंज्ञकहैं ॥ ४७ ॥

(७८)

नारदसंहिता ।

परार्धयुंजि क्रमशः संप्रीतिर्दपतेर्मिथः ॥ ४८ ॥ इतियुंजा ॥

ये नक्षत्र वरकन्याके विचारने चाहियें जो एक युंजा होय तो स्त्रीपुरुषोंकी आपसमें प्रीति रहै ॥ ४८ ॥ इतियुंजा ।

अथ चंद्रोदयविचारः

जघन्यास्तोयमाद्राहिपावनांतऋतारकाः ॥

ध्रुवादितिद्विदैवत्यो बृहत्ताराः पराः समाः ॥ ४९ ॥

शतभिषा, आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाति, रेवती ये जघन्यसंज्ञकतारे हैं और ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र तथा पुनर्वसु, विशाखा ये बृहत् संज्ञक तारे हैं अन्य सम कहे हैं ॥ ४९ ॥

क्रमादभ्युदिते चंद्रे त्वनर्घार्घसमानि च ॥

अश्वगर्नीदुभ नैर्ऋत्यभाग्यभत्वाष्ट्र्युत्तराः ॥ ५० ॥

तह क्रमसे अर्थात् जघन्यसंज्ञक नक्षत्रोंमें चंद्रमा उदय होय तो अन्नादिकका भाव महिगारहै बृहत् संज्ञक नक्षत्रोंमें उदय होय तो सस्ताभाव होय सम नक्षत्रोंमें समानभाव जानना । अश्विनी कृत्तिका मृगशिर, मूल, पूर्वाफाल्गुनी चित्रा तीनों उत्तरा ॥ ५० ॥

अथ राजयात्र

पितृद्विदैवताख्यातास्ताराः स्युः कुलसंज्ञकाः ॥

धातृज्येष्ठाऽदितिस्वाती पौष्णार्कहरिदेवताः ॥ ५१ ॥

अजपांतकभौजंगताराश्चोपकुलाह्वयाः ॥

शेषाः कुलाकुलास्तारास्तासां मध्ये कुलोडुषु ॥ ५२ ॥

गम्यते यदि भूपालैः पराजयमवाप्यते ॥

भेषूपकुलसंज्ञेषु जयं प्राप्नोति भूमिपः ॥ ५३ ॥

संधिर्भवेत्तयोः साम्यं तदा कुलकुलोद्भुषु ॥

अर्कार्किभौमवारे चेद्द्राया विषमांघ्रिभे ॥ ५४ ॥

मघा, विशाखा ये कुलसंज्ञक ताग हैं 'रोहिणी' ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती, हस्त, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद भरणी आश्लेषा ये उपकुलसंज्ञक नक्षत्र हैं तिनके मध्यमें कुलसंज्ञक नक्षत्रोंविषे राजालोग युद्धके वास्ते गमन करें तो पराजय(हार)होतीहै और उपकुलसंज्ञक नक्षत्रों में जय (जीत) होती है । कुलाकुल नक्षत्रोंमें गमन करे तो दोनों राजा समान रहैं आपसमें मिलाप रहै ॥ इतिराजयात्रा, ॥ रवि, शनि, भौमवारविषे विषमांघ्रि नक्षत्रविषे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

त्रिपुष्करे त्रिगुणदं द्विगुणं यमलांघ्रिभम् ॥

दद्यात्तद्दोषनाशाय गोत्रयं मूल्यमेव वा ॥ ५५ ॥

त्रिपुष्करयोगका तिगुना फल है और यमलांघ्रियोग दुगुना दोषकी शांतिके वास्ते तीन गौओंका दान करे ॥ ५५ ॥

त्रिपुष्करे द्वयं दद्यान्न दोषो ऋक्षमात्रतः ॥

पुष्यः परकृतं हंतुं शक्तोऽनिष्टं च यत्कृतम् ॥ ५६ ॥

दोषं परो न शक्तस्तु चंद्रेष्यष्टमगेपि वा ॥

ऋरो विधुयुतो वापि पुष्यो यदि बलान्वितः ॥ ५७ ॥

विना शनिमृहं सर्वमंगलेष्विष्टदः सदा ॥ ५८ ॥

और त्रिपुष्करयोगमें राजा गमन करे तो राजाने उस दोषकी शान्तिके वास्ते दो गौओंका दान करना चाहिये । अथवा गो-मूल्य देना चाहिये और त्रिपुष्करयोगके फकत नक्षत्र मात्रसे दोष नहीं होसक्ता पुष्य नक्षत्रमें जो यात्रा आदि शुभकर्म किया जाय तहां कोई अनिष्ट योग होय तो पुष्य नक्षत्र उस दोषको दूर करसक्ता है और जो किसीप्रकारसे पुष्य नक्षत्र ही अशुभ दायक हो तो उसको कोई अन्य शुभयोग नहीं हटा सकता है और जो पुष्य बलयुक्त होय तो आठवें चंद्रमा हो अथवा चंद्रमा क्रूरग्रहसे युक्त हो इत्यादि सब दोषोंको नष्टकरता है संपूर्ण मंगल कार्योंको सिद्धकरता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

अथ नक्षत्राणां ताराः ।

रामा ३ मि ३ ऋतु ६ वाणा ५ मि ३
भू १ वेदा ५ मिशरे ५ षवः ५ ॥ नेत्र २ वाहु २
शरै ५ द्वि ३ दु १ वेद ४ वह्नय ३ मिशंकराः ॥५९॥

अथ नक्षत्र तारा ।

अश्विनीके ३ तारे हैं भरणीके ३ कृत्तिका ० ६ रोहिणी ०
५ मृगशिर ० ३ आर्द्रा ० १ पुनर्वसु ० ४ पुष्य ० ३ आश्लेषा ० ५
मघा ० ५ पूर्वा फाल्गुनी ० २ उत्तरा फाल्गुनी ० २ हस्त ० ५ चित्रा ०
१ स्वाती ० १ विशाखा ० ४ अनुराधा ० ३ ज्येष्ठा ० ३
मूलके ११ तारे हैं ॥ ५९ ॥

वेद ४ वेदा ४ ग्नि ३ वल्लय ३ ब्धि ४ शत

१०० द्वि २ द्वि २ रदाः ३२ क्रमात् ॥

तारासंख्यास्तु विज्ञेया दस्रादीनां पृथक्पृथक् ॥ ६० ॥

या दृश्यते दीप्ततारा भगणे योगतारका ॥ ६१ ॥

पूर्वाषाढके ४ उत्तराषाढके ४ अभिजितके ३ श्रवण० ३ धनिष्ठा० ४ शतभिषा० १०० पूर्वाभाद्रपदाके २ तारे उत्तरा भाद्रपदाके २ रेवतीके ३२ तारे हैं ऐसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंके अलग २ तारे आकाशमें जानने चाहियें शिशुमार चक्रमें जो प्रकाशमान तारा दीखते हैं वे योग तारा कहे हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥

इति तारासंख्या ॥

वृषवृक्षोऽश्विभाद्याभ्यधिष्ण्यात्पूरूषकस्ततः ॥

उदुंबरो ह्यग्निधिष्ण्या द्रोहिण्या जंबुकस्तरुः ॥ ६२ ॥

अश्विनी नक्षत्रसे बांसा उत्पन्न हुआ है, भरणी नक्षत्रसे फालसा और कृत्तिकासे गूलर, रोहिणीसे जामन वृक्ष उत्पन्न हुआ ॥ ६२ ॥

इंदुभात्वदिरो जातः कलिवृक्षश्च रौद्रभात् ॥

संभूतो दितिभाद्रंशः पिप्पलः पुष्यसंभवः ॥ ६३ ॥

मृगशिर नक्षत्रसे खैर उत्पन्न भया, आर्द्रासे बहेडाका वृक्ष उत्पन्न भयाहै, पुनर्वसुसे बांस उत्पन्न भया, पुष्यसे पीपल उत्पन्न भया है ॥ ६३ ॥

सर्पधिष्ण्यान्नागवृक्षो वटः पितृभसंभवः ॥

पालाशो भाग्यजातश्च प्लक्षश्चार्यमसंभवः ॥ ६४ ॥

आश्लेषासे नाग वृक्ष (गंगेरन) उत्पन्न भई है, मघासे बड उत्पन्न भया, पूर्वाफाल्गुनीसे ढाक, उत्तराफाल्गुनीसे पिलखन ॥ ६४ ॥

अरिष्टवृक्षो रविभाच्छ्रीवृक्षस्त्वाष्टसंभवः ॥

स्वात्यृक्षादर्जुनो वृक्षो द्विदैवात्पाहिकस्ततः ॥ ६५ ॥

हस्तसे रिंठडा वृक्ष, चित्रासे नारियल वृक्ष, स्वातिसे अर्जुन वृक्ष, विशाखासे पाहवृक्ष ॥ ६५ ॥

मित्रभाद्रकुलो जातो विष्टिः पौरंदरक्षजः ॥

सर्जवृक्षो मूलभाच्च बंजुलो वारिधिष्णयजः ॥ ६६ ॥

पनसो विश्वभाज्जातो ह्यर्कवृक्षस्तु विष्णुभात् ॥

वसुधिष्ण्याच्छमी जाता कदंबो वारुणक्षजः ॥ ६७ ॥

अजैकपाञ्चतवृक्षोऽहिर्बुन्ध्यपिचुमंदकः ॥

मधुवृक्षः पौष्णधिष्ण्यादेवं वृक्षं प्रपूजयेत् ॥ ६८ ॥

अरियोनिभवो वृक्षो पीडनीयः प्रयत्नतः ॥ ६९ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां नक्षत्रफलाध्यायः षष्ठः ॥६॥

अनुराधासे बकुल, ज्येष्ठासे देवदारु वृक्ष उत्पन्न भया है, मूलसे रालका वृक्ष, पूर्वाषाढासे जलवेत उत्पन्न भया, उत्तराषाढासे फालसा उत्पन्न भया, श्रवणसे आक उत्पन्न भया, धनिष्ठासे जाँट उत्पन्न भया, शतभिषासे कदंब, पूर्वाभाद्रपदासे आम्रवृक्ष, उत्तरा भाद्रपदासे नींबू, रेवतीसे महुवा वृक्ष उत्पन्न भया है इस प्रकार इन नक्षत्रोंकी

शांतिके वास्ते इन वृक्षोंका पूजन करना चाहिये और इन नक्षत्रोंका शत्रु संज्ञक योनिवाला जो नक्षत्र हो उस क्षत्रके वृक्षको पीडित करे ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां नक्षत्रफलाध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥

योगेशा यमविष्ण्वंदुधातृजीवनिशाकराः ॥

इंद्रतोयाहिवह्न्यर्कभूमरुद्रुद्रतोयपाः ॥ १ ॥

अब योगोंके स्वामी कहतेहैं धर्मराज १ विष्णु २ चंद्रमा ३ ब्रह्मा ४ बृहस्पति ५ चंद्रमा ६ इंद्र ७ जल ८ सर्प ९ अग्नि १० सूर्य ११ भूमि १२ वायु १३ शिव १४ वरुण १५ ॥ १ ॥

गणेशरुद्रधनदास्त्वष्टृमित्रषडाननाः ॥

सावित्री कमला गौरी नासत्यौ पितरोऽदितिः ॥ २ ॥

गणेश १६ रुद्र १७ कुबेर १८ त्वष्टा १९ मित्र २० स्वामिका त्तिक २१ सावित्री २२ लक्ष्मी २३ गौरी २४ अश्विनीकुमार २५ पितर २६ अदिति २७ ऐसे ये २७ देवता विष्कंभ आदि योगोंके स्वामी कहे हैं ॥ २ ॥

सवैधृतौ व्यतीपातो महापाताबुभौ सदा ॥

परिघस्य तु पूर्वार्द्धे सर्वकार्येषु गर्हितम् ॥ ३ ॥

विष्कंभवज्रयोस्तिस्रः षड् गंडातिगंडयोः ॥

व्याघाते नव शूले तु पंचनाड्यस्तु गर्हिताः ॥ ४ ॥

और वैधृत व्यतीपात ये दोनों महापात हैं संपूर्ण त्याज्य हैं परिघ योगका पूर्वार्द्ध त्याज्यहै सबकामोंमें निंदितहै विष्कंभ, वज्र

इनके आदिकी तीन २ घडी वर्जितहैं और गंड अतिगंडकी छह २
घडी वर्जितहैं व्याघातकी नव शूलकी पांच घडी वर्जितहैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

अदितीन्दुमघाल्लेषामूलमैत्रेज्यभानि च ॥

ज्ञेयानि सहचित्राणि मूर्ध्निभानि यथाक्रमात् ॥ ५ ॥

और पुनर्वसु, मृगशिर, मघा, आश्लेषा, मूल, अनुराधा, पुष्य,
चित्रा ये नक्षत्र यथाक्रमसे मस्तकके क्रमविषे कहेहैं ॥ ५ ॥

लिखेदूर्ध्वगतामेकां तिर्यग्रेखास्त्रयोदश ॥

तत्र खार्जूरिकेचक्रे कथितं मूर्ध्नि भं न्यसेत् ॥ ६ ॥

भान्येकरेखागतयोः सूर्याचंद्रमसोर्मिथः ॥

एकार्गलो दृष्टिपातश्चाभिजिद्र्जितानि वै ॥ ७ ॥

तहां एक रेखा खडी खींचे और तेरह रेखा तिरछी खींचनी
चाहिये ऐसा तहां खार्जूरिक यंत्र अर्थात् खजूरवृक्ष सरीखे आकार-
वाला चक्र बनालेवे तहां सब नक्षत्र लिखचुके पीछे विचारै जो सूर्य
चंद्रमाके नक्षत्र एक रेखापर आजावे तो एकार्गल दृष्टिपात योग
होताहै यहां अभिजित् नक्षत्रकी गिनती नहीं करनी ॥ ६ ॥ ७ ॥

लांगले कमठे चक्रे फणिचक्रे त्रिनाडिके ॥

अभिजिद्र्गणना नास्ति चक्रपाते विशेषतः ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां योगाध्यायः सप्तमः ७ ॥

हलचक्र, कूर्मचक्र, सर्पाकारचक्र, त्रिनाडीचक्र इनमें अभि-
जित नक्षत्रकी गिनती नहीं करनी और विशेषकरके चक्रपातमें
गिनती नहीं करनी ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां योगप्रकरणाध्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥

अथ करणेशफलम् ।

इंद्रः प्रजापतिर्मित्रश्चार्थमाभूर्हरि प्रिया ॥

कीनाशः कलिरुक्षाख्यौ तिथ्यर्धे शाख्यहिर्मरुत् ॥ १ ॥

इंद्र, प्रजापति, मित्र, अर्थमा, भूमि, लक्ष्मी, कीनाश, कलि, वृषभ, सर्प, वायु ये देवता क्रमसे बवादिकरणोंके स्वामी कहे हैं ॥ १ ॥

ववादिवणिगंतानि शुभानि करणानि षट् ॥

परीता विपरीता वा विष्टिर्नेष्टा तु मंगले ॥ २ ॥

बवआदि वणिजपर्यंत छह करण तो शुभ हैं और विष्टि अर्थात् भद्राकी सब घडी सर्वदा अशुभ हैं मंगल कार्यमें वर्जदेनी-चाहियें ॥ २ ॥

अथ भद्राया अन्यप्रकारः ।

मुखे पंचगले त्वेका वक्षस्येकादश स्मृताः ॥

नाभौ चतस्रः कट्यां तु तिस्रः पुच्छाख्यनाडिकाः ॥ ३ ॥

भद्राकी प्रथम पांच घडी मुखपर रखनी फिर १ घडी गलापर, फिर छातीपर, ग्यारह घडी, नाभिपर चार, कटिपर तीन, पूँछपर तीन घडी ॥ ३ ॥

कार्यहानिर्मुखे मृत्युर्गले वक्षसि निःस्वता ॥

कट्यामुद्गमनं नाभौ च्युतिः पुच्छे ध्रुवो जयः ॥

स्थिराणि मध्यमान्येषां नेष्टौ नागचतुष्पदौ ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां करणाध्यायोऽष्टमः ॥ ८ ॥

मुखकी घडियोंमें कार्यकी हानि, गलापर मृत्यु, छातीपर दरिद्रता, कटिपर भ्रमण, नाभिपर हानि, पूंछपरकी घटियोंमें कार्यकी सिद्धि होती है । इन्होंके बीचमें स्थिरसंज्ञक करण मध्यम है और नाग चतुष्पद ये दो अशुभहैं ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां करणाध्यायोऽष्टमः ॥ ८ ॥

अथ शुभाशुभमुहूर्त्ताः ।

दिवा मुहूर्त्ता रुद्राहिर्मित्रपित्र्यवसूदकम् ॥

विश्वे विधातृब्रह्मेन्द्रा इन्द्राग्निनिर्ऋतितोयपाः ॥ १ ॥

रुद्र १ सर्प २ मित्र ३ पितर ४ वसु ५ उदक ६ विश्वेदेवा ७
अभिजित् ८ ब्रह्मा ९ इंद्र १० इंद्राग्नी ११ राक्षस १२
वरुण १३ ॥ १ ॥

अर्यमा भगसंज्ञश्च विज्ञेया दश पंच च ॥

ईशाजपादहिर्बुध्याः पूषाश्वियमवह्वयः ॥ २ ॥

धातृचंद्रादितिज्याख्यत्रिष्णवर्कत्वाष्ट्रवायवः ॥

अह्नः पंचदशो भागस्तथा रात्रिप्रमाणतः ॥ ३ ॥

मुहूर्त्तमानं द्वे नाड्यौ कथिते गणकोत्तमैः ॥

अथाशुभमुहूर्त्तानि वारादिक्रमशो यथा ॥ ४ ॥

अर्यमा १४ भग १५ ये दिवामुहूर्त्त हैं अर्थात् दिनमें दोदो घडी प्रमाणतक यथाक्रमसे रुद्रआदिनामक थे १५ मुहूर्त्त रहते हैं अपने तामसदश फल जानना और शिव १ अजपात् २ अहिर्बुध्न्य ३

पूषा ४ अश्विनीकुमार ५ धर्मराज ६ अग्नि ७ ब्रह्मा ८ चंद्रमा
 ९ अदिति १० बृहस्पति ११ विष्णु १२ सूर्य १३ त्वष्टा १४
 वायु १५ ये पंद्रह मुहूर्त रात्रिके हैं अथात् जैसे दिनके
 पंद्रह भाग कियेहैं तैसेही रात्रिके १५ भाग करलेना और २
 घड़ीका एक मुहूर्त्त होताहै और दिनमान रात्रिमान तीस घड़ीसे
 कमज्यादै होवें तो इनमेंसे एक २ मुहूर्त्त भी दोदो घड़ीसे कमज्यादै
 समझलेने चाहिये और इनमें वार आदि क्रमसे जो मुहूर्त्त, अशुभ
 होतेहैं उनको कहतेहैं ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

अर्यमा राक्षसब्राह्मौ पित्र्याग्नेयौ तथाभिजित ॥

राक्षसापो ब्रह्मपित्र्यौ भौजंगेशाविनादिषु ॥ ५ ॥

वारेषु वर्जनीयास्ते मुहूर्ताः शुभकर्मसु ॥

अन्यानपि तु वक्ष्यामि योगानत्र शुभाऽशुभान् ॥ ६ ॥

अर्यमा मुहूर्त्त सूर्यवारमें अशुभहै और सोमवारमें राक्षस, ब्रह्मा
 ये अशुभहै, मंगलमें पितर, अग्नि ये अशुभहैं, बुधमें अभिजितमुहूर्त्त
 अशुभहै, बृहस्पतिको राक्षस और उदक अशुभ, शुकको ब्रह्मा
 पितर अशुभ, शनिको सर्प, शिव ये मुहूर्त्त अशुभहैं । रविवार
 आदिकों में ये मुहूर्त्त शुभकर्मोंमें यतनकरके वर्जदेने चाहियें ॥ अब यहाँ
 अन्यभी शुभअशुभ योगोंको कहतेहैं ॥ ५ ॥ ६ ॥

सूर्यभाद्रेदगोतर्कदिग्विश्वनखसंमिते ॥

चंद्रर्क्षे रवियोगाः स्युर्दोषसंघविनाशकाः ॥ ७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां मुहूर्ताध्यायो नवमः ॥ ९ ॥

जिस नक्षत्रपर सूर्यहो उस नक्षत्रसे चंद्रमाका नक्षत्र अर्थात् वर्त्तमान नक्षत्र ४ - ९ - ६ - १० - १३ - २० इन संख्याओंपर होवे तो रवियोग होतेहैं वे दोषोंके समूहोंको नष्टकरतेहैं अर्थात् शुभदायक योग जानने ॥ ७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां मुहूर्त्ताध्यायो नवमः ॥ ९ ॥

भूकपां सूर्यभात्सप्तमर्क्षे विद्युच्च पंचमे ॥

शूलोष्टमेऽब्धिदिग्भे तु शनिरष्टादशे तथा ॥ १ ॥

केतुः पंचदशे दंड उल्का एकोनविंशतिः ॥

मोहनिर्घातकंपाश्च कुलिशं परिवेषणम् ॥ २ ॥

विज्ञेयमेकविंशक्षादारभ्य च यथाक्रमम् ॥

चंद्रयुक्तेषु भेष्वेषु शुभकर्म न कारयेत् ॥ ३ ॥

सूर्यके नक्षत्रसे (वर्त्तमाननक्षत्र) सातवां होय तो भूकंप योग होताहै, पांचवां विद्युत् आठवां शलभ, चौदहवां शनि, अठारहव नक्षत्र होय तो केतुसंज्ञक योग, पंद्रहवां नक्षत्र होय तो दंड, १९ हो तो उल्का २१-२२-२३-२४-२५-ये होवें तो यथाक्रमसे मोह, निर्घात, कंप, वज्र, परिवेषण, ये योग होते हैं ये नक्षत्र चंद्रमाके देखे जाते हैं अर्थात् सूर्य के नक्षत्रसे चंद्रमाका नक्षत्र गिनलेना चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

अथ ऋकचयोगः ।

ऋकचं हि प्रवक्ष्यामि योगं शास्त्रानुसम्मतम् ॥

निंदितं सर्वकार्येषु तस्मिन्नैवाचरेच्छुभम् ॥ ४ ॥

अब सब कामोंमें निंदित शास्त्रोक्त ऋकचनामक योगको कहतेहैं तिसमें कुछभी शुभकर्म नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥

त्रयोदशस्युर्मिलने संख्यया थितिवारयोः ॥

ऋकचो नाम योगोयं मंगलेष्वतिगर्हितः ॥ ५ ॥

तिथि और बारके मिलनेसे तेरह १३ संख्या होजाय तब ऋकच योग होताहै जैसे रविवार १ को १२ । सोमवार२को ११ मंगलको दशमी, बुधको नवमी, गुरुको ८, शुक्रको ७, शनिको छठ इनके योगमें ऋकच योग होता है यह शुभकर्मोंमें अति निंदित है ॥ ५ ॥

सप्तम्यामर्कवारश्चेत्प्रतिपत्सौम्यवासरे ॥

संवर्तयोगो विज्ञेयः शुभकर्मविनाशकृत् ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां संवर्त्तकयोगः ॥

सप्तमी तिथिको रविवार हो और प्रतिपदाको बुधवार होय तब संवर्त्तक योग होताहै यह योग शुभ कर्मको नष्टकरताहै ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीय ० भाषा ० संवर्त्तकयोगः ।

आनंदः कालदंडश्चधूम्रधातृसुधाकराः ॥

ध्वांक्षध्वजाख्यश्रीवत्सवज्रमुद्गरछत्रकाः ॥ ७ ॥

मित्रमानसपद्माख्यलंबकोत्पातमृत्यवः ॥

काणःसिद्धिः शुभामृतमुसलांतककुंजराः ॥ ८ ॥

राक्षसाख्यः चरस्थैर्यवर्धमानाः क्रमादमी ॥

योगाः स्वसंज्ञफलदा अष्टाविंशतिसंख्यकाः ॥ ९ ॥

आनंद १ कालदंड २ धम्र ३ धाता ४ चंद्र ५ ध्वांश ६
 ध्वज ७ श्रीवत्स ८ वज्र ९ मुद्गर १० छत्र ११ मित्र १२
 मानस १३ पद्म १४ लुंबक १५ उत्पात १६ मृत्यु १७ काण
 १८ सिद्धि १९ शुभ २० अमृत २१ मुसल २२ रोग २३
 मातंग २४ राक्षस २५ चर २६ स्थिर २७ वर्द्धमान २८ ऐसे
 क्रमसे ये अठारह योग कहे हैं ये योग अपने नामके अनुसार
 शुभ अशुभ फल देते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

रविवारे क्रमादेते दस्रभान्भृगभाद्रिधौ ॥

सार्पाद्रौमे बुधे हस्तान्मैत्रभात्सुरमंत्रिणः ॥ १० ॥

वैश्वदेवे भृगुसुते वारुणाद्भास्करात्मजे ॥

हस्तक्षे रविवारेऽजे चेंदुमं दस्रभं कुजे ॥ ११ ॥

सौम्ये मित्रं सुराचार्ये तिष्यं पौष्णं भृगोः सुते ॥

रोहिणी मंदवारे तु सिद्धियोगाह्वया अमी ॥ १२ ॥

यत्र स्यादिन्दुनक्षत्रं मानन्दादिगणस्ततः ॥

अष्टाविंशतियोगानां क्रमोयं प्रोच्यते बुधैः ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां सिद्धियोगाः ॥

इनके देखने का यह क्रम है कि सूर्यवार को अश्विनी नक्षत्र
 हो तो आनंद योग होता है भरणी हो तो कालदंड ऐसा क्रम
 जानलेना और सोमवारको मृगशिर नक्षत्रसे मंगलको आश्लेषासे
 बुधको हस्तसे बृहस्पतिको अनुराधासे शुक्रको उत्तराषाढासे शनि-
 को शतभिषासे आनंदादिक योग जानने और हस्त नक्षत्र सूर्य वारमें

हो चंद्रवारमें मृगशिर, मंगलको अश्विनी और बुधको अनुराधा, बृहस्पतिको पुष्य नक्षत्र होय शुक्रको रेवती शनिको रोहिणी नक्षत्र होय तब ये सिद्धयोग होजाते हैं ऐसे यह आनंद आदि योगोंका क्रम पंडित जनोंने कहा है चंद्रमाका (वर्तमान) नक्षत्र जौनसा हो वही आनंदादि योग जानलेना ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ इति सिद्धियोगाः ।

आदित्यभौमयोर्नन्दा भद्रा शुक्रशशांकयोः ॥

जया सौम्ये गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा तु नो शुभा ॥ १४ ॥

रवि, मंगलवारको नंदासंज्ञक तिथि होवे शुक्र व चंद्रवारको भद्रा तिथि होवे बुधको जया और बृहस्पतिको रिक्ता शनिको पूर्णा तिथि होवे तो शुभ नहीं है अर्थात् अशुभ योग जानना ॥ १४ ॥

नंदा तिथिः शुक्रवारै सौम्ये भद्रा जया कुजे ॥

रिक्ता मन्दे गुरोर्वारे पूर्णा सिद्धाह्वया अमी ॥ १५ ॥

शुक्रवारको नंदातिथि बुधको भद्रा मंगलको जया शनिको रिक्ता बृहस्पतिवारको पूर्णा तिथि होवे तो ये सिद्धियोग कहेहैं ॥ १५ ॥

अथ दग्धयोगाः

एकादश्यामिन्दुवारो द्वादश्यामार्किवासरः ॥

षष्ठी बृहस्पतेर्वारे तृतीया बुधवासरे ॥ १६ ॥

एकादशीविषे सोमवार हो द्वादशीको शनिवार हो बृहस्पतिवारमें छठ, बुधवारविषे तृतीया हो ॥ १६ ॥

अष्टमी शुक्रवारे तु नवम्यामर्कवासरः ॥

पंचमी भौमवारे तु दग्धयोगाः प्रकीर्तिताः ॥ १७ ॥

शुक्रवारको अष्टमी रविको नवमी पंचमीको मंगलवार होवे तो ये दग्धयोग कहे हैं ॥ १७ ॥

दग्धयोगाश्च विज्ञेया पंगुयोगाभिधा अमी ॥

यमर्क्षमर्कवारेब्जे चित्रा भौमे तु विश्वभम् ॥ १८ ॥

बुधे धनिष्ठार्यमभं गुरौ ज्येष्ठा भृगोर्दिने ॥

रेवती मंदवारे तु दग्धयोगा भवंत्यमी ॥ १९ ॥

ये दग्धयोग हैं इनको पंगुयोग भी कहते हैं रविवारको भरणी सोमको चित्रा मंगलको उत्तराषाढ बुधको धनिष्ठा बृहस्पतिको उत्तराफाल्गुनी शुक्रको ज्येष्ठा शनिको रेवती हो तो ये दग्धयोग कहे हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥

विशाखादिचतुर्वर्गमर्कवारादिषु क्रमात् ॥

उत्पातमृत्युकाणख्याः सिद्धियोगाः प्रकीर्तिताः ॥ २० ॥

और विशाखा आदि चार नक्षत्रोंका वर्ग सूर्य आदि ७ चारोंमें यथाक्रमसे उत्पात १ मृत्यु २ काण ३ सिद्धि ४ ये चार योग होते हैं जैसे कि रविवारको विशाखा होतो उत्पात अनुराधा मृत्यु ज्येष्ठा काण मूल हो तो सिद्धि योग होता है फिर सोमको पूर्वाषाढामें उत्पात उत्तराषाढामें मृत्यु ऐसा क्रम जानना ऐसे यही क्रम सबवारोंमें करलेना २८ नक्षत्रोंमें ७ वारोंमें ये चारों योग ठीक २ होवेंगे ॥ २० ॥

तिथिवारोद्भवा नेष्टा योगा वारर्क्षसंभवाः ॥

हूणवंगखशेभ्योन्यदेशेष्वतिशुभप्रदाः ॥ २१ ॥

इति नारदीयसंहितायामुपग्रहाध्यायो दशमः ॥ १० ॥

तिथि और वारोंसे उत्पन्नहुए योग अशुभ हैं और वार तथा नक्षत्रसे उत्पन्नहुए योग हूण बंग (बंगाला) खश (नैपाल) इन देशोंके विना अन्य सब देशोंमें शुभ हैं ॥ २१ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामुपग्रहाध्यायो दशमः ॥ १० ॥

अथ संक्रातिप्ररणम् ।

घोराध्वांशीमहोदर्यो मंदाकिनी नंदा मता ॥

मिश्रा राक्षसिका नाम सूर्यवारादिषु क्रमात् ॥ १ ॥

घोरा, ध्वांशी, महोदरी, मंदाकिनी, नंदा, मिश्रा, राक्षसिका इन नामोंवाली संक्राति रविवारादिकोंमें अर्क होनेसे जानना जैसे रविवारमें संक्राति अर्क होय तो घोरा नामवाली जानना ॥ १ ॥

शूद्रविट्स्करक्षमापभूदेवपशुनीचजाः ॥

अनुक्तानां च सर्वेषां घोराद्याः सुखदाः स्मृताः ॥ २ ॥

घोरा संक्राति शूद्रोंको सुख देती है, ध्वांशी वैश्योंको, महोदरी चोरोंको, मंदाकिनी राजाओंको, नंदा ब्राह्मण तथा पंडितोंको, मिश्रा पशुओंको, राक्षसी चांडाल आदि संपूर्ण नीचजातियोंको सुख देती है ॥ २ ॥

पूर्वाह्ने नृपतीन्हंति विप्रान्मध्यदिने विशः ॥

अपराह्नेऽस्तगे शूद्रान्प्रदोषे च पिशाचकान् ॥ ३ ॥

दुपहरपहले सक्रांति अर्क तो राजाओंको नष्टकरै मध्याह्नमें
ब्राह्मणोंको तीसरे प्रहरमें वैश्योंको सायंकालमें शूद्रोंको प्रदोषसमयमें
पिशाचोंको ॥ ३ ॥

निशि रात्रिचरान्नात्यकारानपररात्रिके ॥

गोमाहिषेति संध्यायां लिंगिनो निशि संक्रमः ॥ ४ ॥

रात्रीमें राक्षसोंको आधीरात पीछे नाचनेवाले और तमासा
करनेवालोंको पीड़ा करे प्रातःकाल संध्यामें अर्के तो गोमहिष्या
दिकोंको और उससेभी पीछे बिलकुल प्रभातसमय अर्के तो सन्यासी
आदिकोंको पीड़ा करै ॥ ४ ॥

दिवा चेन्मेषसंक्रांतिरनर्थकलहप्रदा ॥

रात्रौ सुभिक्षमतुलं संध्ययोर्वृष्टिनाशनम् ॥ ५ ॥

दिनमें मेषकी सक्रांति अर्के तो अशुभफल तथा प्रजामें वैरभाव
करै रात्रिमें अर्के तो अत्यंतसुभिक्ष हो दोनों संध्याओंमें अर्के तो
वर्षाका नाशकरै ॥ ५ ॥

हरिशार्दूलवाराहखरकुंजरमाहिषाः ॥

अश्वश्वाजवृषाः पादायुधाःकरणवाहनाः ॥ ६ ॥

वव आदि जौनसा करण वर्त्तमान हो तिसके क्रमसे सिंहव्याघ्र
वाराह गधा हस्ती भैंसा अश्व श्वान बकरा वृष मुरगा ये वाहन
कहे हैं यहां ववमें सिंह वाहन होताहै और यह ११ करण यथा-
क्रमसे देख लेने ॥ ६ ॥

स्वशावाहिकवंगेषु संक्रांतिर्धिष्ण्यवाहना ॥

अन्यदेशेषु तिथ्यर्द्धवाहना स्याद्द्रवादितः ॥ ७ ॥

खश बाह्यिक वंग (बंगाला) इन देशोंमें नक्षत्रोंके क्रमसे
संक्रांतिका वाहन जानना और अन्यदेशोंमें वद आदिकरणोंके
क्रमसे संक्रांतिका वाहन होताहै ॥ ७ ॥

भुशुंडीभिदिपालासिदंडकोदंडतोमरान् ॥

कुंतपाशांकुशास्त्रेषून्विभर्ति करणेष्विनः ॥ ८ ॥

भुशुंडी भिदिपाल खड्ग दंड धनुष तोमर माला फास अंकुश
अस्त्र (तेगा) बाण ये शस्त्र वव आदि करणोंके क्रमसे, संक्रांतिके
कहे हैं ॥ ८ ॥

अन्नं च पायसं भैक्ष्यमपूपं च पयो दाधि ॥

चित्रान्नं गुडमध्वाज्यशर्करा ववतो हविः ॥ ९ ॥

और अन्न पायस भिक्षा पूडा दूध दही चित्रान्न गुड मधु घृत
शर्करा ये संक्रांतिके भोजन, वव आदिकरणोंके यथाक्रमसे जानने
चाहियें ॥ ९ ॥

निविष्टी वणिजे विष्ट्यां बालवे च गरे ववे ॥

कौलवेशकुने भानुः किंस्तुघ्ने चोर्ध्वसंस्थिता ॥ १० ॥

और वणिज विष्टि बालव गर वव इन करणोंमें संक्रांति अर्के तो
बैठी जानना, कौलव शकुनि किंस्तुघ्न इनमें खडी जानना ॥ १० ॥

चतुष्पात्तैतिले नागे सुप्तक्रांतिं करोति सा ॥

धान्यार्घवृष्टिसु भवेदनिष्टक्रमशस्तदा ॥ ११ ॥

चतुष्पाद तैतिल नाग इनमें अर्के तो सूती हुई संक्रांति जानना
बैठी हुई संक्रांतिमें अन्न सस्ता खडीमें वर्षा और सूतीमें अशुभ
फल जानना ॥ ११ ॥

आयुधं वाहनाहारो यज्जातीयजनस्य च ॥

स्वापोपविष्टतिष्ठंतस्ते लोकाः क्षयमाप्नुयुः ॥ १२ ॥

शस्त्र वाहन भोजन ये सब संक्रांतिके जिसजातिके जनके होवें
तथा सूती बैठी खड़ी जैसी हो विसही प्रकारके जनोका व पदार्थोंका
नाश हो ॥ १२ ॥

अन्धको मंदसंज्ञश्च मध्यसंज्ञः सुलोचनः ॥

पर्यायाद्गणयेद्भानि रोहिण्यादि चतुर्विधम् ॥ १३ ॥

अंध, मंदलोचन, मध्यसंज्ञक, सुलोचन, इस प्रकार रोहिणी आदि
नक्षत्रोंको क्रमसे जानना तहांचार २ नक्षत्रोंकी ७ आवृत्ति करलेनी
रोहिणी अंधा मृगशिर मंदलोचन इत्यादि ॥ १३ ॥

स्थिरभेष्वर्कसंक्रांतिर्ज्ञेया विष्णुपदाह्वया ॥

षडशीतिमुखी ज्ञेया द्विस्वभावेषु राशिषु ॥ १४ ॥

वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, इन स्थिर राशियोंपर सूर्य संक्रांति
होय तो विष्णुपदानामक संक्रांति जानना और मिथुन आदि
द्विःस्वभावराशियों पर अर्क होय तब षडशीतिमुखी संक्रांति
जानना ॥ १४ ॥

सौम्ययाम्यायने नूनं भवेतां मृगकर्किणोः ॥

तुलाधराजयोर्ज्ञेयो विषुवत्सूर्यसंक्रमः ॥ १५ ॥

मकर की संक्रांति अर्के तब उत्तरायण प्रवृत्त होताहै और
कर्ककी संक्रांति अर्के उस दिन दक्षिणायन प्रवृत्त होताहै और तुला
तथा मेषकी संक्रांति अर्के उसदिन विषुवत् अर्थात् दिनरात्रि समान
काल होताहै ॥ १५ ॥

अहःसंक्रमणे कृत्स्नं महत्पुण्यं प्रकीर्तितम् ॥

रात्रौ संक्रमणे भानोर्व्यवस्था सर्वसंक्रमे ॥ १६ ॥

दिनमें संक्रांति अर्के तो सारे दिनमें महान् पुण्य कहाहै और रात्रिमें संक्रांति अर्के तो सब संक्रांतियोंमें व्यवस्था कहीहै ॥ १६ ॥

सूर्यस्योदयसंध्यायां यदि याम्यायनं भवेत् ॥

तदोदयादहः पुण्यं पूर्वाहः परतो यदि ॥ १७ ॥

जैसे कि सूर्य उदय होनेकी संधिमें दक्षिणायन अर्थात् कर्ककी संक्रांति अर्के तो उदय होनेवाले दिनमेंही पुण्यकाल जानना और जो उदयकालकी संधिसे पहलेही संक्रांति अर्के तो पहलेही दिन पुण्यकाल है यह कर्ककी संक्रांतिकी व्यवस्थाहै ॥ १७ ॥

सूर्यास्तमनवेलायां यदि सौम्यायनं भवेत् ॥

तदोपेयादहः पुण्यं पराहः परतो यदि ॥ १८ ॥

और सूर्य अस्तहोनेकी संधिमें मकरकी संक्रांति अर्के तो उसी दिन पुण्यकाल जानना संधिसे पीछे रात्रिमें अगलेदिन पुण्यकाल जानना ॥ १८ ॥

अर्धार्कास्तमनात्संध्यासंघटिकात्रयसंमिता ॥

तथैवार्धोदयात्प्रातर्घटिकात्रयसंमिता ॥ १९ ॥

सूर्यका आधा मंडल अस्त होनेके बाद तीन घडीतक सायंसंध्या रहतीहै और आधा मंडल उदय होनेसे पहिले प्रातःकाल तीन घडी प्रभातकी संध्या कहीहै ॥ १९ ॥

प्रागर्धरात्रात्पूर्वाह्ने पूर्ववद्विष्णुपादयोः ॥

षडशीतिमुखी चैव परतश्चेत्परेऽहनि ॥ २० ॥

कर्क मकरकी संक्रांतिका यह पुण्यकाल जानना पूर्वोक्त विष्णुपदा नामक संक्रांति षडशीतिमुखी नामवाली संक्रांति आधीरातसे पहिले दिन पुण्यकाल और आधीरात पीछे अर्के तो पिछले दिन पुण्यकाल जानना ॥ २० ॥

पश्चात्पराहः संक्रांतिः षडशीतिर्विपर्ययात् ॥

यादृशेनेदुना भानोः संक्रांतिस्तादृशं फलम् ॥ २१ ॥

नरः प्राप्नोति तद्राशौ शीतांशोः साध्वसाधु वा ॥

संक्रांतिग्रहणर्क्षे वा पूर्वभाद्रणनाक्रमः ॥ २२ ॥

रवेरयनसंक्रांतिस्तदा तद्राशिसंक्रमः ॥

संक्रांतिग्रहणर्क्षे वा जन्मभावधि गण्यताम् ॥ २३ ॥

और षडशीति नामवाली संक्रांतिका पुण्यकाल इन विष्णु-पदा नामवाली संक्रातियोंसे विपर्यय जानना जैसा चंद्रमामें संक्रांति अर्के वैसाही फल होताहै संक्रांति अर्केके दिन जिस मनुष्यको अच्छा चंद्रमा हो उसको श्रेष्ठ फल होताहै । संक्रांति अर्के उस दिनसे पहले दिनके नक्षत्रसे गिननेका क्रम होताहै । सूर्यके अयनकी संक्रांति वा अन्य राशिकी संक्रांति जिस दिन अर्के उसी दिनके नक्षत्रसे भी जन्मके नक्षत्रतक गिना जाताहै अब इन दोनोंका फल कहतेहैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

नेष्टं त्रयं षट् च शुभं पर्यायाच्च पुनः पुनः ॥

हानिर्वृद्धिः स्थानहानिस्तत्प्राप्तिर्भानुतः क्रमात् ॥ २४ ॥

पहिले तीन नक्षत्र शुभ नहीं हैं फिर छह नक्षत्र शुभदायक हैं पीछे ३ नक्षत्र हानिकारक, फिर ६ वृद्धि, फिर ३ स्थानहानि, फिर ३ नक्षत्र स्थानप्राप्ति करते हैं ऐसे सूर्यसंक्रांति चंद्रनक्षत्रसे विचारी जाती है ॥ २४ ॥

तिलोपरि लिखेच्चक्रं त्रिशूलं च त्रिकोणकम् ॥

तत्र हैमं विनिक्षिप्य दद्यात्तदोषशांतये ॥ २५ ॥

जो अशुभदायक संक्रांति हो तो उस दोषकी शांतिके वास्ते तिलके ऊपर चक्र लिख त्रिकोण त्रिशूल लिखकर तिसपर सुवर्ण रखकर तिसका दान करे ॥ २५ ॥

ताराबलेन शीतांशुर्बलवांस्तद्दशाद्रविः ॥

ससंक्रमणतस्तद्दशात्स्वेटबलाधिकः ॥ २६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहि० संक्रांतिलक्षणाध्याय एकादशः ११॥

ताराके बलसे चंद्रमा बलवान है और चंद्रमाके बलसे सूर्य बलवान् होता है और वह सूर्य संक्रांतिके बलसे अन्यग्रहोंका बल पाकर बलवान् है ॥ २६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां संक्रांतिलक्षणाध्याय

एकादशः ॥ ११ ॥

अथ गोचराध्यायः ।

शुभोर्को जन्मतद्दश्यायदशषट्सु न विध्यते ॥

जन्मतो नवपंचांबुव्ययगैर्व्यर्किभिस्तदा ॥ १ ॥

जन्मराशिसे ३ । ११ । १० । ६ इन स्थानोंपर सूर्य हो तो शुभ है परन्तु जन्मराशिसे ९ । ५ । ४ । १२ इन स्था-

नोंमें कोई ग्रह नहीं हो तो वेध नहीं होता अर्थात् ३ सूर्य शुभहै परन्तु ९ स्थानमें अन्य कोई ग्रह होय तो वेध होजाताहै ११ शुभहै परन्तु ५ में कोई ग्रह नहीं होना चाहिये । १० सूर्यहो तब ४ स्थान और ६ सूर्य हो तब जन्मराशिसे १२ स्थानमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिये । यदि इन स्थानोंपर शनि विना कोई ग्रह होवेगा तो सूर्यवेध होजायगा फिर शुभफल नहीं रहेगा ऐसे इन वेधके सबही स्थानों का यथाक्रम लगा लेना । इसी प्रकार चंद्र आदि ग्रहोंकोभी कहते हैं ॥ १ ॥

विध्यते जन्मतो नेंदुर्घूनाद्यायारिखत्रिषु ॥

खेष्वष्टांत्यांबुधर्मस्थैर्विबुधैर्जन्मतः शुभः ॥ २ ॥

जन्म राशिसे ७ । १ । ११ । ६ । १० । ३ इन स्थानोंपर चंद्रमा वेध नहीं करताहै याने शुभहै परन्तु जन्मराशिसे २ । ५ । ८ । १२ । ४ । ९ इन स्थानोंपर बुध विना अन्य कोई ग्रह नहीं होना चाहिये । बुध चंद्रमाका पुत्र है इसलिये वेध नहीं करताहै इन वेधके स्थानोंका परस्पर यथाक्रम देखलेना चाहिये ॥ २ ॥

त्र्याऽऽयारिषु कुजः श्रेष्ठो जन्मराशेर्न विध्यते ॥

व्ययेष्वर्कग्रहे साररप्यसूर्येण जन्मतः ॥ ३ ॥

और ३ । ११ । ६ । इन स्थानोंपर मंगल श्रेष्ठ है वेध नहीं करता है परन्तु १२ । ५ । ९ इनस्थानोंपर कोई ग्रह नहीं होना चाहिये और इस मंगल के ही समान शनिका फल जानना परन्तु शनिके उक्तस्थानोंमें सूर्य वेध नहीं करताहै ॥ ३ ॥

ज्ञोद्व्यब्ध्यऽर्यष्टखायेषु जन्मतश्च न विध्यते ॥

धीत्र्यंकघाऽष्टांत्यखेटैर्जन्मतो व्यब्जकैः शुभः ॥ ४ ॥

जन्मराशिसे २।४।६।८।१०।११ इन स्थानोंपर बुध शुभहै वेधित नहीं है परंतु ५।३।९।१।८।१२। इन स्थानोंपर चंद्रमा बिना अन्य कोई ग्रह नहीं होना चाहिये ॥ ४ ॥

जन्मतः स्वायगोक्षास्तेष्वंत्याष्टायजलत्रिगैः ॥

जन्मराशेर्गुरुः श्रेष्ठो ग्रहैर्यदि न विध्यते ॥ ५ ॥

जन्मराशिसे २।११।९।५।७ इन स्थानोंपर बृहस्पति श्रेष्ठहै परंतु जन्मराशिसेही १२।८।११।४।३ इन स्थानोंपर कोई ग्रह नहीं होना चाहिये ॥ ५ ॥

कुद्व्यभ्यब्धिसुताष्टांकांत्याये शुक्रो न विध्यते ॥

जन्मभान्मृत्युसप्ताद्यखांकेष्वायारिपुत्रगैः ॥ ६ ॥

और जन्मराशिसे १।२।३।४।५।८।९।१२। ११ इन स्थानोंपर शुक्र वेधित नहीं है अर्थात् शुभहै परंतु जन्मराशिसे ८।७।१।१०।९।५।११। ६।५ स्थानोंपर कोई ग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात् १ के शुक्रको ८ और २ को ७।३ को १ ऐसे सब स्थानोंका यथाक्रम वेध समझना चाहिये ॥ ६ ॥

न ददाति शुभं किंचिद्गोचरे वेधसंयुते ॥

तस्माद्वेधं विचार्याथ कथ्यते तच्छुभाशुभम् ॥ ७ ॥

वेधसे युक्तहुआ ग्रह कुछभी शुभफल नहीं देता इसलिये ग्रहका वेध विचारके शुभ अशुभ फल कहना चाहिये ॥ ७ ॥

वामवेधविधानेनाप्यशुभोपि ग्रहो शुभः ॥

अतस्तान्विविधान्वेधान्विचार्याथ वदेत्फलम् ॥ ८ ॥

और वामवेधके विधानसे अशुभ ग्रह भी शुभदायक होजाताहै अर्थात् जैसे १२ सूर्य अशुभ है तहां जन्मराशिसे छठे स्थानमें स्थित हुए ग्रहोंकरके वेधको प्राप्त होजाय तो शुभहै इसी प्रकार विपरीततासे वेध होनेको वाम वेध कहते हैं इसलिये तिन अनेक प्रकारके वेधोंको विचारकर फल कहना चाहिये ॥ ८ ॥

अज्ञात्वा विविधान्वेधान्यो ग्रहज्ञो फलं वदेत् ॥

स मृषावचनाभाषी हास्यं याति नरः सदा ॥ ९ ॥

जो ज्योतिषी अनेकप्रकारके वेधोंको जाने बिना फल कहता है वह झूठा वचन कहनेवाला है हास्यको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

सौम्येक्षितो नेष्टफलः शुभदो पापवीक्षितः ॥

निष्फलौ तौ ग्रहौ स्वेन शत्रुणा च विलोकितः ॥ १० ॥

अशुभ दायक ग्रह भी शुभग्रहोंकरके देखागया हो तो शुभफल करताहै और शुभदायक ग्रह पापग्रहोंसे दृष्टहो तथा शत्रुग्रहसे देखागया हो तो ये दोनोंही ग्रह निष्फल कहेहैं ॥ १० ॥

नीचराशिगतः स्वस्य शत्रुक्षेत्रगतोपि वा ॥

शुभाशुभफलं नैवं दद्यादस्तमितोपि वा ॥ ११ ॥

नीचराशिपर स्थित हुआ अथवा अपने शत्रुके घरमें प्राप्त हुआ तथा अस्तहुआ ग्रह कुछ भी शुभअशुभ फल नहीं देता है ॥ ११ ॥

ग्रहेषु विषमस्थेषु शान्तिं यत्नात्समाचरेत् ॥

हानिर्वृद्धिर्ग्रहाधीना तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥ १२ ॥

विषम कहिये अशुभस्थानमें ग्रह स्थित होवे तो यत्नसे उन्होंकी शांति करानी चाहिये । हानि तथा वृद्धि ग्रहोंके अधीनहै इसलिये ग्रह सदा पूजने चाहियें ॥ १२ ॥

मणिमुक्ताफलं विद्रुमारुख्यं गारुत्मकाह्वयम् ॥

पुष्परागं त्वथो वज्रं नीलगोमेदसंज्ञकम् ॥

वैडूर्यं भास्करादीनां तुष्ट्यै धार्यं यथाक्रमम् ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां गोचराध्यायो द्वादशः ॥ १२ ॥

माणिक्य, मोती, मूंगा, गारुत्मक (हरीजातका रत्न) पुषराज, हीरा, नीलमणि (लहसुनियां) गोमेद, वैडूर्य ये रत्न यथाक्रमसे धारण करनेसे सूर्य आदि ग्रहोंकी प्रसन्नता होतीहै ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां गोचराध्यायो द्वादशः ॥ १२ ॥

शुक्लपक्षादिदिवसे चंद्रो यस्य शुभप्रदः ॥

स पक्षस्तस्य शुभदः कृष्णपक्षोऽन्यथा शुभः ॥ १ ॥

शुक्लपक्षादिदिनोंमें जिसके चंद्रमा बलवान् होता है वह पक्ष उसको शुभदायक होता है और कृष्णपक्ष अन्यथा शुभहै अर्थात् कृष्णपक्षमें ताराबल देखना शुभहै ॥ १ ॥

शुक्लपक्षे शुभश्चंद्रो द्वितीयनवपंचके ॥

रिपुमृत्यंभुसंस्थश्च न विद्धो गगनेचरैः ॥ २ ॥

शुक्लपक्षमें दूसरा नवमां पांचवाँ चंद्रमा शुभहै परंतु छठे आठवें चौथे कोई ग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात् जन्मराशिसे इन स्थानोंमें बुध बिना कोई ग्रह होय तो चंद्रमाका वेध हो जाताहै ॥ २ ॥

अथ ताराः ।

जन्मसंपद्विपत्क्षेमप्रत्यरिस्साधको वधः ॥

मित्रं परममित्रं च जन्मभाञ्च पुनः पुनः ॥ ३ ॥

जन्म १ संपत् २ विपत् ३ क्षेम ४ प्रत्यरि ५ साधक ६ वध
७ मित्र ८ परममित्र ९ ये नव तारे कहेहैं । तहां यथाक्रमसे जन्मके
नक्षत्रसे गिनलेने चाहिये ९ से अधिक होय तो ९ का भाग
देना ॥ ३ ॥

जन्मत्रिपंचसप्तारख्या तारा नेष्टफलप्रदाः ॥

अनिष्टपरिहाराय दद्यादेतद्विजातये ॥ ४ ॥

तहां जन्म, तीसरा, पांचवां, सातवां ये तारा शुभ नहीं हैं अशुभ
ताराकी शांतिके वास्ते यह आगे कएहुए दान ब्राह्मणके वास्ते
देना चाहिये ॥ ४ ॥

शाकं गुडं च लवणं सतिलं कांचनं क्रमात् ॥

कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्षे बली शशी ॥ ५ ॥

शाक, गुड, लवण, तिल, सुवर्ण ये यथाक्रमसे देने योग्यहैं
कृष्णपक्षमें तारा बलवान् होताहै और शुक्लपक्षमें चंद्रमा बलवान्
होताहै ॥ ५ ॥

चंद्रस्य द्वादशावस्था दिवा रात्रौ यथाक्रमात् ॥

यत्रोद्वाहादिकार्येषु संज्ञा तुल्यफलप्रदा ॥ ६ ॥

दिनरात्रिमें यथाक्रमसे चंद्रमाकी बारह अवस्था कहीहैं तहां
विवाहआदि कार्योंमें संज्ञाके तुल्य फल जानना ॥ ६ ॥

षष्टिघ्नं चंद्रनक्षत्रं तत्कालघटिकान्वितम् ॥

वेदघ्नमिषुवेदात्मवस्थाभानुभाजिताः ॥ ७ ॥

अश्विनीआदि गत नक्षत्रोंको साठसे गुनाकरलेवे फिर वर्त्तमान नक्षत्रकी घटी मिलादेवे फिर उनको चारगुना करके तिसमें पैताली-स ४५ का भाग देना तहां १२ से ज्यादै बचें तो बारहका भाग देना ॥ ७ ॥

प्रवासनष्टाख्यमृता जया हास्या रतिमुदा ॥

सुप्तिभुक्तिज्वराकंपसुस्थितिर्नामसंनिभाः ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां चंद्रबलाध्यायस्त्रयोदशः ॥१३॥

फिर प्रवास १ नष्ट २ मरण ३ जया ४ हास्या ५ रति ६ मुदा ७ सुप्ति ८ भुक्ति ९ ज्वर १० कंप ११ सुस्थिति १२ ये बारह अवस्था नामके सदृश फलदायक जानना । तहां मेषराशिवाले पुरुषको प्रवासआदि संज्ञा और वृषराशिवालेको नष्टआदि संज्ञा मिथुनराशिवालेको मरणआदि ऐसे गिनलेना चाहिये ॥ ८ ॥
इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां चंद्रबलाध्यायस्त्रयोदशः ॥ १३ ॥

अथ लग्नफलम् ।

पट्टबंधनयानोग्रसंधिविग्रहभूषणम् ॥

धात्वाकराहवं कर्म मेषलग्ने प्रसिध्यति ॥१॥इति मेषलग्नम् ।

पट्टाबंधन, सवारी, उग्रसंधि (मिलाप) विग्रह, आभूषण, धातु, खजाना, युद्ध ये कर्म मेषलग्नमें सिद्ध होतेहैं ॥ १ ॥

इति मेषलग्नम् ॥

मंगलानि स्थिराण्येव वेश्मकर्मप्रवर्तनम् ॥
 कृषिवाणिज्यपश्वादि वृषलग्ने प्रसिध्यति ॥ २ ॥
 इति वृषलग्नम् ॥

मंगल, स्थिरकाम, घरप्रवेश आदि कर्म, खेती, वाणिज्य, पशु
 आदि कर्म ये वृषलग्नमें सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥

इति वृषलग्नम् ॥

कलाविज्ञानसिद्धिश्च भूषणाहवसंश्रयम् ॥
 गजोद्गाहाभिषेकाद्यं कर्तव्यं मिथुनोदये ॥ ३ ॥
 इति मिथुनलग्नम् ॥

कला, विज्ञान, सिद्धि, आभूषण, युद्ध, आश्रय होना, हाथी लेना,
 देना, विवाह, अभिषेक इत्यादि कर्म मिथुनलग्नमें करने चाहियें ॥ ३ ॥
 इति मिथुनलग्नम् ॥

वापीकूपतडागादिवारिबंधनमोक्षणे ॥
 पौष्टिकं लिपिलेखादि कर्तव्यं कर्कटोदये ॥ ४ ॥
 इति कर्कटलग्नम् ॥

बावड़ी, कवा, तालाब, पुलबांधना, नहर चलाना, पुष्टिके काम,
 लेखक कर्म, लेखाहिसाब ये कर्म कर्कटलग्नमें करने शुभ हैं ॥ ४ ॥

इति कर्कटलग्नम् ॥

इक्षुधान्यवणिकूपण्यकृषिसेवादि यत्स्थिरम् ॥
 साहसावहभूपाढ्यं सिंहलग्ने प्रसिध्यति ॥ ५ ॥
 इति सिंहलग्नम् ॥

ईख, धान्य, वाणिज्य, दूकान, खेती, सेवा आदि स्थिर काम, साहस (बलहठका) काम, युद्ध, राजकार्य ये काम सिंहलग्नमें करने शुभ हैं ॥ ५ ॥ इति सिंहलग्न ॥

विद्याशिल्पौषधिकर्म भूषणं च चरं स्थिरम् ॥

कन्यालग्नविधेयं तत् पौष्टिकाखिलमंगलम् ॥ ६ ॥

इति कन्यालग्नम् ॥

विद्या, शिल्प, औषध, आभूषण, चर स्थिर काम, पौष्टिक तथा मांगलिक कर्म कन्यालग्नमें करने चाहिये ॥ ६ ॥ इति कन्यालग्न ॥

कृषिवाणिज्ययानाश्च पशूद्वाहव्रतादिकम् ॥

तुलायामखिलं कर्म तुलाभांडाश्रितं च यत् ॥ ७ ॥

इति तुलालग्नम् ॥

खेती, वाणिज्य, सवारी, पशु, विवाह, व्रतादिक, वरतन, ताख-डी बाट इत्यादि कर्म तुला लग्नमें करने चाहिये ॥ ७ ॥ इति तुलाल०

स्थिरकर्माखिलं कार्यं राजसेवाभिषेचनम् ॥

चौर्यकर्म स्थिरारंभाः कर्तव्या वृश्चिकोदये ॥ ८ ॥

इति वृश्चिकलग्नम् ॥

संपूर्ण स्थिर काम, राजसेवा, अभिषेक, चोरीके काम, स्थिर-कार्य प्रारंभ ये कार्य वृश्चिक लग्नमें करने चाहिये ॥ ८ ॥

इति वृश्चिकलग्न ॥

व्रतोद्वाहप्रयाणश्च ह्यंगशिल्पकलादिकम् ॥

चरं स्थिरं सशस्त्रास्त्रं कर्तव्यं कार्मुकोदये ॥ ९ ॥

इति धनलग्नम् ॥

व्रत नियम लेना, विवाह, तीर्थादिकपर मरना, अंग, शिल्प, कलाचार, स्थिरकार्य, शस्त्र, अस्त्र, ये काम धनुर्लभमें करने चाहियें
॥ ९ ॥ इति धनलग्नम् ॥

तोयबंधनमोक्षास्त्रकृष्यं चोष्ट्रादिकर्म यत् ॥

प्रस्थानं पशुदासादिकर्तव्यं मकरोदये ॥ १० ॥

इति मकरलग्नम् ॥

पुल बांधना, नहर चलाना, शस्त्रकर्म, खेती, ऊंट आदि पशुके कार्य, गमन, पशुकर्म, दासादिकर्म ये सब मकरलग्नमें करने चाहियें
॥ १० ॥ इति मकरलग्नम् ॥

कृषिवाणिज्यपश्वंबु शिल्पकर्म कलादिकम् ॥

जलययात्रास्त्रशस्त्रादि कर्तव्यं कलशोदये ॥ ११ ॥

इति कुंभलग्नम् ॥

खेती, वाणिज्य, पशु, जलकर्म, शिल्पकर्म, कलादिकर्म जलमें यात्रा, शस्त्र अस्त्र कर्म ये सब कुंभलग्नमें करने चाहियें ॥ ११ ॥
इति कुंभलग्नम् ॥

व्रतोद्वाहाभिषेकांबुस्थापनं सन्निवेशनम् ॥

भूषणं जलपात्रं च कर्म मीनोदये शुभम् ॥ १२ ॥

इति मीनलग्नम् ॥

व्रत, विवाह, अभिषेक, जलस्थापन, प्रवेशकर्म, आभूषण, जल-पात्र ये कर्म मीनलग्नमें करने शुभ हैं ॥ १२ ॥ इति मीनलग्नम् ॥

गोयुग्मकर्ककन्यांत्यतुलाचापधराः शुभाः ॥

शुभग्रहास्पदत्वात्स्युरितरे पापराशयः ॥ १३ ॥

और वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, मीन, तुला, धनुष ये लग्न शुभदायक हैं, क्योंकि ये शुभग्रहोंके स्थान हैं और अन्य लग्न पापग्रहोंकी राशि हैं ॥ १३ ॥

क्षीणेंद्रकार्किभूपुत्राः पापाः स्युः संयुतो बुधः ॥

पूर्णचंद्रबुधाचार्यशुक्रास्तेस्युः शुभग्रहाः ॥ १४ ॥

क्षीणचंद्रमा, सूर्य, शनि, मंगल ये पापग्रह हैं और इनके साथ होनेसे बुध भी अशुभ है और पूर्ण चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभग्रह हैं ॥ १४ ॥

सौम्योग्रं तेषां राशीनां प्रकृत्येव फलं भवेत् ॥

योगेन सौम्यपापैश्च खचरैर्वीक्षितेन वा ॥ १५ ॥

तिन राशियोंका योग होनेसे शुभ अशुभ फल स्वभावसे ही होजाता है और शुभ अशुभ ग्रहोंकी दृष्टिहोनेसे भी शुभाशुभ फल होता है ॥ १५ ॥

सौम्याश्रितत्वात्क्रूरो वा स राशिः शोभनः स्मृतः ॥

सौम्योपि राशिः क्रूरः स्यात्क्रूरग्रहयुतो यदि ॥ १६ ॥

जिसपर शुभग्रह स्थित होय वह क्रूरराशि होय तो भी शुभदायक जाननी और क्रूरग्रहसे युक्त होय तो शुभराशि भी ब्रू जाननी ॥ १६ ॥

ग्रहयोगावलोकाभ्यां शशी धत्ते ग्रहोद्भवम् ॥

फलं ताभ्यां विहीनोसौ स्वं भावमुपसर्पति ॥ १७ ॥

ग्रहका योग तथा दृष्टिकरके चंद्रमा उसग्रहके शुभ अशुभ फल को धारण करता है और उन दोनोंसे हीन होय तब चंद्रमा केवल अपना ही फल करता है ॥ १७ ॥

आदौ संपूर्णफलदं मध्ये मध्यफलप्रदम् ॥

अन्ते तुच्छफलं लग्नं सर्वास्मिन्नेवमेव हि ॥ १८ ॥

लग्न, आदिमें संपूर्ण फल करता है मध्यमें मध्यफल और अंतमें लग्न बहुत थोड़ा फल करता है ॥ १८ ॥

सर्वत्र प्रथमं लग्नं कर्तुश्चंद्रबलं ततः ॥

कन्यान्य इंदौ बलिनि संत्यन्ये बलिनो ग्रहाः ॥ १९ ॥

सब जगह पहले लग्नबल देखना फिर कर्ताको चंद्रबल देखना कन्याके विना अन्यराशिका चंद्रमा बलवान् होय तो सभी ग्रहबलवान् जानने ॥ १९ ॥

चंद्रस्य बलमाधारआधेयं चान्यखेटजम् ॥

आधरभूतेनाधेयं दीयते परिनिष्ठितम् ॥ २० ॥

चंद्रमाका बल आधार है और अन्यग्रहका बल आधेय है अर्थात् चंद्रमाके बलके आश्रय है आधाररूप चंद्रबलसे आधेय की रक्षा कीजाती है ॥ २० ॥

स चेंदुः शुभदः सर्वग्रहाः शुभफलप्रदाः ॥

अशुभश्चेदशुभदः वर्जयित्वा दिनाधिपम् ॥ २१ ॥

चंद्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभफल दायक जानने और अशुभ हो तो अशुभही परंतु सूर्यकी यह व्यवस्था नहीं है ॥ २१ ॥

लग्नेह्यभ्युदयो येषां तेष्वंशेषु स्थिता ग्रहाः ॥

लग्नोद्भवं फलं धत्ते चैवमेवं प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

जिन ग्रहोंका लग्नमें शुभफल है वे ग्रह उन लग्नोंके नवांशकमें भी लग्नके अनुसार शुभफल देते हैं ऐसे जानना ॥ २२ ॥

लग्नं सर्वगुणोपेतं लभ्यते यदि तेन हि ॥

दोषाल्पत्वं गुणाधिक्यं बहुसंततमिष्यते ॥ २३ ॥

जो सबगुणोंसे संयुक्त लग्न मिलजाय तो दोषका योग थोड़ा रहताहै और गुण (शुभ) बहुत विस्तृत होताहै ॥ २३ ॥

दोषदुष्टोहि कालः स परिहार्यः पितामह ॥

अथ शक्त्या गुणाधिक्यं दोषाल्पत्वं ततो हितम् ॥ २४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां सर्वलगाध्यायश्चतुर्दशः १४ ॥

दोषसे दुष्ट हुआ वह काल सबसे बड़ा है इस लिये त्याग देना चाहिये और जो शक्ति करके लग्नमें अधिक गुण होय तो अन्य दोष थोड़े रहते हैं ॥ २४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां सर्वलगाध्यायश्चतुर्दशः ॥ १४ ॥

अथ रजस्वलाविचारः ।

अमारिक्ताष्टमीषष्ठीद्वादशीप्रतिपत्स्वपि ॥

परिघस्य तु पूर्वार्धे व्यतीपाते च वैधृतौ ॥ १ ॥

संध्यासूपप्लवे विष्ट्यामशुभं प्रथमार्तवम् ॥

रुग्णा पतिव्रता दुःखी पुत्रिणी भोगभागिनी ॥

पतिप्रिया क्लेशयुक्ता सूर्यवारादिषु क्रमात् ॥ २ ॥

अमावस्या, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, प्रतिपदा ये तिथि, परिघयोगका पूर्वार्ध व्यतीपात, वैधृति, सायंकाल, दिग्दाह, भद्रा ऐसे समयमें प्रथम रजस्वला होय तो अशुभफल जानना और रविवार आदि जिसवारमें पहिले रजस्वला होय उसका फल यथाक्रमसे ऐसे जानना कि रोगवाली १ पतिव्रता २ दुःखिनी ३ पुत्रिणी ४ भोगभोगिनी ५ पतिप्रिया ६ क्लेशसे संयुक्त ७ ऐसे ये फल सूर्यादिवारोंके जानने ॥ १ ॥ २ ॥

श्रीयुक्ता सुभगा पुत्रवती सौख्यान्विता स्थिरा ॥

मानी कुलाधिका नारी चाश्विन्यां प्रथमार्तवा ॥ ३ ॥

अश्विनी नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होय तो श्रीयुक्ता, सुभगा, पुत्रवती सौख्यसे युक्त, स्थिर, मानवाली कुलमें अधिक पूज्य होती है ॥ ३ ॥

दुःशीला स्वैरिणी वंध्या गर्भपातनतत्परा ॥

परप्रेष्या काकबंध्या भरण्यां प्रथमार्तवा ॥ ४ ॥

और दुष्टस्वभाववाली, व्यभिचारिणी, वंध्या, गर्भपात करनेमें तत्पर, दामी, काकबंध्या यह भरणी नक्षत्रमें प्रथम रजस्वलाके फलहैं ४

अन्यथा पुंश्वली वंध्या गर्भपातनतत्परा ॥

वेश्या मृतप्रजा चापि वह्निभे प्रथमार्तवा ॥ ५ ॥

व्यभिचारिणी, वंध्या, गर्भपातमें तत्पर, वेश्या, मृतवत्सा यह फल कृत्तिका नक्षत्रमें जानना ॥ ५ ॥

सुशीला सुप्रजा चान्या पतिभक्ता दृढव्रता ॥

गृहार्चनरता नित्यं धातृभे प्रथमार्तवा ॥ ६ ॥

सुंदरस्वभाववाली, सुन्दरसन्तानवाली, पतिमें भक्तिरखनेवाली, दृढनियमवाली, हमेशै गृहपूजनमें तत्पर यह फल रोहिणी नक्षत्रमें प्रथमरजस्वला हो तब जानना ॥ ६ ॥

गुणान्विता धर्मरता नारी सर्वसहा सती ॥

पतिप्रिया सुपुत्रा या चंद्रभे प्रथमार्तवा ॥ ७ ॥

गुणयुक्त, धर्ममें तत्पर, सब कुछ सहनेवाली, पतिव्रता, पतिसे प्यार रखनेवाली, अच्छे पुत्रोंवाली यह फल मृगशिर नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होवे तब होता है ॥ ७ ॥

कुलटा दुर्भगा दुष्टा मृतपुत्रा खला जडा ॥

दुष्टव्रतपरिभ्रष्टा रौद्रभे प्रथमार्तवा ॥ ८ ॥

व्यभिचारिणी, दुर्भगा, दुष्टा, मृतवत्सा, करा, मूर्खा, दुष्ट आचरणवाली, परिभ्रष्ट, यह फल आर्द्रा नक्षत्रमें प्रथमरजस्वला होनेका है ॥ ८ ॥

पतिभक्ता पुत्रवती परसंतानमोदिनी ॥

कलाचारानुरक्ता या दितिभे प्रथमार्तवा ॥ ९ ॥

पतिमें भक्ति रखनेवाली, पुत्रवती, पराई संतानको भी आनंद देनेवाली, सबकलाओंवाली, प्रियहितमें रहनेवाली यह फल पुनर्वसु नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होनेका है ॥ ९ ॥

पतिप्रिया पुत्रवती मानभोगवती शुभा ॥

सुकर्मनिरता दक्षा तिष्यर्क्षे प्रथमार्तवा ॥ १० ॥

पतिसे प्यार रखनेवाली, पुत्रवती, मान भोगवाली, शुभसुंदर कर्म में तत्पर रहनेवाली, चतुर यह फल पुष्य नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होनेका है ॥ १० ॥

परभर्तृरता प्रेष्या कोपिनी निर्धृणालसा ॥

सृषावादी च दुष्पुत्रा भौजंगे प्रथमार्तवा ॥ ११ ॥

जो स्त्री पहली बार आश्लेषा नक्षत्रमें रजस्वला होय वह परपुरुषसे रमण करनेवाली, दासी, क्रोधवाली, दयारहित, आलस्यसहित, झूठ बोलनेवाली, दुष्ट संतानवाली होती है ॥ ११ ॥

निर्द्वेष्या रोगसंयुक्ता सर्वदाज्ञा च लोलुपा ॥

पितृवेश्मरता मान्या पैतृभे प्रथमार्तवा ॥ १२ ॥

वैररहित, रोगवाली, सदा अज्ञानवाली, लोभसे संयुक्त, पिताके घरमें मोहरखनेवाली मानवती यह फल मघा नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होनेका है ॥ १२ ॥

परकार्यरता दीना दुष्पुत्रा क्लेशभागिनी ॥

मलिनी कर्कशा क्रुद्धा भाग्यभे प्रथमार्तवा ॥ १३ ॥

पराये काममें रत, दीन, दुष्टपुत्रोंवाली, क्लेशभागिनी, मलिन, कर्कशा, क्रोधवाली यह फल पूर्वाफाल्गुनीमें प्रथम रजस्वला होने का है ॥ १३ ॥

प्रजावती धर्मरता निर्वैरा मित्रपूजिता ॥

सती मित्रगृहे सत्कार्यमर्क्षे तु रजस्वला ॥ १४ ॥

संतानवाली, धर्ममें तत्पर, वैररहित, सम्बन्धीमित्रजनोंसे पूजित, पतिव्रता, ध्यार हितवालेके घरमें आसक्त यह फल प्रथम उत्तराफाल्गुनीमें रजस्वला होनेका है ॥ १४ ॥

निर्द्रेष्या भूरिविभवा पुत्राढ्या भोगभोगिनी ॥

प्रधाना दानकुशला हस्तक्षे प्रथमार्तवा ॥ १५ ॥

वैररहित, बहुत ऐश्वर्यवाली, पुत्रोंवाली, भोगोंको भोगनेवाली, मुख्य, दानकरनेमें निपुण, ऐसी स्त्री प्रथम हस्तनक्षत्रमें रजस्वला होनेवाली होती है ॥ १५ ॥

चित्रकर्मा भोगिनी च कुशला क्रयविक्रये ॥

विकीर्णकामा सुश्लक्षणा त्वाष्ट्रभे प्रथमार्तवा ॥ १६ ॥

विचित्र काम करनेवाली, भोग भागनेवाली, खरीदने बेचनेके व्यवहारमें चतुर, विस्तृत कामवाली, सुंदर चतुर ऐसी स्त्री चित्रा नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होनेसे होती है ॥ १६ ॥

बहुवित्तवती न स्यात्कुशला शिल्पकर्मणि ॥

पुत्रपौत्रवती साध्वी वायुभे प्रथमार्तवा ॥ १७ ॥

स्वाति नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होय तो बहुत धनवाली नहीं हो . और शिल्पकर्ममें चतुर पुत्र पौत्रोंवाली तथा पतिव्रता होती है ॥ १७ ॥

नीचकर्मरता दुष्टा परसक्ता परप्रिया ॥

विपुत्रा मलिना क्रुद्धा द्विद्वे प्रथमार्तवा ॥ १८ ॥

नीचकर्ममें रत, दुष्टा, परसक्ता, परप्रिया, पुत्ररहित, मलिनी, क्रोधिनी ऐसी विशाखा नक्षत्रमें जाननी ॥ १८ ॥

स्वामिपक्षार्चिता सौख्यगुणैः सम्यग्निभूषिता ॥

सुपुत्रा शुभदा कांता मित्रर्क्षे प्रथमार्तवा ॥ १९ ॥

पतिके कुलसे पूजित, सुखदायक गुणोंकरके विभूषित, सुंदर पुत्र पतिवाली यह अनुराधा नक्षत्रका फल जानना ॥ १९ ॥

दुश्चरित्ररता क्लेशिन्यार्तवा पुंश्वली व्यसुः ॥

दुःसंतानवती ज्येष्ठा नक्षत्रे प्रथमार्तवा ॥ २० ॥

दुष्ट चरित्रमें रत, दुःखी, पैराकी बीमारीवाली, व्यभिचारिणी, बलरहित, दुष्ट संतानवाली, ऐसी स्त्री प्रथम ज्येष्ठा नक्षत्रमें रजस्वला होनेसे होती है ॥ २० ॥

संतानार्थगुणैरन्यैर्युक्तान्यक्लेशमोचिनी ॥

स्वकर्मनिरता नित्यं मूलभे प्रथमार्तवा ॥ २१ ॥

संतान धन गुणसे युक्त तथा अन्य गुणोंसे युक्त, और अन्य-जनोंके दुःखको दूर करनेवाली, अपने कर्ममें तत्पर, यह मूल नक्षत्रका फल जानना ॥ २१ ॥

प्रच्छन्नपापा दुष्पुत्रा प्राणिहिंसनतत्परा ॥

अजस्रव्यसनासक्ता तोयभे प्रथमार्तवा ॥ २२ ॥

गुप्त पाप करनेवाली, दुष्ट संतानवाली, प्राणियोंकी हिंसा करने वाली, निरंतर व्यसनमें आसक्त, ऐसी स्त्री पूर्वाषाढमें प्रथम रजस्वला होनेसे होती है ॥ २२ ॥

कार्याकार्येषु कुशला सदा धर्मानुवर्तिनी ॥

गुणाश्रया भोगवती विश्वभे प्रथमार्तवा ॥ २३ ॥

कार्य अकार्यमें निपुण, सदा धर्ममें रहनेवाली, गुणोंकी स्वानि,
भोगवती यह उत्तराषाढका फल है ॥ २३ ॥

धनधान्यवती भोगपुत्रपौत्रसमन्विता ॥

कुलानुमोदिनी मान्या विष्णुभे प्रथमार्तवा ॥ २४ ॥

धन धान्यवती, भोग पुत्र पौत्र इन्होंके सुखवाली, कुलको
प्रसन्न रखनेवाली, मान्य यह फल श्रवण नक्षत्रका है ॥ २४ ॥

पुत्रपौत्रान्विता भोगधनधान्यवती सती ॥

स्वकर्मनिरता मान्या वसुभे प्रथमार्तवा ॥ २५ ॥

पुत्र पौत्रोंवाली, भोग धन धान्यवाली, अपने कार्यमें निपुण,
मान्य यह फल धनिष्ठा नक्षत्रका है ॥ २५ ॥

बहुपुत्रा धनवती स्वकर्मनिरता सती ॥

कुलानुमोदिनी मान्या वारुणे प्रथमार्तवा ॥ २६ ॥

बहुत पुत्रोंवाली, धनवती, अपने काममें निपुण, पतिव्रता,
कुलको प्रसन्न करनेवाली, मान्य, यह फल प्रथम शतभिषा नक्षत्रमें
रजस्वला होनेका है ॥ २६ ॥

बंधकी बंधुविद्वेष्या नित्यं दुष्टरता खला ॥

शिल्पकार्येषु कुशलाऽजात्रिभे प्रथमार्तवा ॥ २७ ॥

व्यभिचारिणी, बंधुओंसे विद्वेष करनेवाली, हमेशा दुष्टज-
नोंमें रत, दुष्टा, शिल्पकार्यमें निपुण यह फल पूर्वाभाद्रपदमें
जानने ॥ २७ ॥

आढ्या पुत्रवती मान्या सुप्रसन्ना पतिप्रिया ॥

बंधुपूज्या धर्मवत्यहिर्बुध्ने प्रथमार्तवा ॥ २८ ॥

धनाढ्या, पुत्रवती, मान्या, सुंदर प्रसन्न, पतिसे प्यार रखनेवाली, बंधुओंसे पूज्या, धर्मवाली यह उत्तराभाद्रपदका फल है ॥ २८ ॥

दृढव्रता धर्मवती पुत्रसौख्यार्थसंयुता ॥

विशाखागुणसंपन्ना पौष्णभे प्रथमार्तवा ॥ २९ ॥

और जो स्त्री प्रथम रेवती नक्षत्रमें रजस्वला होवे वह दृढव्रतवाली, धर्मवती, पुत्र धन सुख इन्होंसे युक्त और विशाखा नक्षत्रमें कहेहुये गुणोंसे युक्त होती है ॥ २९ ॥

कलीरवृषचापांत्यनृयुक्कन्यातुलाधराः ॥

राशयः शुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमार्तवे ॥ ३० ॥

स्त्रियोंके प्रथम रजस्वला होनेमें कर्क, वृष, धन मीन, मिथुन, कन्या, तुला ये राशि अर्थात् लग्न शुभ कहे हैं ॥ ३० ॥

तिथ्यर्क्षवारनिंद्याश्चेत्सेककर्म न कारयेत् ॥

दोषाधिक्ये गुणाल्पत्वे तथापि न च कारयेत् ॥ ३१ ॥

जो तिथिवार नक्षत्र निंदित होवें और दोष अधिक तथा गुण अल्प होवें तो अभिषेक कर्म नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥

दोषाल्पत्वे गुणाधिक्ये सेककर्म समापयेत् ॥

निंद्यर्क्षे तिथिवारेषु यत्र पुष्पं प्रदृश्यते ॥ ३२ ॥

तत्र शांतिः प्रकर्तव्या घृतदूर्वातिलाक्षतैः ॥

प्रत्येकमष्टशतं च गायत्र्या जुहुयात्ततः ॥ ३३ ॥

और दोष थोड़ेहों गुण अधिक होवें तब अभिषेक कर्म करना चाहिये । निंदित नक्षत्र और निंदित तिथि वार होवें तो घृत,

दूब, तिल, अक्षत इन्हों करके अष्टोत्तरशत १०८ गायत्री मंत्रसे होम करे और पहिले जपकरवाके शांति करे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

स्वर्णगोभूतिलान्दद्यात्सर्वदोषापनुत्तये ॥

भर्ता तस्यापि गमनं वर्जयेद्रक्तदर्शनात् ॥ ३४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रथमार्तवाध्यायः पञ्चदशः १५ ॥

सुवर्ण, गौ, भूमि, तिल इन्होंका दान करे तब सब दोष शांत होते हैं । रजस्वला होवे तब तिसके पतिने भी स्त्रीत्याग करना चाहिये ॥ ३४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां प्रथमार्तवाध्यायः

पंचदशः ॥ १५ ॥

रजोदर्शनतोऽस्पृष्टा नार्यो दिनचतुष्टयम् ॥

ततः शुद्धक्रियाश्चैताः सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ १ ॥

रजस्वला होनेके बाद चार दिन स्त्री स्पर्श करने योग्य नहीं रहतीहै फिर शुद्ध होतीहै सब वर्णोंमें यही विधिहै ॥ १ ॥

ओजराश्यंशगे चंद्रे लग्ने पुंग्रहवीक्षिते ॥

उपवीती युग्मतिथौ सुस्नातां कामयोत्स्त्रियम् ॥ २ ॥

चंद्रमा, मेष, मिथुन आदि विषमराशिके नवांशकमें स्थितहो और लग्न भी विषम राशिके नवांशकमें स्थित हो और पुरुष ग्रहोंकी दृष्टिसे युक्त हो तब युग्मतिथि विषे शुद्धस्नान करचुकी हुई स्त्रीको सव्य हुआ पुरुष प्राप्त होवै ॥ २ ॥

पुत्रार्थी पुरुषं त्यक्त्वा पौष्णमूलाह्नितृभम् ॥

युग्मभेषु शशांके च लग्नेऽस्त्रीग्रहवीक्षिते ॥ ३ ॥

और पुत्रकी इच्छावाली स्त्री रेवती, मूल, आश्लेषा, मघा इन नक्षत्रोंमें तथा युग्म राशिपर चंद्रमा होवे और लग्न स्त्रीग्रहोंकरके दृष्ट होय तब पतिसंग त्याग देवे ॥ ३ ॥

अयुग्मे दिवसे भार्या कन्यार्थी कामयेत्पतिः ॥

निर्वीजानामिमे योगाः सर्वदा निष्फलप्रदाः ॥ ४ ॥

और रजस्वलाके दिनसे विषम दिनोंमें स्त्रीको प्राप्त होवे तब कन्याजन्म हो ये सब योग निर्वीज पुरुषोंके हैं सदा निष्फल हैं अर्थात् इनमें स्त्रीसंग करनेसे पुत्रकी संतान नहीं होसक्ती ॥ ४ ॥

पुंग्रहाः सूर्यभौमार्याः स्त्रीग्रहौ शशिभार्गवौ ॥

नपुंसकौ सौम्यसौरी शिरोमात्रं विधुंतुदः ॥ ५ ॥

इति श्रीनारदसंहितायामाधानाध्यायः षोडशः ॥ १६ ॥

सूर्य, मंगल, गुरु ये पुरुष ग्रह हैं। चंद्रमा, शुक्र स्त्रीग्रह हैं। बुध शनि नपुंसक हैं राहुका शिरमात्र नपुंसक है ॥ ५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामा-

धानाध्यायः षोडशः ॥ १६ ॥

प्रसिद्धविषमे गर्भे तृतीये वाथ मासि च ॥

कुर्यात्पुंसवनं कर्म सीमंतं च यथा तथा ॥ १ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां पुंसवनाध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥

गर्भसे विषम मासम अथवा तीसरे महीनेमें पुंसवनकर्म तथा सीमंतकर्म करना चाहिये ॥ १ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां पुंसवनाध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥

चतुर्थे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे वा तदीश्वरे ॥

बलसंपन्नदंपत्योश्चंद्रताराबलान्विते ॥ १ ॥

चौथे महीनेमें, अथवा छठे महीनेमें, तथा आठवें महीनेमें अष्टम मासपति ग्रह बलयुक्त होय और स्त्रीपुरुषोंको चंद्रताराका पूर्ण बल होय तब ॥ १ ॥

अरिक्तापर्वदिवसे कुजजीवार्कवासरे ॥

तीक्ष्णमिश्रोग्रवर्जेषु पुंसंज्ञभांशके शशी ॥ २ ॥

रिक्ता, अमावस्या, पूर्णिमा, मंगल, बृहस्पति, रवि, तीक्ष्ण, मिश्र, उग्र इन संज्ञाओंवाले नक्षत्र, इन सबोंको वर्जकर पुरुषसंज्ञक राशि के नवांशकपर चंद्रमा स्थित होय ॥ २ ॥

शुद्धेऽष्टमे जन्मलग्नात्तयोर्लग्नेन नैधने ॥

शुभग्रहयुते दृष्टे पापखेटयुतेक्षिते ॥ ३ ॥

लग्नकी तथा अष्टमस्थानकी शुद्धि होवे इन दोनों स्थानोंपर शुभग्रहोंकी दृष्टि हो और पापग्रहोंकी दृष्टि नहीं होवे ॥ ३ ॥

मासेष्टके चतुर्भिर्वा दृष्टेर्के बीजपूरकैः ॥

स्त्रीणां तु प्रथमे गर्भे सीमतोन्नयनं शुभम् ॥ ४ ॥

आठवां महीना हो तथा बलवीर्यको पूरण करनेवाले चार ग्रहों के सूर्य दृष्ट होवे तब स्त्रियोंका प्रथम गर्भविषे सीमंतकर्म करना शुभ है ॥ ४ ॥

शुभग्रहेषु धीधर्मकेंद्रेष्वरिभवे त्रिषु ॥

पापेषु सत्सु चंद्रैत्यनिधनाद्यारिवर्जिते ॥ ५ ॥

शुभग्रह पांचवें, नवमें तथा केंद्रस्थानमें हों और पापग्रह छठे, ग्यारहवें, तीसरे हों तब और बारहवें, आठवें लग्नमें चंद्रमा नहीं हो तब सीमंतकर्म करना चाहिये ॥ ५ ॥

ऋग्रहाणामेकोपि लग्नादंत्यात्मजाष्टमाः ॥

सीमंतिनीनां सद्गर्भं बली हंति न संशयः ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां सीमंतोन्नयनाध्यायोऽष्टादशः १८

और ऋग्रहोंके मध्यमें एक भी ग्रह लग्नसे बारहवें, पांचवें, आठवें स्थान होय तो स्त्रियोंका उत्तम गर्भको नष्ट करताहै वह ग्रह बली है इसमें संदेह नहीं ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां सीमंतो-

न्नयनाध्यायोऽष्टादशः ॥ १८ ॥

अथ जातकर्म ।

तस्मिञ्जन्ममुद्दूर्तेपि सूतकांतेपि वा शिशोः ॥

जातकर्म प्रकर्तव्यं पितृपूजनपूर्वकम् ॥ १ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां जातकर्माध्याय एकोन

विंशतितमः ॥ १९ ॥

बालकका जन्म हो उसी घडी अथवा सूतकके अंतमें पितरोंका पूजनकर (नांदीमुखश्राद्धकर) जातकर्म करना चाहिये ॥ १ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषा० जातकर्माध्याय एकोनविंशतितमः १९

सूतकांति नामकर्म विधेयं स्वकुलोचितम् ॥

नामपूर्वं प्रशस्तं स्यान्मंगलैश्च शुभाक्षरैः ॥ १ ॥

सूतकके अंतमें अपने कलके योग्य नामकर्म करना चाहिये और नामके आदिमें शुभमंगलीक अक्षर होवे वह नाम श्रेष्ठ कहा है ॥ १ ॥

देशकालोपयाताद्यैः कालातिक्रमणं यदि ॥

अनस्तगे भृगावीज्ये तत्कार्यं चोत्तरायणे ॥ २ ॥

देशकालकी व्यवस्थाके अतिक्रमणसे सूतकके अंतमें बारहवें दिन नामकरण नहीं होसके तो गुरु शुक्रका अस्त नहीं हो और उत्तरायण सूर्य हो ॥ २ ॥

चरस्थिरमृदुक्षिप्रनक्षत्रे शुभवासरे ॥

चंद्रताराबलोपेते दिवसे च शिशोः पिता ॥ ३ ॥

चर, स्थिर, मृदु, क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र हो शुभ बार होवे और चंद्रमा तथा तारा बलसे युक्त दिन हो तब बालकका पिता ॥ ३ ॥

शुभलग्ने शुभांशे च नैधने शुद्धिसंयुते ॥

लग्नंत्यनैधने सौम्ये संयुते वा निरीक्षिते ॥ ४ ॥

इति श्रीनार०संहितायां नामकरणाध्यायोऽविंशतितमः २

शुभ लग्नमें, शुभ राशिके नवांशकमें अष्टम स्थान शुद्ध होय औ लग्न, द्वादश, अष्टमस्थानमें शुभग्रह स्थितहों अथवा शुभग्रहोंकी दृष्टि होवे तब नामकरण कर्म करना योग्य है ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषा० नामकरणाध्यायो विंशतितमः २० ॥

अथ नवान्नप्राशनम् ।

षष्ठमास्यष्टमे वापि पुंसां स्त्रीणां तु पंचमे ॥

सप्तमे मासि वा कार्यं नवान्नप्राशनं शुभम् ॥ १ ॥

छठे महीनेमें अथवा आठवें महीनेमें पुरुषोंको (पुत्रोंको) प्रथम अन्न खिलाना प्रारंभ करै और कन्याओंको प्रथम, पांचवें तथा सातवें महीनेमें अन्न खिलाना चाहिये ॥ १ ॥

रिक्तां दिनक्षयं नंदां द्वादशीमष्टमीममाम् ॥

त्यक्तान्यतिथयः श्रेष्ठाः प्राशने शुभवासरे ॥ २ ॥

रिक्तातिथि, तिथिक्षय, नंदातिथि, द्वादशी, अष्टमी, अमावस्या इनको त्यागकर अन्यतिथि और शुभवार अन्न प्राशनमें शुभ-दायक हैं ॥ २ ॥

चरस्थिरमृदुक्षिप्रनक्षत्रे शुभनैवने ॥

दशमे शुद्धिसंयुक्ते शुभलग्ने शुभांशके ॥ ३ ॥

चर, स्थिर, मृदु, क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रोंमें और लग्नेसे अष्टमस्थान तथा दशमस्थानकी शुद्धि होनेमें शुभलग्न आर शुभराशिका नवांशक होनेमें ॥ ३ ॥

पूर्वाह्ने सौम्यखेटेन संयुक्ते वीक्षितेपि वा ॥

त्रिषष्टलाभगैः क्रूरैः केंद्रधीधर्मगैः शुभैः ॥ ४ ॥

पूर्वाह्न (दुपहरा पहिल) लग्न शुभग्रहसे दृष्ट हो अथवा युक्तों ३ । ६ । ११ इन स्थानोंमें क्रूरग्रह होवें और केंद्र, पांचव, चमैं स्थानमें शुभग्रह होवें तब ॥ ४ ॥

व्ययारिनिधनस्थेन चंद्रेण प्राशनं शुभम् ॥

अन्नप्राशनलग्नस्थे क्षीणेंदौ वास्तनीचगे ॥ ६ ॥

और १२ । ६ । ८ इन स्थानोंमें चंद्रमा नहीं होवे तब अन्नप्राशन शुभ है और लग्नमें क्षीण चंद्रमा नहीं हो चंद्रमा अस्त नहीं हो तथा नीचका नहीं हो ॥ ५ ॥

नित्यं भोक्तुश्च दारिद्र्यं रिष्फषष्ठाष्टगोपि वा ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायामन्नप्राशनाध्याय

एकविंशतितमः ॥ २१ ॥

जो १२ । ६ । ८ इन स्थानोंमें चंद्रमा हो ऐसे लग्नमें अन्नप्राशन कराया जाय तो भोजन करनेवाला जन दरिद्री हो ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामन्नप्राशना-

ध्याय एकविंशतितमः ॥ २१ ॥

अथ चौलकर्म ।

तृतीये पंचमाब्दे वा स्वकुलाचारतोपि वा ॥

बालानां जन्मतः कार्यं चौलमावत्सरत्रयात् ॥ १ ॥

तीसरे वा पांचवें वर्षमें अथवा अपने कुलाचारके अनुसार बालकोंका चौलकर्म (बालउतराने चाहियें) शुभ है । विशेष करके तीन वर्षका बालक हुए पहिले करना ॥ १ ॥

सौम्यायनेनास्तगयोरसुरासुरमंत्रिणोः ॥

अपर्वरिक्ततिथिषु शुक्रे ज्ञे ज्येंदुवासरे ॥ २ ॥

(१२६)

नारदसंहिता ।

उत्तरायण सूर्य हो, गुरु शुक्रका अस्त नहीं होवे पूर्णमासी, रिक्ता तिथि इनको त्याग दे शुक्र, बुध, बृहस्पति, चंद्रवार ये शुभहैं ॥ २ ॥

दस्त्रादितज्यचंद्रेंद्रपूषाभानि शुभान्यतः ॥

चौलकर्माणि हस्तर्क्षात्रीणित्रीणि च विष्णुभात ॥ ३ ॥

पट्टबंधनचौलान्नप्राशने चोपनायने ॥

शुभदं जन्मनक्षत्रमशुभं त्वन्यकर्माणि ॥ ४ ॥

अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिर, ज्येष्ठा, रेवती ये नक्षत्र शुभ हैं और चौलकर्ममें हस्त नक्षत्रसे तीन नक्षत्र अथवा श्रवणसे तीन नक्षत्रों तक जन्मनक्षत्र होय तो चौल कर्म, पट्टाबंधन, अन्नप्राशन, उपनयन कर्म इनमें शुभदायक है अन्यकर्ममें जन्मनक्षत्र अशुभ जानना ॥ ३ ॥ ४ ॥

अष्टमे शुद्धिसंयुक्ते शुभलग्ने शुभांशके ॥

न नैघने भे शीतांशौ षष्ठेन्त्ये तु विवर्जयेत् ॥ ५ ॥

शुभलग्न शुभ नवांशक अष्टमस्थान शुद्ध अर्थात् ८वें स्थानमें कोई ग्रह नहीं हो और ६ । ८ । १२ चंद्रमा नहीं हो ॥ ५ ॥

धनत्रिकोणकेंद्रस्थैः शुभैरुयायारिगैः परैः ॥

अभ्यक्ते संध्ययोर्नाति निशि भोक्तुर्न चाहवे ॥ ६ ॥

शुभग्रह २ । ९ । ५ । १ । ४ । ७ । १० इन घरोंमें हों और क्रूर ग्रह ३ । ११ । ६ घरोंमें हों तब तेल आदिकी मालिश करके क्षौरकर्म कराना शुभ है तथा संध्यासमय, भोजनका अंत, रात्रि, युद्ध इन्होंमें क्षौर नहीं कराना ॥ ६ ॥

नोत्कटे भूषिते नैव न याने नवमेहि च ॥

क्षौरकर्म महीशानां पंचमेपंचमेहनि ॥ ७ ॥

कर्त्तव्यं क्षौरनक्षत्रे ह्यथवास्योदयेऽष्टदम् ॥

नृपविप्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्दिमोक्षणे ॥

उद्वाहेखिलवारक्षतिथिषु क्षौरमिष्टदम् ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां चौलाध्यायो द्वाविंशतितमः २२ ॥

अत्यंत विकराल होकर आभूषण धारणकरके तथा सवारीपर बैठके क्षौर नहीं कराना राजाओंने नवमें २ दिन तथा पांचवें २ दिन भी क्षौर नहीं कराना चाहिये । क्षौर करानेके योग्य नक्षत्रोंमें क्षौर कराना और मांगलीक जन्मोत्सवादिकमें कराना, राजा तथा ब्राह्मणकी आज्ञासे, यज्ञ, मरण, कैदसे छूटना, विवाह इन्होंविषे संपूर्ण तिथि वारोंमें क्षौर करालेवे कुछ मुहूर्त्त नहीं देखै ॥ ७ ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां चौलाध्यायो

द्वाविंशतितमः ॥ २२ ॥

कर्त्तव्यं मंगलेष्वादौ मंगलेष्वंकुरार्पणम् ॥

नवमे सप्तमे मासि पंचमे दिवसेपि वा ॥ १ ॥

मंगल कर्मोंमें पहिले दूब आदि मंगलांकुर अर्पण करने चाहिये नवममें अथवा सातवां महीनेमें अथवा पांचवें दिन ॥ १ ॥

तृतीये बीजनक्षत्रे शुभवारे शुभोदये ॥

सम्यग्गृहाण्यलंकृत्य वितानध्वजतोरणैः ॥ २ ॥

तथा तीसरे महीनेमें गर्भाधानके नक्षत्रविषे शुभवार और शुभनक्षत्र विषे अच्छे लग्नविषे अच्छे प्रकारसे घरोंको मंडप, ध्वजा, तोरण-आदिकोंसे विभूषितकर ॥ २ ॥

आशिषो वाचनं कार्यं पुण्यं पण्यांगनादिभिः ॥

महावादित्रनृत्याद्यैर्गता प्रागुत्तरां दिशम् ॥ ३ ॥

स्वस्तिवाचन करवाना, सौभाग्यवती स्त्रियोंसे अच्छे प्रकार मंगल गायन करवाना, महान् बाजे नृत्यआदिकोंकी शोभासे युक्त होकर ईशान कोणमें जावे ॥ ३ ॥

तत्र मृत्सिकतां श्लक्ष्णां गृहीत्वा पुनरागतः ॥

मृन्मयेष्वथवा वैणवेषु पात्रेषु पूरयेत् ॥

अनेकबीजसंयुक्तं तोयं पुष्पोपशोभितम् ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां मंगलांकुरार्पणं नामाध्याय-

स्त्रयोविंशतितमः ॥ २३ ॥

तहांसे बालूरेतको लाकर मृत्तिकाके पात्रमें अथवा बांस आदिके पात्रोंमें भरदेना चाहिये फिर तिसमें सब प्रकारके बीजोंको बोवे और जल छिडक देवे तथा सुंदर पुष्प डालकर शोभित करदेवे ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां मंगलांकुरार्पणं

नामाध्यायस्त्रयोविंशतितमः ॥ २३ ॥

आधानादष्टमे वर्षे जन्मतो वाग्रजन्मनाम् ॥

राज्ञामेकादशे मौजीबंधनं द्वादशे विशाम् ॥ १ ॥

गर्भाधानसे आठवें वर्षमें अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणों-
को उपनयन कर्म कराना और क्षत्रियोंके ग्यारहवें वर्षमें, वैश्योंके
बारहवें वर्षमें यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिये ॥ १ ॥

आजनेः पंचमे वर्षे वेदशास्त्रविशारदः ॥

उपनीतो यतः श्रीमान् कार्यं तत्रोपनायनम् ॥ २

जो ब्राह्मण वेदशास्त्रमें निपुण होनेकी इच्छा करे वह जन्मसे
पांचवेंही वर्षमें उपनयन संस्कार करवावे क्योंकि, पांचवें वर्षमें
संस्कार करानेवाला द्विज श्रीमान् वेदपाठी होता है ॥ २ ॥

बालस्य बलहीनोपि शांत्या जीवो बलप्रदः ॥

यथोक्तवत्सरे कार्यमनुक्तेनोपनायनम् ॥ ३ ॥

बालकके बलहीन भी बृहस्पति शांति करवानेसे बलदायक
होजाता है यथोक्त वर्षमें यज्ञोपवीत कराना । अनुक्त कालमें यज्ञो-
पवीत नहीं कराना ॥ ३ ॥

दृश्यमाने गुरौ शुक्रे दिनेशे चोत्तरायणे ॥

वेदानामधिपा जीवशुक्रभौमबुधाः क्रमात् ॥ ४ ॥

बृहस्पति तथा शुक्रका उदय हो सूर्य उत्तरायण हो तब उपन-
यन करावे । बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध ये ग्रह क्रमसे ऋगू, यजु,
साम, अथर्व इनके अधिपति हैं ॥ ४ ॥

शरद्वीष्मवसंतेषु व्युत्क्रमात्तु द्विजन्मनाम् ॥

मुख्यं साधारणं तेषां तपोमासादि पंचसु ॥ ५ ॥

शरद्, शीष्म, वसंत इन ऋतुओंमें यथाक्रमसे द्विजातियोंने यज्ञोपवीत संस्कार कराना योग्य है ये ऋतु मुख्य हैं और साधारणता करके सब ही द्विजातियोंको माघ आदि पांच महीनोंमें यज्ञोपवीत संस्कार करवाना ॥ ५ ॥

स्वकुलाचारधर्मज्ञो माघमासे तु फाल्गुने ॥
विधिज्ञो ह्यर्थवांश्चैत्रे वेदवेदांगपारगः ॥ ६ ॥

धर्मज्ञ पुरुष अपने कुलाचारके अनुसार माघ महीनेमें उपनयन करवानेवाला होता है । फाल्गुनमें यज्ञोपवीत संस्कार करावे तो विधिको जाननेवाला धानाढ्य होवे, चैत्रमें वेदवेदांगको जाननेवाला पण्डितहो ॥ ६ ॥

वैशाखे धनवान्वेदशास्त्रविद्याविशारदः ॥

उपनीतो बलाढ्यश्च ज्येष्ठे विधिविदांवरः ॥ ७ ॥

वैशाखमें धनवान् वेदशास्त्रको जाननेवाला पंडित हो, ज्येष्ठमें यज्ञोपवीत करानेसे बलवान् तथा सब विधियोंको जाननेवाला होता है ॥ ७ ॥

शुक्लपक्षे द्वितीया च तृतीया पंचमी तथा ॥

त्रयोदशी च दशमी सप्तमी व्रतबंधने ॥ ८ ॥

श्रेष्ठा त्वेकादशी षष्ठी द्वादश्येतास्तु मध्यमाः ॥

एका चतुर्थी संत्याज्या कृष्णपक्षे च मध्यमा ॥ ९ ॥

आपंचम्यास्तु तिथयः पराः स्युरतिनिदिताः ॥

श्रेष्ठान्यर्कत्रयांत्येज्यरुद्रादित्युत्तराणि च ॥ १० ॥

शुक्लपक्षमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, दशमी, सप्तमी ये तिथि यज्ञोपवीत करानेमें शुभ कही हैं और एकादशी षष्ठी, द्वादशी, ये मध्यमतिथि कही हैं। कृष्णपक्षमें एक चतुर्थी तो त्याज्य है और तिथि पंचमीतक मध्यम हैं। पंचमीसे आगे अन्य तिथि अत्यंत निंदित जाननी। हस्त आदि तीन नक्षत्र रेवती, पुष्य, आर्द्रा, पुनर्वसु तीनों उत्तरा ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

विष्णुत्रयाश्वमित्राजयोनिभान्युपनायने ॥

जन्मभाद्रशर्म कर्म संघातर्क्षं च षोडशम् ॥ ११ ॥

श्रवण आदि तीन नक्षत्र, अश्विनी, अनुराधा, पूर्वाभाद्रपदा ये नक्षत्र उपनयन संस्कारमें शुभ कहे हैं। जन्म नक्षत्रसे दशवाँ व सोलहवाँ नक्षत्र कर्मसंघात ऋक्ष कहा है ॥ ११ ॥

अष्टादशं सामुदायं त्रयोविंशं विनाशनम् ॥

मानसं पंचविंशर्क्षं नाचरेच्छुभमेव तु ॥ १२ ॥

अठारहवाँ नक्षत्र सामुदाय है, तेईसवाँ विनाशन है, पचीसवाँ नक्षत्र मानस संज्ञक है इन नक्षत्रोंमें किंचित् भी शुभकर्म नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥

आचार्यसौम्यकाव्यानां वाराः शस्ताः शशीनयोः ॥

वारौ तौ मध्यफलदावितरौ निंदितौ व्रते ॥ १३ ॥

गुरु, बुध, शुक्र ये वार शुभदायक हैं, चंद्र, रविवार मध्यम हैं अन्य वार उपनयन संस्कारमें निंदित कहे हैं ॥ १३ ॥

त्रिधा विभज्य दिवसं तत्रादौ कर्म दैविकम् ॥

द्वितीये मानुषं कार्यं तृतीयांशे च पैतृकम् ॥ १४ ॥

दिनमानके तीन विभागकरके तहां पहिले भागमें देवकर्म, दूसरे विभागमें मानुषकर्म, तीसरे विभागमें पितृकर्म करना योग्य है ॥ १४ ॥

स्वनीचगे तदंशे वा स्वारिभे वा तदंशके ॥

गुरौ भृगौ च शाखेशे कुलशीलविवर्जितः ॥ १५ ॥

स्वाधिशत्रुगृहस्थे वा तदंशस्थेथवा व्रती ॥

शाखेशे वा गुरौ शुके महाघातककृद्भवेत् ॥ १६ ॥

बृहस्पति, व शुक्र तथा शाखेश अर्थात् ऋग्वेद आदिकोंके अधिपति बृहस्पति आदि ४ वार कहे हैं उनमेंसे जिस वेदका मत हो वही शाखेश है जैसे ऋग्वेदियोंका गुरु, यजुर्वेदियोंका शुक्र, सामवेदियोंका मंगल, अथर्ववेदियोंका बुध जानना ऐसे इन ग्रहोंमेंमे यथाक्रमसे अपनी नीचराशिपर हो वा नीचांश अथवा शत्रुके घरमें वा शत्रुराशिके नवांशकमें होवे तब उपनयनसंस्कार करावे तो अपने पूर्ण शत्रुके घरमें स्थित अथवा शत्रुकी राशिके नवांशकमें स्थित शाखेश तथा गुरु, शुक्र होय तब उपनयन करावे तो महाघातकी पुरुष हो ॥ १५ ॥ १६ ॥

स्वोच्चसंस्थे तदंशे वा स्वराशौ राशिगे गणे ॥

शाखेशे वा गुरौ शुके केंद्रगे वा त्रिकोणगे ॥ १७ ॥

अपनी उच्चराशिमें स्थित अथवा उच्चराशिके नवांशकमें अथवा अपनी राशिमें स्थित शाखेश होवे तथा बृहस्पति, शुक्र भी इसी प्रकार स्थित होवे अथवा लग्नसे केंद्रमें तथा त्रिकोणमें (२ । १) गुरु शुक्र होवे तब उपनयन संस्कार करावे तो ॥ १७ ॥

अतीव बलवांश्चैव वेदवेदांगपारगः ॥

परमोच्चमते जीवे शाखेशेवाथवा सिते ॥ १८ ॥

व्रती शिशुर्धनाढ्यश्च वेदशास्त्रविशारदः ॥

मित्रराशिगते जीवे तदंशे वां स्वराशिगे ॥ १९ ॥

अत्यंत बलवान् वेदवेदांगके पारको जाननेवाला पुरुष हो बृहस्पति, शुक्र, शाखेश इनमेंसे कोई परम उच्च अंशोंमें प्राप्त होवे तो । व्रती बालक धनाढ्य तथा वेदपाठी होवे बृहस्पति मित्रराशिपर हो अथवा तिसराशिके नवांशकमें हो अथवा अपनी राशिपर होय ॥ १८ ॥ १९ ॥

शुके वाचार्यसंयुक्ते तदा तत्र व्रती शिशुः ॥

स्वस्वामित्रग्रहस्थे वा तस्योच्चस्थे तदंशके ॥ २० ॥

शुक्र, बृहस्पति एक राशिपर स्थित होवें तब उपनयन कराना शुभ है. बृहस्पति शुक्र शाखेश ये ग्रह अपने २ मित्रोंके घरमें स्थित हों अथवा मित्रग्रहकी उच्चराशिपर स्थित होवें अथवा उच्चराशिके नवांशकमें स्थित होवें तब उपनयन करवावे तो विद्या धन धान्यसे संयुक्त होवे ॥ २० ॥

गुरौ भृगौ वा शाखेशे विद्याधनसमन्वितः ॥

शाखाधिपतिवारश्च शाखाधिपबलं शिशोः ॥

शाखाधिपतिलग्नं च दुर्लभं त्रितयं व्रते ॥ २१ ॥

शाखाधिपति ग्रहका वार, बालकको शाखाधिपतिका बल और शाखाधिपतिके राशिका लग्न ये तीन वस्तु उपनयन कर्ममें दुर्लभ हैं अर्थात् बड़ी उच्चम हैं ॥ २१ ॥

तस्माच्छुभांशगे चंद्रे व्रती विद्याविशारदः ॥

पापोऽष्टगे स्वांशगे वा दरिद्रो नित्यदुखितः ॥ २२ ॥

इसीलिये शुभराशिके नवांशकमें चंद्रमा होवे तो व्रतीजन विद्यामें निपुण हो और पापग्रह अष्टमस्थानमें हो तथा अपनी राशिके नवांशकमें हो तो दरिद्री नित्य दुःखी होवे ॥ २२ ॥

श्रवणादिति नक्षत्रे कर्कर्यशस्थे निशाकरे ॥

सदा व्रती वेदशास्त्रधनधान्यसमृद्धिमान् ॥ २३ ॥

श्रवण तथा पुष्य नक्षत्र हो, कर्क राशिके नवांशकपर चंद्रमा स्थित हो तब उपनयन संस्कार करानेवाला बालक वेदशास्त्र धनधान्यकी समृद्धिवाला होता है ॥ २३ ॥

शुभलग्ने शुभांशे च नैघने शुद्धिसंयुते ॥

लग्ने त्वनैघने सौम्यैः संयुक्ते वा निरीक्षिते ॥ २४ ॥

शुभलग्न शुभराशिका नवांशक हो आठवें घर कोई लग्नमें शुभग्रह स्थित हो अथवा शुभग्रहोंकी दृष्टि हो ॥ २४ ॥

दृष्टैर्जीवार्कचंद्राद्यैः पंचभिर्वलिभिर्ग्रहैः ॥

स्थानादिबलसंपूर्णैश्चतुर्भिर्वा समन्वितैः ॥ २५ ॥

बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि पांच ग्रहोंसे दृष्ट शुभस्थान होवें अथवा पंचम आदि स्थानोंमें चार बली शुभग्रह स्थित होवें ॥ २५ ॥

ईक्षिते वा चैकविंशन्महादोषविवर्जिते ॥

राशयः सकलाः श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः ॥ २६ ॥

अथवा शुभ चार ग्रहोंसे दृष्ट लग्न होवे और २१ इकीस महा-दोष जो ग्रंथांतरोंमें तथा इसी ग्रंथमें आगे कहे हैं । पंचागशुद्धिका

अभाव १ उदयास्त शुद्धिका अभाव २ सूर्य संक्रांति ३ पाप षड्वर्ग
४ गंडांत ५ कर्त्तरीयोग ६ इत्यादि हैं ये नहीं होने चाहियें और
शुभग्रहोंसे युक्त तथा दृष्ट संपूर्ण राशि श्रेष्ठ कही हैं ॥ २६ ॥

शुभा नवांशाश्च तथा गृह्यास्ते शुभराशयः ॥

पापग्रहस्य लग्नांशः शुभेक्षितयुतोपि वा ॥ २७ ॥

और जिनमें शुभराशिके नवांशक आगये हों वे राशि ग्रहण
करने योग्य शुभ हैं और पाप ग्रहके लग्नका नवांशक शुभग्रहसे
दृष्ट तथा युक्त होय तो शुभ है ॥ २७ ॥

तस्माद्गोमिथुनांत्याश्च तुलाकन्यांशकाः शुभाः ॥

एवंविधे लग्नगते नवांशे व्रतमीरितम् ॥ २८ ॥

इसलिये वृष, मिथुन, मीन, तुला, कन्या इन राशियोंके नवां-
शक शुभ हैं ऐसे लग्नमें अथवा नवांशकमें यज्ञोपवीत कराना
शुभ है ॥ २८ ॥

त्रिषडायगतैः पापैः षडष्टान्त्यविवर्जितैः ॥

शुभैः षष्ठाष्टलग्नांत्यवर्जितेन हिमांशुना ॥ २९ ॥

पापग्रह ३ । ६ । ११ घरमें हों और शुभग्रह ६ । ८ । १२
इन घरोंमें नहीं हों और ६ । ८ लग्नमें चंद्रमा नहीं हो ॥ २९

स्वोच्चसंस्थोपि शीतांशुर्व्रतिनो यदि लग्नगः ॥

तं करोति शिशुं निःस्वं सततं क्षयरोगिणम् ॥ ३० ॥

उच्चराशिका भी चंद्रमा लग्नमें होय तो उपनयन संस्कारवाले
बालकको निरंतर दरिद्री और क्षयी रोगयुक्त करता है ॥ ३० ॥

स्फूर्जितं केंद्रगे भानौ व्रतिनो वंशनाशनम् ॥

कूजितं केंद्रगे भौमे शिष्याचार्यविनाशनम् ॥ ३१ ॥

केंद्रमें सूर्य होवे तब उपनयन संस्कार होनेसमय मेघ गर्ज पडे तो वंशका नाश होताहै और मंगल केंद्रमें होय ऐसे लग्नमें उपनयनसमय पक्षियोंके कूजनेका शब्द होय तो शिष्य और आचार्य का नाश हो ॥ ३१ ॥

करोति रुदितं केंद्रसंस्थे मंदेऽतुलान् गदान् ॥

लग्नात्केंद्रगते राहौ रंभ्रे मातृविनाशनम् ॥ ३२ ॥

उग्रकेंद्रगते केतौ तातवित्तविनाशनम् ॥

पंचदोषैर्युतं लग्नं शुभदं नोपनायने ॥ ३३ ॥

और केंद्रमें शनि होवे ऐसे समयमें रानेका शब्द सुनजाय तो अत्यंत रोग होवे । लग्नसे केंद्रमें विशेष करके ७ में राहु होय तो माताको नष्ट करै, उग्र केंद्रमें केतु होय तो पिताको और धनको नष्ट करै इन पांच दोषोंसे युक्त लग्न उपनयन संस्कारमें शुभ नहीं है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

विना वसंतऋतुना कृष्णपक्षे गलग्रहे ॥

अनाध्यायोपनीतश्च पुनः संस्कारमर्हति ॥ ३४ ॥

वसंतऋतुके विना कृष्णपक्षमें तथा गलग्रह योगमें उपनयन किया जाय तो फिर संस्कार करनेके योग्यहै अर्थात् इन योगोंमें संस्कार नहीं कराना ॥ ३४ ॥

त्रयोदश्यादिचत्वारि सप्तम्यादिदिनत्रयम् ॥
चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता ह्यष्टावेते गलग्रहाः ॥ ३५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायामुपनयनाध्याय-
श्वतुर्विंशतितमः ॥ २४ ॥

त्रयोदशी आदि चार तिथि और सप्तमी आदि ३ दिन एक
चतुर्थी ऐसे ये ८ तिथि गलग्रह योगसंज्ञक हैं ॥ ३५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामुपनयनाध्याय-
श्वतुर्विंशतितमः ॥ २४ ॥

छुरिकाबंधनं वक्ष्ये नृपाणां प्राक्करग्रहात् ॥
विवाहोक्तेषु मासेषु शुक्लपक्षेऽप्यनस्तगे ॥ १ ॥
शुक्रे जीवे च भूपुत्रे चंद्रताराबलान्विते ॥
मौजीबंधर्क्षतिथिषु कुजवर्जितवासरे ॥ २ ॥

अब छुरिकाबंधन मुहूर्त्तको कहते हैं । राजाओंने विवाहसे
पहिले छुरिका (कटारी) बांधनी चाहिये सो विवाह कर्ममें
कहेहुए महीनोंमें और शुक्लपक्षमें तथा गुरु शुक्रके उदयमें और
मंगलके उदयमें और चंद्रमा तथा ताराका बल होय, यज्ञोपवीतमें
कहे हुए नक्षत्र तिथि वार हों, मंगल विना अन्यवार होवें ॥ १ ॥ २ ॥

तेषां लग्नोदये कर्तुरष्टमोदयवर्जिते ॥
शुद्धेऽष्टमे विधौ लग्नात्षडष्टान्त्यविवर्जिते ॥ ३ ॥

तिन शुभ ग्रहोंकी राशिका लग्न हो और कर्त्ताकी जन्मराशिसे आठवें कोई ग्रह नहीं हो तथा वर्तमान लग्नसे आठवें कोई ग्रह नहीं हो लग्नसे ६ । ८ । १२ इन घरोंमें चंद्रमा नहीं हो ॥ ३ ॥

धनत्रिकोणकेंद्रस्थैः शुभैरुयायारिगैः परैः ॥

छुरिकाबंधनं कार्यमर्चयित्वामरान्पितृन् ॥ ४ ॥

धन, त्रिकोण (९ । ५) केंद्र इन स्थानोंमें शुभ ग्रह होवें और ३ । ११ । ६ इनमें पाप ग्रह होवे ऐसे मुहूर्त्तमें देवता तथा पितरोंका पूजन कर छुरिकाबंधन (कटारी बांधना) शुभ है ॥ ४ ॥

अर्चयेच्छुरिकां सम्यग्देवतानां च सन्निधौ ॥

ततः सुलग्ने बध्नीयात्कट्यां लक्षणसंयुताम् ॥ ५ ॥

देवताओंकी मूर्तियोंके सम्मुख छुरिका (कटारी) का पूजन करे फिर अच्छे लग्नमें अच्छे लक्षणवाली छुरिका (खड्ग) को कटिके बांधना चाहिये ॥ ५ ॥

तस्यास्तु लक्षणं वक्ष्ये यदुक्तं ब्रह्मणा पुरा ॥

संमितं छुरिकायामविस्तारेणैव ताडयेत् ॥ ६ ॥

अब जो पहिले ब्रह्माजीने कहाहै ऐसा खड्ग का लक्षण कहतेहैं खड्गकी लंबाईके बराबरके निशानेको उस नवीन खड्गसे ताड़ित करे ॥ ६ ॥

भाजितं गजसंख्यैश्च ह्यंगुलीः परिकल्पयेत् ॥

आयामाद्भागविस्तारप्रमाणेनैव छेदयेत् ॥ ७ ॥

फिर उस लंबे चिह्नमें आठका भाग दे अंगुल कल्पित करे अर्थात् अंगुलोंसे नांपकर आठसे कम तक रहें इतने चिह्नको ग्रहण

कर पीछे खड्गकी लंबाईके आधे विस्तारके अग्रभागसे उस चिह्नित वस्तुको काट देवे ॥ ७ ॥

तच्छेदखंडान्यायाः स्युर्ध्वजाये रिपुनाशनम् ॥

धूम्राये मरणं सिंहे जयश्चाये निरोगिता ॥

धनलाभो वृषेत्यंतं दुःखी भवति गर्दभे ॥ ८ ॥

फिर उस कटेहुए टुकड़ेके आय होतेहैं अर्थात् जितनी अंगुलका होय उसका फल कहतेहैं । एक अंगुलका होय तो ध्वज आय जाने शत्रुको नष्ट करताहै । और २ अंगुल धूम्रआय होय तो मरण, ३ सिंह होय तो जय (जीत) हो, चौथा श्वान आय होय तो आराम्यता हो, फिर ५ वृष आय हो, तो धनका लाभ, ६ गर्दभ आयमें अत्यंत दुःखी होवे ॥ ८ ॥

गजायेऽत्यंतसंप्रीतिर्ध्वाक्षे वित्तविनाशनम् ॥

खड्गपुत्रिकयोर्मानं गणयेत्स्वांगलेन तु ॥ ९ ॥

मानांगुले तु पर्यायानेकादशमितांस्त्यजेत् ॥

शेषाणामंगुलानां च फलानि स्युर्यथाक्रमात् ॥ १० ॥

पुत्रलाभः शत्रुवृद्धिः स्त्रीलाभो गमनं शुभम् ॥

अर्थहानिश्चार्थवृद्धिः प्रीतिः सिद्धिर्जयः स्तुतिः ॥ ११ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां छुरिकाबंधनाध्यायः

पंचविंशतितमः ॥ २५ ॥

सातवाँ गजआयमें सम्यक् प्रीतिहो और आठवाँ ध्वाक्ष आयमें धनका नाश हो खड्गके मानको और छारिकाके

मानको अपनी अंगुलीसे नापकरे फिर उनमें ११ अंगुल प्रमाण त्याग देवे अर्थात् ग्यारहका भागदेकर बाकी रखलेवे तल-चारकी अंगुल और मर्तिमें जितने अंगुलतक घात भयाहो उनको अंगुल करके जोडकर ११ का भागदेना, फिर १ बँचे तो पुत्रलाभ, २ बँचे तो शत्रुवृद्धि, ३ बँचे तो स्त्रीलाभ, ४ बँचे तो गमन, ५ बँचे तो शुभ फल, ६ बँचे तो द्रव्यहानि, ७ बँचे तो द्रव्यवृद्धि, ८ बँचे तो श्रीति, ९ बँचे तो सिद्धि, १० बँचे तो विजय, ११ बँचे तो स्तुति (यश) ऐसा फल जानना ॥९॥१०॥ ११ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां छुरिकाबंधनाध्यायः

पंचविंशतितमः ॥ २५ ॥

अथोत्तरायणे शुक्रजीवयोर्दृश्यमानयोः ॥

द्विजातीनां गुरोर्गैहान्निवृत्तानां यतात्मनाम् ॥ १ ॥

उत्तरायण सूर्य हो, बृहस्पति तथा शुक्रका उदय हो तब नियम रखनेवाले अर्थात् ब्रह्मचर्यमें रहनेवाले द्विजातियोंने गुरुके घरसे निवृत्त होना चाहिये ॥ १ ॥

चित्रोत्तरादितीज्यांत्यहरिमैत्रेण्डुभात्रिषु ॥

भेष्वकैर्द्विज्यशुक्रज्ञवारलग्नांशकेषु च ॥ २ ॥

अथवावस्थानक्षत्रवारलग्नांशकेष्वपि ॥

प्रतिपत्सर्वरिक्तामा सप्तमीतो दिनत्रयम् ॥ ३ ॥

हित्वान्यदिवसे कार्यं समावर्तनमंडनम् ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां समावर्तनाध्यायः

षड्विंशतितमः ॥ २६ ॥

चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अनुराधा, मृगशिर आदि तीन नक्षत्र, रवि, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, बुध इन वारोंविषे और इनहीकी राशियोंके लग्न तथा नवांशकों विषे अथवा यात्राके नक्षत्र वार लग्न नवांशकों विषे समावर्तन कर्म करना चाहिये और प्रतिपदा, संपूण रिक्तातिथि, अमावस्या, सप्तमी आदि तीनदिन इनको त्यागकर समावर्तन कर्म करना चाहिये (गृहस्थाश्रममें प्राप्त होना चाहिये) ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां समावर्तना-

ध्यायः षड्विंशतितमः ॥ २६ ॥

सर्वाश्रमाणामाश्रेयो गृहस्थाश्रम उत्तमः ॥

यतःसोऽपि च योषायां शीलवत्यां स्थितस्ततः ॥ १ ॥

संपूर्ण आश्रमोंका आश्रयरूप गृहस्थाश्रम कहाहै वह गृहस्थाश्रम भी अच्छी शीलवतीस्त्रीके आश्रयस्थित रहता है ॥ १ ॥

तस्यास्तच्छीललब्धिस्तु सुलग्नवशतः खलु ॥

पितामहोक्तां संवीक्ष्य लग्नशुद्धिं प्रवचम्यहम् ॥ २ ॥

और तिस स्त्रीके शील स्वभावकी प्राप्ति अच्छे लग्नके प्रभावसे होतीहै इसीलिये मैं ब्रह्माजीसे कहीहुई लग्नशुद्धिको कहताहूँ ॥ २ ॥

पुण्येहि लक्षणोपेतं सुखासीनं सुचेतसम् ॥

प्रणम्य देववत्पृच्छेद्देवज्ञं भक्तिपूर्वकम् ॥ ३ ॥

पवित्र शुभदिनविषे सुंदर लक्षणोंसे युक्त सुखपूर्वक स्वस्थ चित्तसे बैठेहुए जोतिषीको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर देवताकी तरह सत्कार करके पूछे ॥ ३ ॥

तांबूलफलपुष्पाद्यैः पूर्णाजलिरुपाग्रतः ॥

कर्ता निवेद्य दंपत्योर्जन्मराशिं स जन्मभम् ॥ ४ ॥

तांबूल, फल, पुष्प आदिकोंसे हाथोंको पूणकर (भेंट चढाकर) वह पृच्छक वरकन्याओंके जन्मके नक्षत्रको और जन्मकी राशि-को उस ज्योतिषीके आगे बतलादेवे ॥ ४ ॥

पृच्छकस्य भवेत्प्रार्थितुः षष्ठाष्टकोपि वा ॥

दंपत्योर्मरणं वाच्यमष्टमर्क्षीतरे यदि ॥ ५ ॥

तहां प्रश्नसमयके लग्नसे छठे आठवें स्थानपर चंद्रमा हो अथवा लग्नके नक्षत्रसे आठवें नक्षत्रपर होय तो स्त्रीपुरुषोंका (वर कन्याओंका) मरण होगा ऐसा कहना चाहिये ॥ ५ ॥

यदि लग्नगतश्चंद्रस्तस्मात्सप्तमगः कुजः ॥

विज्ञेयं भर्तृमरणं त्वष्टमेब्दे न संशयः ॥ ६ ॥

जो चंद्रमा प्रश्नलग्नमें हो और तिस चंद्रमासे सातवें स्थानपर मंगल हो तो आठवें वर्षमें निश्चय पतिका मरण होताहै ॥ ६ ॥

लग्नात्पंचमगः पापः शत्रुदृष्टः स्वनीचगः ॥

मृतपुत्रा तु सा कन्या कुलटा न तु संशयः ॥ ७ ॥

लग्नसे पांचवें स्थान पापग्रह शत्रुग्रहसे दृष्ट तथा अपनी नीचराशिपर स्थित होवे तो वह कन्या मृतवत्सा हो और व्यभिचारिणी हो इसमें संदेह नहीं ॥ ७ ॥

तृतीयपंचसप्तमयकर्मगश्च निशाकरः ॥

लग्नात्करोति संबंधं दंपत्योर्गुरुवीक्षितः ॥ ८ ॥

तीसरे, पांचवें, सातवें, ग्यारहवें तथा दशवें स्थानपर चंद्रमा हो
और बृहस्पतिकरके दृष्ट हो तो स्त्री पुरुषका संबंध (मेल)
करताहै ॥ ८ ॥

तुलागो कर्केटे लग्ने संस्थाः शुक्रेंदुसंयुताः ॥

वीक्षिताः स्त्रीग्रहा नृणां कन्यालाभो भवेत्तदा ॥ ९ ॥

प्रश्नसमय तुला, वृष, कर्क, लग्नमें स्त्रीग्रह स्थित होवें और
शुक्र चंद्रमासे युक्त होवें तो तथा दृष्ट होवें तो मनुष्योंको कन्याका
लाभ जरूर कहना ॥ ९ ॥

शुक्रेंदू युग्मराशिस्थौ युग्मांशकगतौ तदा ॥

बलिनौ पश्यतो लग्नं कन्यालाभो भवेत्तदा ॥ १० ॥

प्रश्नसमय शुक्र और चंद्रमा युग्मराशिपर स्थित होवें अथवा
युग्मराशिके नवांशकपर स्थित बली होकर लग्नको देखते होवें
तो वरको कन्याका लाभ कहना ॥ १० ॥

अयुग्मराशिगौ चेतौ शुक्रेंदू बलिनौ तथा ॥

पश्यतो लग्नमेतौ चेद्भरलाभो भवेत्तदा ॥ ११ ॥

जो वे दोनों चंद्रमा शुक्र बली होकर लग्नको देखतेहों और
विषम राशिपर स्थित होवें तो कन्याको अच्छे वरका लाभ
कहना ॥ ११ ॥

एवं स्त्रीणां भर्तृलब्धिः पुंश्रैरवलोकिते ॥

कृष्णपक्षे प्रश्नलग्नाद्युग्मराशौ शशी यदि ॥

पापदृष्टेथ वा रंध्रे न संबन्धो भवेत्तदा ॥ १२ ॥

ऐसेही पुरुष ग्रहोंकरके लग्न दृष्ट होय तोभी कन्याओंको वरकी प्राप्ति कहना कृष्णपक्षमें प्रश्नलग्नसे युग्मराशिपर चंद्रमा स्थित हो प्रापग्रहोंसे दृष्ट अथवा सातवें स्थान होवे तो संबंध नहीं हो अर्थात् विवाह नहीं होगा ॥ १२ ॥

पुण्यैर्निमित्तशकुनैः प्रश्नकाले तु मंगलम् ॥

दंपत्योरशुभैरैतैरशुभं सर्वतो भवेत् ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां विवाहप्रश्नलग्नध्यायः

सप्तविंशतितमः ॥ २७ ॥

प्रश्नसमय शुभशकुन होवे तो मंगल जानना और अशुभशकुन होवे तो वरकन्याओंको अशुभ फल होगा ऐसा कहना ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां विवाहप्रश्नलग्नध्यायः

सप्तविंशतितमः ॥ २७ ॥

पंचांगशुद्धिदिवसे चंद्रताराबलान्विते ॥

विवाहभस्योदये वा कन्यावरणामिष्यते ॥ १ ॥

पंचांगशुद्धिके दिन चंद्रताराका बल होनेके दिन विवाहके नक्षत्र और लग्नविषे कन्यावरण (संबंध) करना चाहिये ॥ १ ॥

भूषणैः पुष्पतांबूलैः फलगंधाक्षतादिभिः ॥

शुक्लांबरगीतवाद्यैर्विप्राशीर्वचनैः सह ॥ २ ॥

कारयेत्कन्यकागेहे वरणं प्रीतिपूर्वकम् ॥

तदा कुर्यात् पिता तस्याः प्रदानं प्रीतिपूर्वकम् ॥ ३ ॥

आभूषण, पुष्प, तांबूल, फल, गंध, अक्षत, श्वेतवस्त्र इन्होंसे युक्त हो गीतवाजा आदि मंगल तथा ब्राह्मणोंके आशीर्वादोंसे युक्त कन्याके घरमें उत्सव कर कन्याका पिता वरण करै तब पीछे तिस कन्याका पिता प्रीतिपूर्वक कन्याका प्रदान (वाग्दान) करै ॥ २ ॥ ३ ॥

कुलशीलवर्योरूपवित्तविद्यायुताय च ॥

वराय रूपसंपन्नां कन्यां दद्याद्यवीयसीम् ॥ ४ ॥

कुल, शील, अवस्था, रूप, धन, विद्या इन्होंसे युक्त वरके वास्ते वरसे छोटी उमरवाली सुरूपवती कन्याको देवे ॥ ४ ॥

संपूज्य प्रार्थयित्वा तां शचीं देवीं गुणाश्रयाम् ॥

त्रैलोक्यसुंदरीं दिव्यां गंधमाल्यांबरावृताम् ॥ ५ ॥

गुणोंकी आधाररूप, इंद्राणी देवीको पूजकर तिसकी प्रार्थना कर त्रैलोक्य सुंदरी, दिव्य गंध मालाओंवाली सुंदरवस्त्रोंको धारण किये हुए ॥ ५ ॥

सर्वलक्षणसंयुक्तां सर्वाभरणभूषिताम् ॥

अनर्घ्यमणिमालाभिर्भासयन्तीं दिगंतरान् ॥ ६ ॥

संपूर्ण लक्षणोंसे युक्त, संपूर्ण आभूषणोंसे विभूषित, बहुत उत्तम मणियोंकी मालाओंसे दिशाओंको प्रकाशित करती हुई ॥ ६ ॥

विलासिनीसहस्राद्यैः सेव्यमानामहर्निशम् ॥

एवंविधां कुमारीं तां पूजांते प्रार्थयेदिति ॥ ७ ॥

हजारों स्त्रियोंसे सेवित ऐसी कमारी इंद्राणी देवीको पूजिके अंतमें ऐसी प्रार्थना करै ॥ ७ ॥

देवीन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेंद्रप्रियभाषिणि ॥

विवाहं भाग्यमारोग्यं पुत्रलाभं च देहि मे ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसं० कन्यावरणाध्यायोऽष्टाविंशतितमः २८ ॥

हे देवि! हे इंद्राणि ! हे देवेंद्रप्रियभाषिणी ! तुमको नमस्कार है विवाह
सौभाग्य, आरोग्य, पुत्रलाभ ये मुझको देवो ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदसंहिताभाषाटीकायां कन्यावर-
णाध्यायोऽष्टाविंशतितमः ॥ २८ ॥

अथ विवाहप्रकरणम् ।

युग्मेब्दे जन्मतः स्त्रीणां प्रीतिदं पाणिपीडनम् ॥

एतत्पुंसामयुग्मेब्दे व्यत्यये नाशनं तयोः ॥ १ ॥

जन्मसे पूरे सम वर्षमें कन्याका विवाह करना शुभहै और वरको
अयुग्म (ऊरा) वर्ष होना चाहिये इससे विपरीत होवे तो तिन्हों
का नाश होताहै ॥ १ ॥

माघफाल्गुनवैशाखज्येष्ठमासाः शुभप्रदाः ॥

मध्यमः कार्तिको मार्गशीर्षो वै निदिताः परे ॥ २ ॥

माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ इन महीनोंमें विवाह करना शुभहै
और कार्तिक, मार्गशिर मध्यम हैं अन्यमहीने विवाहमें अशुभ हैं ॥ २ ॥

न कदाचिद्दशर्क्षेषु भानोराद्राप्रवेशनात् ॥

विवाहं देवतानां च प्रतिष्ठां चोपनायनम् ॥ ३ ॥

आर्द्रा आदि दश नक्षत्रोंपर सूर्य प्रवेश होवे तब (चातुर्मासमें)
कभी विवाह, देवताओंकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत ये नहीं करने
चाहिये ॥ ३ ॥

नास्तंगते सिते जीवे न तयोर्बालवृद्धयोः ॥

न गरौ सिंहराशिस्थे सिंहांशकगतेपि वा ॥ ४ ॥

बृहस्पति व शुक्रके अस्त होनेमें तथा तिन्होंकी बाल और वृद्ध अवस्था होनेके समय और सिंहके बृहस्पतिविषे अथवा सिंह-राशिके नवांशमें बृहस्पति होवे तब भी ये विवाहादिक नहीं करने चाहिये ॥ ४ ॥

पश्चात् प्रागुदितः शुक्रः पंचसप्तदिनं शिशुः ॥

अस्तकाले तु वृद्धत्वं तद्भद्रदेवगुरोरपि ॥ ५ ॥

पूर्वमें तथा पश्चिममें शुक्र उदय हो तब सात दिन तथा पांच दिन बाल संज्ञक रहता है और अस्त कालसे पांच सात दिन पहले वृद्ध संज्ञा होजाती है तैसेही बृहस्पतिकी भी संज्ञा जाननी चाहिये ॥ ५ ॥

अप्रबुद्धो हृषीकेशो यावत्तावन्न मंगलम् ॥

उत्सवे वासुदेवस्य दिवसे नान्यमंगलम् ॥ ६ ॥

जबतक देव नहीं उठें तबतक मंगल कार्य नहीं करना और देव उठनी एकादशीको विवाहादि मंगल करना शुभदायक नहीं है ॥ ६ ॥

न जन्ममासे जन्मर्क्षे न जन्मदिवसेपि च ॥

नाद्यगर्भसुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहम् ॥ ७ ॥

प्रथम संतान (जेठी संतान) का विवाह जन्ममास तथा जन्मनक्षत्र तथा जन्मतिथि विषे नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥

नैवोद्गाहो ज्येष्ठपुत्रीपुत्रयोश्च परस्परम् ॥

ज्यैष्ठमासजयोरेकेज्यैष्ठे मासे हि नान्यथा ॥ ८ ॥

ज्येष्ठ वर और जेठी संतानकी कन्या इन दोनोंका तथा ज्येष्ठमासमें उत्पन्न हुए वरकन्याओंका विवाह ज्येष्ठमासमें नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥

उत्पातग्रहणादूर्ध्वं सप्ताहमखिलग्रहे ॥

नाखिले त्रिदिनं चर्क्षं तदा नेष्टमृतुत्रयम् ॥ ९ ॥

वज्रपात आदि उत्पात तथा सर्व ग्रहणके अनंतर सात दिन तक विवाहादि मंगलकार्य करना शुभ नहीं है । सर्व ग्रहण नहीं हो तो तीन दिन पीछेतक और ऋतुकालके उत्पातमें भी तीन दिन पीछेतक शुभ कार्य नहीं करना ॥ ९ ॥

ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वं पश्चात् ग्रस्तोदये तथा ॥

संध्याकाले त्रिदिनं निःशेषे सप्तसप्त च ॥ १० ॥

ग्रस्तास्त ग्रहणसे पहिले तीन दिन और ग्रस्तोदय ग्रहणसे पीछे तीन दिन और संध्याकालमें उत्पात होय तो तीन २ दिन बाकी सर्व दिनमें सात २ दिन वर्जित जानो ॥ १० ॥

मासांते पंचदिवसांस्त्यजेद्रिक्तां तथाष्टमीम् ॥

षष्ठीं च परिघाद्यर्द्धं व्यतीपातं सवैधृतिम् ॥ ११ ॥

मासांतमें पांच दिन, रिक्ता तिथि, अष्टमी षष्ठी परिघ योग के आदिका आधा भाग वैधृति, व्यतीपात संपूर्ण, इनको विवाहदिक संपूर्ण कार्योंमें वर्ज देवे ॥ ११ ॥

पौष्णभञ्जुत्तरामैत्रमरुच्चंद्रार्कपैतृभम् ॥

समूलभं विधेर्भे च स्त्रीकरग्रह इष्यते ॥ १२ ॥

रेवती, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाति, मृगशिर, हस्त, मघा, रोहिणी, मूल इन नक्षत्रोंमें विवाह करना चाहिये ॥ १२ ॥

विवाहे बलमावश्यं दंपत्योर्गुरुसूर्ययोः ॥

तत्पूजा यत्नतः कार्या दुष्फलप्रदयोस्तयोः ॥ १३ ॥

विवाहमें वर कन्याको सूर्य बृहस्पतिका बल अवश्य देखना चाहिये और जो ये अशुभ फलदायक हों तो यत्न करके इन्होंकी पूजा अवश्य करनी चाहिये ॥ १३ ॥

गोचरं वा वेधजं चाष्टवर्गरूपजं बलम् ॥

यथोत्तरं बलाधिक्यं स्थूलं गोचरमार्गजम् ॥ १४ ॥

गोचर बल, वेधरहितका बल, अष्टवर्गबल ये सब बल यथोत्तर क्रमसे बलाधिक्य हैं और गोचर मार्गसे स्थूल बल है ॥ १४ ॥

चंद्रताराबलं वीक्ष्य ग्रहपश्वांगजं बलम् ॥

तिथिरेकगुणा वारो द्विगुणस्त्रिगुणं च भम् ॥ १५ ॥

चंद्र ताराबल, ग्रहबल, पशुके शकुनका बल तथा अंगस्फुरण-काभी बल कहा है । तिथि एकगुणा बल करती है, वार दुगुणा बल और नक्षत्र तिगुना बल करता है ॥ १५ ॥

योगश्चतुर्गुणः पंचगुणं तिथ्यर्धसंज्ञकम् ॥

ततो मुहूर्तो बलवांस्ततो लग्नं बलाधिकम् ॥ १६ ॥

योग चार गुणा, तिथ्यर्द्ध (करण) पांचगुना बल करता है, जिससे अधिक दुषडिया मुहूर्त, तिससे अधिक बली लग्न है ॥ १६ ॥

ततोतिबलिनी होरा द्रेष्काणोतिबली ततः ॥

ततो नवांशो बलवान् द्वादशांशो बली ततः ॥ १७ ॥

तिसस बली होरा, तिससे बली द्रेष्काण है, द्रेष्काणसे बली नवांशक है, नवांशकसे बली द्वादशांश है ॥ १७ ॥

त्रिंशांशो बलवांस्तस्माद्दीक्ष्यते तद्बलाबलम् ॥

शुभयुक्तेक्षिताः शस्ता विवाहेऽखिलराशयः ॥ १८ ॥

द्वादशांशसे बली त्रिंशांश है, ऐसे बलाबल विचारना चाहिये विवाहमें संपूर्ण राशि शुभग्रहोंसे युक्त और दृष्ट होनेसे शुभदायक होती हैं ॥ १८ ॥

चंद्रार्केज्यादयः पंच यस्य राशेस्तु खेचराः ॥

इष्टास्तच्छुभदं लग्नं चत्वारोपि बलान्विताः ॥ १९ ॥

चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति आदि पांच ग्रह जिस राशिके स्वामी हैं, वह लग्न शुभदायक है, और बलान्वित हुए चार ग्रह शुभ होने लहभी लग्न शुभदायक है ॥ १९ ॥

जामित्रशुद्धयेकविंशन्महादोषविवर्जितम् ॥

एकविंशतिदोषाणां नामरूपफलानि च ॥ २० ॥

पितामहोक्तान्यावीक्ष्य वक्ष्ये तानि समासतः ॥

पंचांगशुद्धिरहितो दोषस्त्वाद्यः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥

यामित्र दोषकी शुद्धि करना और इक्कीस महादोषोंको वर्ज

इक्कीस दोषोंके नाम रूप फलको ब्रह्माजीसे कहे हुएको

पमात्रसे कहते हैं । पंचांगशुद्धि नहीं होना यह प्रथम

॥ २० ॥ २१ ॥

उदयास्तशुद्धिहीनो द्वितीयः सूर्यसंक्रमः ॥

तृतीयः पापषड्वर्गो भृगुः षष्ठे कुजोष्टमे ॥ २२ ॥

गंडांतकर्तरीरिःषडष्टदुश्च संग्रहः ॥

दंपत्योरष्टमं लग्नं राशिर्विषवटीभवः ॥ २३ ॥

दुर्मुहूर्तो वारदोषः खार्जुरीकः समांग्रिजः ॥

ग्रहणोत्पातभं क्रूरविद्धक्षं क्रूरसंयुतम् ॥ २४ ॥

कुनवांशो महापातो वैधृतिश्चैकविंशतिः ॥

तिथिवारक्षयोगानां करणस्य च मेलनम् ॥ २५ ॥

पंचांगमस्य संशुद्धिः पंचांगं समुदाहृतम् ॥

यस्मिन्पंचांगदोषोस्ति तस्मिन्नङ्गं निरर्थकम् ॥ २६ ॥

उदयास्तशुद्धिहीन यह दूसरा दोष है सूर्यसंक्रम ३, पाप षड्वर्ग ४, छठे घर शुक्र हो यह ५दोष है। आठवें मंगल हो यह ६ दोष है गंडांत दोष ७, कर्तरी योग ८, और १२।६।८ इन घरोंमें चंद्रमा हो यह ९, दोष है और स्त्रीपुरुषका अष्टमलग्न १०, संग्रह दोष ११, राशिदोष १२, विषवटी १३, दुष्ट मुहूर्त १४, वारदोष १५, खार्जुरीक समांग्रिज अर्थात् एकार्गल दोष १६, ग्रहणनक्षत्र तथा उत्पातका नक्षत्र १७, पापग्रहवेध १८, पापग्रहयुक्त १९, दुष्टनवांशक २०, वैधृति तथा व्यतीपात ये २१ इक्कीस महादोष कहे हैं तहां तिथी १ वार २ नक्षत्र ३ योग ४ करण ५ इन्होंका मेल करना इन्होंकी शुद्धि देखना यह पंचांग कहाता है। जिसमें पंचांगदोष हो उस दिन विवाह लग्न करना निरर्थक है “ यह एक पंचांग दोषका

लक्षण कहा और बाकी रहे २० दोषोंकेभी लक्षण कहते हैं
॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

लग्नलग्नांशकौ स्वस्वपतिना वीक्षितौ शुभौ ॥

न चेद्रान्योन्यपतिना शुभमित्रेण वा तथा ॥ २७ ॥

वरस्य मृत्युः परमो लग्नघूननवांशकौ ॥

नैवं तैर्वीक्षितयुतौ मृत्युर्वध्वाः करग्रहे ॥ २८ ॥

लग्न और लग्नका नवांशक ये दोनों अपने २ स्वामीसे दृष्ट होवें तथा युक्त होवें तो शुभ है अथवा आपसमें परस्पर पतिसे तथा शुभ मित्र ग्रहसे दृष्टयुक्त होवें तोभी शुभ है, और लग्न तथा लग्नमें समम घर तथा इन घरोंके नवांशकोंके स्वामी लग्न तथा समम घरको देखते नहीं हो और दृष्टिभी नहीं करते हों तथा इनके शुभ मित्रभी दृष्टि नहीं करते होवें तो उसलग्नमें विवाह किया जाय तो वरकी तथा कन्याकी मृत्यु होती है। लग्नकी शुद्धि नहीं होनेसे वरकी मृत्यु और सममकी शुद्धि नहीं होनेसे कन्याकी मृत्यु होती है ऐसे यह उदयास्त शुद्धि रहित दोषका लक्षण है ॥ २७ ॥ २८ ॥

त्याज्या सूर्यस्य संक्रांतिः पूर्वतः परतः सदा ॥

विवाहादिषु कार्येषु नाड्यः षोडशषोडश ॥ २९ ॥

सूर्यकी संक्रांति अर्के उससे १६ घड़ी पहली और १६ घड़ी गिंछेकी त्याग देनी चाहिये यह विवाहादिकोंमें अशुभ कही है यह संक्रांति दोषका लक्षण है ॥ २९ ॥

त्रिंशद्भागत्मकं लग्नं होरा तस्यार्धमुच्यते ॥

लग्नत्रिभागो द्रेष्काणो नवमांशो नवांशकः ॥ ३० ॥

लग्न तीस अंशका होता है तिसका आधा भाग (१५ अंश) को होरा कहते हैं । लग्नके तीसरे भागकी द्रेष्काण संज्ञा है लग्नके नवमांशको नवांशक कहते हैं ॥ ३० ॥

द्वादशांशो द्वादशांशः त्रिंशांशस्त्रिंशदंशकः ॥

सिंहस्याधिपतिर्भानुश्चंद्रः कर्कटकेश्वरः ॥ ३१ ॥

बारहवें अंश करलेनेको द्वादशांश, त्रिंशांश तीसवेही अंशका होता है इनके देखनेकी विधि आगे चक्रमें स्पष्ट लिखतेहैं । सिंहका स्वामी सूर्य और कर्कका स्वामी चंद्रमा है ॥ ३१ ॥

मेषवृश्चिकयोर्भौमः कन्यामिथुनयोर्बुधः ॥

धनुर्मीनद्वयोर्मित्री शुक्रो वृषतुलेश्वरः ॥ ३२ ॥

मेष और वृश्चिकका मालिक मंगल है, कन्या और मिथुनका स्वामी बुध, धनु और मीनका स्वामी बृहस्पति, वृष और तुलाका स्वामी शुक्र है ॥ ३२ ॥

शनिर्मकरकुंभेश इत्येते राशिनायकाः ॥

होरेनविध्वोरोजराशौ समभे चंद्रसूर्ययोः ॥ ३३ ॥

मकर कुंभका स्वामी शनिहै ऐसे ये राशियोंके स्वामी कहे हैं तहां विषम राशिमें पहले १५ अंशतक सूर्यकी होरा, पीछे चंद्रमाकी होरा और समराशिमें पहले चंद्रमाकी पीछे सूर्यकी होरा होतीहै ३३

(१५४)

नारदसंहिता ।

होराचक्रम् ।

विषमराशिः	मे.	मि.	सि.	तु.	ध.	कुं.
	१५	१५	१५	१५	१५	१५
	२.		२.	२.	२.	२.
	३०	३०	३०	३०	३०	३०
	चं.	चं.	चं.	चं.	चं.	चं.
समराशिः	वृ.	कर्क	कन्या	वृश्चि.	म.	मी.
	१५	१५	१५	१५	१५	१५
	चं.	चं.	चं.	चं.	चं.	चं.
	३०	३०	३०	३०	३०	३०
	सु.	सु.	सु.	सु.	सु.	सु.

स्युर्द्रेष्काणे लग्नपंचनंदराशीश्वराः क्रमात् ॥

आरभ्य लग्नराशेस्तु द्वादशाशेश्वराः क्रमात् ॥

राशिके १० अंशतक लग्नस्वामी फिर २० अंशतक लग्नसे ५
घरका स्वामी फिर ३० अंशतक लग्नसे ९ घरके स्वामीका द्रेष्का
ण होता है ऐसा क्रम जानना और लग्न राशिसे लेकर द्वादशांश
अर्थात् २॥ अंशका पति ग्रह यथाक्रमसे जानना जैसे मेषमे
२॥ अंशतक मंगलका फिर ५ अंशतक शुकका द्वादशांश है ॥ ३४॥

अथ द्रेष्काणचक्रम् ।

ल.	१०अं.	मे.	२ बु.	मि.	४ अं.	सि.	५ सु.	कन्या	७ शु.	वृ.	६ मं.	ध.	९ गु.	म.	१०श.	कुं.	११श.	मी.	१२ गु.
	१०अं.	५ र.	७ शु.	७ शु.	८ मं.	९ गु.	१०श.	६ बु.	११श.	१२ गु.	११श.	२ बु.	१ मं.	२ शु.	३ बु.	११श.	३ बु.	१२ गु.	४ अं.
	१०अं.	९ गु.	१०श.	११श.	१२ गु.	१ मं.	२ शु.	३ बु.	४ अं.	५ र.	६ बु.	७ शु.	८ मं.	९ गु.	१०श.	११श.	१२ गु.	१३ अं.	१४ मं.

कुजार्काज्यज्ञशुक्राणां बाणेष्वष्टाद्रिमार्गणाः ॥

भागाः स्युर्विषमे ते तु समराशौ विपर्ययात् ॥ ३६

राशिके ५ अंशों तक मंगल, फिर ५ अंशोंतक शनि, फिर ८ अंशोंतक बृहस्पति, फिर ७ अंशोंतक बुध, फिर ५ अंशोंतक शुक्र। ये विषमराशिमें त्रिंशांशपति होते हैं और समराशिमें इतनेही अंशों

(१५६)

नारदसंहिता ।

के क्रमसे विपर्यय होते हैं अर्थात् शुक्र, बुध, गुरु, शनि, मंगल ये त्रिंशांशपति होते हैं ॥ ३

अथ त्रिंशांशचक्रम् ।

		समराशीत्रिंशांशः					
		मी.	म.	वृश्चि.	कन्या	कर्क	वृ.
अंश	मे.	५ मं.	५ श.	८ शु.	७ बु.	५ श.	५ मं.
	मि.	मं.	श.	शु.	बु.	शु.	शु.
	सिं.	मं.	श.	शु.	बु.	शु.	शु.
	तु.	मं.	श.	शु.	बु.	शु.	शु.
	घ.	मं.	श.	शु.	बु.	शु.	शु.
	कुं.	मं.	श.	शु.	बु.	शु.	शु.
	वृ.	५ शु.	७ बु.	८ शु.	५ श.	५ मं.	
	कर्क	शु.	बु.	शु.	श.	मं.	
	कन्या	शु.	बु.	शु.	श.	मं.	
	वृश्चि.	शु.	बु.	शु.	श.	मं.	
	म.	शु.	बु.	शु.	श.	मं.	
	मी.	शु.	बु.	शु.	श.	मं.	

भृगुः षष्ठाह्वयो दोषो लग्नात्षष्ठगते सिते ॥

उच्चगे शुभसंयुक्ते तल्लग्नं सर्वदा त्यजेत् ॥ ३६ ॥

लग्नसे छठे स्थान राहु होवे वह भृगु षष्ठाह्वयनामक दोष होता है वह लग्न उच्चग्रहसे युक्त तथा शुभग्रहसे युक्त हो तो भी सर्वथा त्याग देना चाहिये ॥ ३६ ॥

कुजाष्टमे महादोषो लग्नादष्टमग कुजे ॥

शुभत्रययुतं लग्नं त्यजेत्तुंगगते यदि ॥३७॥

लग्नसे आठवें स्थान मंगल हो वहभी महादोष कहा है वह लग्न तीन शुभग्रहोंसे युक्त तथा उच्चग्रहसे युक्त हो तौभी त्याग देना चाहिये ॥ ३७ ॥

पूर्णानंदाख्ययोस्तिथ्योः संधिर्नाडीद्वयं सदा ॥

गंडांतं मृत्युदं जन्म यात्रोद्वाहव्रतादिषु ॥ ३८ ॥

पूर्णा नंदा इन तिथियोंकी संधिमें दो घड़ी अर्थात् पूर्णिमाके अंतकी एक घड़ी और प्रतिपदाकी आदिकी १ घड़ी गंडांत कही है वह जन्म, यात्रा, विवाह आदिकोमें मृत्युदायक जाननी पंचमी आदि सब पूर्णा और संपूर्ण नंदा तिथियोंकी घटी जानलेनी ॥ ३८ ॥

कुलीरसिंहयोः कीटचापयोर्भीनमेषयोः ॥

गंडान्तमंतरालं स्याद्द्वटिकार्धं मृतिप्रदम् ॥ ३९ ॥

और कर्क, सिंह, वृश्चिक, धन, मीन, मेष इन लग्नोंकी संधिकी गंडांत संज्ञक जाननी वहभी मृत्युकारक हैं ॥ ३९ ॥

सार्पेन्द्रपौष्णभेष्वंत्यं नाडीयुग्मं तथैव च ॥

तदग्रभेष्वाद्यपादभानां गंडांतसंज्ञिकाः ॥ ४० ॥

और आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती इन्होंके अंतकी दो घड़ी और इन-
से अगले नक्षत्रोंके प्रथमचरणोंकी दो घड़ी ऐसे ये नक्षत्रोंकी ४
घड़ी गंडांत संज्ञक हैं ॥ ४० ॥

उग्रं च संवेत्रितयं गंडांतद्वितयं महत् ॥

मृत्युप्रदं जन्मयानविवाहस्थापनादिषु ॥ ४१ ॥

ऐसे यह तीन प्रकारका गंडांत दारुण स्वराव है जन्म, यात्रा,
विवाह इन्होंमें अशुभ कहा है ॥ ४१ ॥

“लग्नस्य पृष्ठाग्रगयोरसाध्वोः सा कर्तरी स्या-
दृजुवक्रगत्योः ॥ तावेव शीघ्रं यदि वक्रचारौ नो
कर्तरीति न्यगदन्मुनीन्द्रः ॥ ४२ ॥

लग्नसे बारहवें स्थान मार्गी कोई क्रूर ग्रह होवे और दूसरे
स्थानमें वक्रगतिवाला कोई क्रूरग्रह होय तो कर्तरी नामक अशुभ
योग होता है यदि वे दोनों ग्रह शीघ्र गतिवाले तथा वक्रगतिही
होंवें तो कर्तरी योग नहीं होता ऐसा यह वसिष्ठजी मुनिका
मत है ॥ ४२ ॥”

लग्नाभिमुखयोः पार्श्वग्रहयोरुभयस्थयोः ॥

सा कर्तरीति विज्ञेया दंपत्योर्मृतिकर्तरी ॥ ४३ ॥

लग्नसे आगे पीछे दोनों बराबरोंमें पापग्रह होंवें वह कर्तरीयोग
है स्त्रीपुरुषकी मृत्यु करता है ॥ ४३ ॥

अपि सौम्यग्रहैर्युक्तं गुणैः सर्वैः समन्वितम् ॥

व्ययाष्टरिपुगे चंद्रे लग्नदोषः स संज्ञितः ॥ ४४ ॥

और सौम्य ग्रहोंसे युक्त तथा सब गुणोंसे युक्त लग्न हो भी

कर्त्तरी योगमें विवाह नहीं करना और १२।८।६ चंद्रमा हो तो भी लग्नमें दोष कहा है ॥ ४४ ॥

तल्लग्रं वर्जयेद्यत्नाजीवशुक्रसमन्वितम् ॥

उच्चगे नीचगे वापि मित्रगे शत्रुराशिगे ॥ ४५ ॥

वह लग्न बृहस्पति शुक्रसे युक्त होय तो भी यत्नसे वर्ज देना चाहिये उच्चका हो अथवा नीच ग्रहसे युक्त मित्रराशिका अथवा शत्रुराशिका कैसाही चंद्रमा हो परंतु ^{उच्चगो} ^{नीचगो} ^{मित्रगो} ^{शत्रुराशिगो} स्थानोंमें वर्ज देना चाहिये ॥ ४५ ॥

अपि सर्वगुणोपेतं दंपत्योर्निधनप्रदम् ॥

शशांके पापसंयुक्ते दोषः संग्रहसंज्ञकः ॥ ४६ ॥

जो सब गुणोंमें युक्त लग्न हो तोभी स्त्री पुरुषोंकी मृत्यु करता है और चंद्रमा पापग्रहोंसे युक्त हो वह संग्रह दोष कहा है ॥ ४६ ॥

तस्मिन्संग्रहदोषे तद्विवाहं नैव कारयेत् ॥

सूर्येण संयुक्ते चंद्रे दारिद्र्यं भवति ध्रुवम् ॥ ४७ ॥

तिस संग्रह दोषमें विवाह नहीं करना सूर्यके साथ चंद्रमा हो तो निश्चय दारिद्र्य हो ॥ ४७ ॥

कुजेन मरणं व्याधिर्बुधेन त्वनपत्यता ॥

दौर्भाग्यं गुरुणा चैव सापत्न्यं भार्गवेन तु ॥ ४८ ॥

मंगलका साथ हो तो मरण वा रोग, बुधकी साथ हो तो संतान नहीं हो, बृहस्पतिका साथ हो तो दुर्भाग्य, शुक्रका साथ हो तो शत्रुका दुःख हो ॥ ४८ ॥

प्रव्रज्या रविपुत्रेण राहुणा कलहः सदा ॥

केतुना संयुते चंद्रे नित्यं कष्टं दरिद्रता ॥ ४९ ॥

शनिका साथ हो तो संन्यास धारण हो, राहुका साथ हो तो कलह, केतुके साथ चंद्रमा हो तो सदा कष्ट दरिद्रता होवे ॥ ४९ ॥

पापद्रययुते चंद्रे दंपत्योर्मरणं भवेत् ॥

पापग्रहयुते चंद्रे नीचस्थे राहुराशिगे ॥ ५० ॥

दो पापग्रहोंसे युक्त चंद्रमा हो तो कन्या वरकी मृत्यु होवे चंद्रमा पापग्रहोंसे युक्त हो नीचका हो राहुकी राशिपर हो तो ॥ ५० ॥

दोषायनं भवेच्छुभं दंपत्योर्मरणप्रदम् ॥

स्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो वा मित्रग्रहगतो विधुः ॥ ५१ ॥

वह लग्न दोषोंका स्थान होजाता है स्त्री पुरुषकी मृत्यु करता है और अपने क्षेत्रमें चंद्रमा हो तथा अपनी उच्चराशिका अथवा अपने मित्रके घरमें हो तो ॥ ५१ ॥

युतिदोषाय न भवेदंपत्योः श्रेयसे तदा ॥

दंपत्योः षष्ठं लग्नं त्वष्टमो राशिरेव च ॥ ५२ ॥

यदि लग्नगतः सोपि दंपत्योर्मरणप्रदः ॥

स राशिः शुभयुक्तोपि लग्नं वा शुभसंयुतम् ॥ ५३ ॥

युतिदोष नहीं होता स्त्री पुरुषको शुभदायकहै स्त्री पुरुषकी लग्नसे आठवी राशिका लग्न हो अथवा स्त्री पुरुषकी राशिसे आठवी राशिका लग्न हो तो स्त्री पुरुषकी मृत्यु होती है वह राशि तथा लग्न शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तोभी अशुभ है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

लग्नं विवर्जयेद्यत्नात्तदंशांश्च तदीश्वरान् ॥

दंपत्योर्द्वादशं लग्नं राशिर्वा यदि लग्नगम् ॥ ५४ ॥

उस लग्नको यत्नसे वर्ज देवे तिसके नवांश और तिसके स्वामी भी अशुभ होते हैं स्त्री पुरुषकी राशिका लग्न हो अथवा उनके जन्म लग्नसे १२ राशि लग्न होवे तो ॥ ५४ ॥

अर्थहानिस्तयोर्यस्मात्तदंशस्वामिनं त्यजेत् ॥

जन्मराशुद्गमे चैव जन्मलग्नोदये शुभा ॥ ५५ ॥

तयोरुपचयस्थाने यदा लग्नं गतं शुभम् ॥

खमार्गणा वेदपक्षाः खरामाः शून्यसागराः ॥ ५६ ॥

वार्द्धिचंद्रा रूपदस्त्राः खरामा व्योमबाहवः ॥

द्विरामाः खाम्नयः शून्यदस्त्रकुंजरभूमयः ॥ ५७ ॥

द्रव्यकी हानि होतीहै इसलिये तीन लग्नोंके नवांशकके स्वामी ग्रहोंको लग्नमें त्याग देवे और जन्मकी राशिपर तथा जन्मलग्नपर शुभ ग्रह होवें और तिन्होंसे उपचय स्थानमें (३।११।५) लग्न हो तो शुभ है यह राशिदोष कहा है अब विषघटी दोष कहते हैं अश्विनीनक्षत्रमें ५० घडी, भरणीमें २४, कृत्तिकामें ३०, रोहिणीमें, ४० घडी, मृगशिरमें १४, आर्द्रामें २१, पुनर्वसुमें ३०, पुष्यमें २०, आश्लेषामें ३२, मघामें ३०, पूर्वाफा० २०, उत्तराफा० १८ घडी ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

रूपपक्षा व्योमदस्त्रा वेदचंद्राश्चतुर्दश ॥

शून्यचंद्रा वेदचंद्राः षट्पंच वेदबाहवः ॥ ५८ ॥

शून्यदस्त्राः शून्यचंद्राश्शून्यचंद्रा गजेंदवः ॥

तर्कचंद्रा वेदपक्षाः खरामाश्चाश्विनीक्रमात् ॥ ५९ ॥

हस्तमें २१, चित्रा २०, स्वाति १४, विशाखामें १४, अनुराधा १०, ज्येष्ठा १४, मूल ५६, पूर्वाषाढमें २४, उत्तराषाढमें २०, श्रवण० १०, धनिष्ठामें १०, शतभिषा० १८, पूर्वाभाद्र० १६, उत्तराभा० २४, रेवतीमें ३० घड़ी ऐसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ये घड़ी कही हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

आभ्यः पराःस्युश्चतस्रो नाडिका विषसंज्ञिकाः ॥

विवाहादिषु कार्येषु वज्यास्ता विषनाडिकाः ॥ ६० ॥

सो इन घड़ियोंसे परली चार घड़ी विषसंज्ञक हैं जैसे रेवतीकी ३० घड़ी कही तो तीससे आगे ३४ तक चार घड़ी विषघटी जानों ऐसेही सब नक्षत्रोंमें जानलेना ये विषघटी विवाहादिक कार्योंमें वर्जित हैं ॥ ६० ॥

ऋक्षाद्यंतघटिमितं विषमानेन ताडितः ॥

षष्टिभिर्हरते लब्धं पूर्वऋक्षेण योजयेत् ॥ ६१ ॥

जो नक्षत्र परी साठ ६० घड़ीका नहीं होवे तहां ऐसे करना कि नक्षत्रके ध्रुवांकी घड़ियोंको नक्षत्रके भोगकी घड़ियोंसे गुन लेवे फिर साठ ६०का भाग देवे फिर जितनी घड़ी लब्ध हों उतनीकेही उपरांत विषघटी प्राप्त हुई जाननी ॥ ६१ ॥ इति विषघटी ॥

भास्करादिषु वारेषु ये मुहूर्ताश्च निदिताः ॥

विवाहादिशुभे वज्या अपि लग्नगुणैर्युताः ॥ ६२ ॥

सूर्यादिकवारोंमें जो निंदित मुहूर्त कहे हैं वे लग्नके गुणोंसे युक्त हों तौ भी विवाहादिक शुभ कार्योंमें वर्ज देने चाहियें ॥ ६२ ॥

ते वर्ज्या यदि तल्लग्नगुणैर्युक्ताश्च निंदिताः ॥ ६३ ॥

वे वारोंके दुष्टमुहूर्त वर्जनेही योग्य हैं जो वह लग्न गुणोंसे युक्त हो तौ भी वे दुष्ट मुहूर्त तो निंदितही कहे हैं ॥ ६३ ॥

वारमध्ये तु ये दोषाः सूर्यवारादिषु क्रमात् ॥

अपि सर्वगुणोपेतास्ते वर्ज्याः सर्वमंगले ॥ ६४ ॥

और सूर्यवारादिकोंमें क्रमसे जो वारदोष कहे हैं वे संपूर्ण गुणोंसे युक्त हों तौ भी सब मंगलकर्मोंमें वर्ज देने चाहिये ॥ ६४ ॥

एकार्गलः समांग्रिश्चेत्तत्र लग्नं विवर्जयेत् ॥ ६५ ॥

और स्वार्जूरिक योग एकार्गल दोषको कहते हैं वह समांग्रिज होवे अर्थात् सूर्य चंद्रमाके योगसे सम अंक्रमे देखना कहा है उसमें एकार्गल दोष आता होवे तो उस नक्षत्रमें विवाह लग्न नहीं करना ॥ ६५ ॥

अपि शुक्रज्यसंयुक्ता विषसंयुक्तदुग्धवत् ॥

ग्रहणोत्पातं त्याज्यं मंगलेषु त्रिधाऽशुभम् ॥ ६६ ॥

तहां शुक्र बृहस्पतिसे युक्त लग्न हो तौ भी विषसे मिला हुआ दूधकी तरह त्याज्य हो जाता है और ग्रहणका नक्षत्र तथा आकाश भूकंप आदि तीन प्रकारके उत्पातके नक्षत्रको भी त्याग देवे ॥ ६६ ॥

यावच्चरणकं भुक्तं शेषं च दग्धकाष्ठवत् ॥

मंगलेषु त्यजेत्क्रूरं विद्धं भं क्रूरसंयुतम् ॥ ६७ ॥

और विवाह आदि मंगलमें क्रूर ग्रहसे विद्ध हुए तथा क्रूर ग्रहसे युक्त हुए नक्षत्रको त्याग देवे एक चरण भोगा तो तो भी शेषको भी दग्धकाष्ठकी समान जानना ॥ ६७ ॥

अखिलर्क्षं पंचगव्यं सुराबिंदुयुतं तथा ॥

पादमेव शुभैर्विद्धमशुभं नैव कृत्स्नम् ॥ ६८ ॥

मंगलीक कामोंमें एक चरणगत विद्ध होनेसे संपूर्ण नक्षत्र ऐसे त्याज्य होजाते हैं कि जैसे मदिराकी बूंद लगनेसे पंचगव्य अशुद्ध होजाता है और शुभग्रहका वेध चरणगत ही अशुद्ध होता है संपूर्ण नक्षत्रका वेध नहीं होसक्ता ॥ ६८ ॥

क्रूरविद्धयुतं धिष्यं निखिलं चैव पादतः ॥

तुलामिथुनकन्यांशं धनुंशैश्च संयुताः ॥ ६९ ॥

एते नवांशाः संग्राह्या अन्ये तु कुनवांशकाः ॥

कुनवांशकलग्नं यत्त्याज्यं सर्वगुणान्वितम् ॥ ७० ॥

क्रूर नक्षत्रका चरण गत वेध तथा क्रूर ग्रहका योगसे संपूर्ण ही नक्षत्र अशुभ होता है और तुला, मिथुन, कन्या, धनु इनके नवांशक शुभ कहे हैं और अन्य कुनवांशक हैं । कुनवांशकका लग्न सब गुणोंसे युक्त हो तौ भी त्याग देना चाहिये ॥ ६९ ॥ ७० ॥

पस्मिन्दिने महापातस्तद्दिनं वर्जयेद्बुधः ॥

पि सर्वगुणोपेतं दंपत्योर्मृत्युदं यतः ॥ ७१ ॥

तस्यदिन व्यतीपात योग हो वह दिन त्यागदेना चाहिये वह दिन णोंसे युक्त हो तौभी स्त्री पुरुषकी मृत्यु करनेवाला है ॥ ७१ ॥

अनुक्ताः स्वल्पदोषाः स्युर्विद्युन्नीहारवृष्टयः ॥
प्रत्यर्कपरिवेषेन्द्रचापांबुधनगर्जनम् ॥ ७२ ॥

और बिजली पडना, बर्फ ओले पडना इत्यादिक विना कहे हुए स्वल्प दोष हैं तथा सूर्यके सम्मुख बादलमें दूसरा सूर्य देखना, मंडल, मेघ गर्जना, इंद्रधनुष ॥ ७२ ॥

एवमाद्यास्ततस्तेषां व्यवस्था क्रियतेऽधुना ॥
अकाले संभवन्त्येते विद्युन्नीहारवृष्टयः ॥ ७३ ॥
प्रत्यर्कपरिवेषेन्द्रचापाभ्रघनयोर्यदि ॥
दोषाय मंगले नूनमदोषायैव कालजाः ॥ ७४ ॥

इत्यादि दोष हैं उनकी व्यवस्था करते हैं ये बिजली आदि उत्पात, धमर पडना, दूसरा सूर्य तथा सूर्यके मंडल दीखना इंद्रधनुष दीखना, मेघ गर्जना ये उत्पात वर्षाकालके विना अकालमें होवें तो विवाहादिक मंगलमें निश्चय दोष है और कालमें होवें तो कुछ दोष नहीं है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

बृहस्पतिः केंद्रगतः शुक्रो वा यदि वा बुधः ॥
एकोपि दोषविलयं करोत्येवं सुशोभनम् ॥ ७५ ॥

बृहस्पति अथवा शुक्र, बुध, एक भी कोई केंद्रमें होय तो अं दोषोंको नष्ट करता है शुभ फल होता है ॥ ७५ ॥

तिर्यक्पंचोद्धंगाः पंच रेखे द्वेद्रे च कोणयोः ॥
द्वितीयं शंभुकोणेग्निभचक्रं तत्र विन्यसेत् ॥ ७६ ॥

पांच रेखा तिरछी और पांच रेखा ऊपरको खींच दो दो रेखा कोणोंमें खींचनी फिर ईशानकोणमें जो दो रेखा हैं तहां कृत्तिका नक्षत्र धरना और सभी नक्षत्र यथा क्रमसे लिखने ॥ ७६ ॥

भान्यतः साभिजित्येकरेखा खेटेन विद्धमम् ॥

पुरतः पृष्ठतोर्काद्या दिनर्क्षं लत्तयंति च ॥ ७७ ॥

अभिजित् सहित संपूर्ण नक्षत्र लिखने पीछे एक रेखापर दो ग्रहोंके नक्षत्र आजावें वह वेध होताहै ऐसा यह वेधदोष कहाहै । और सूर्य आदि ग्रह आगेके तथा पीछेके नक्षत्रको ताडित करते हैं वह लत्तादोष होता है उसका क्रम कहते हैं ॥ ७७ ॥

झराहुपूर्णन्दुसिताः स्वपृष्ठे भं सप्तगोजातिशरैर्मितं
हि ॥ संलत्तयन्तेर्कशनीज्यभौमा सूर्याष्टतर्काग्नि
मितं पुरस्तात् ॥ ७८ ॥

बुध, राहु, पूर्ण चंद्रमा, शुक्र ये, अपने पीछेके नक्षत्रोंको यथाक्रमसे सातवां, नवमां, बाईसवां, पांचवां नक्षत्रको ताडित करतेहैं जैसे अश्विनीपर राहु होवे तो आश्लेषाको ताडित करेगा और सूर्य शनि बृहस्पति मंगल ये आगेके नक्षत्रको यथाक्रमसे १२।८।६।३ इनको ताडित करेंगे । जैसे सूर्य अश्विनीपर हो तो अपने आगेके बारहवें नक्षत्र उत्तराफाल्गुनीको ताडित करेगा शनि ८ को ताडित करेगा ऐसे यथाक्रम जानो ॥ ७८ ॥

सौराष्ट्रशाख्यदेशेषु लत्तितं भं विवर्जयेत् ॥

कालिंगवंगदेशेषु पातितं भमुपग्रहम् ॥ ७९ ॥

सौराष्ट्र व शाल्वदेशमें लता दोषवर्जित है और कर्लिंग तथा बंगालादेशमें पातदोष वर्जित है और उपग्रह दोष ॥ ७९ ॥

बाह्यिके कुरुदेशे च यस्मिन्देशे न दूषणम् ॥

तिथयो मासदग्धाख्या दग्धलग्नानि तान्यपि ॥ ८० ॥

बाह्यिक तथा कुरुदेशमें वर्जित है तहांही दोष है और मास दग्धा तिथि, तथा दग्धलग्न ॥ ८० ॥

मध्यदेशे विवर्ज्याणि न दूष्याणीतरेषु च ॥

पंग्वंधकाणलग्नानि मासशून्याश्च राशयः ॥ ८१ ॥

इनको मध्यदेशमें वर्जदेवे अन्य जगह दोष नहीं है और पंगु, अंधा, काणा, लग्न मासशून्य, राशि ॥ ८१ ॥

गौडमालवयोस्त्याज्याश्चान्यदेशे न गर्हिताः ॥

दोषदुष्टः सदा काले वर्जनीयः प्रयत्नतः ॥ ८२ ॥

ये गौड तथा मालवा देशमें त्याज्य हैं अन्यजगह दोष नहीं है दोषसे दूषित हुआ समय सदा यत्नसे वर्जदेना चाहिये ॥ ८२ ॥

अपि भ्रारगुणोऽन्यार्थे दोषाल्पत्वं गुणोदयः ॥

परित्यज्य महादोषाञ्छेषयोर्गुणदोषयोः ॥ ८३ ॥

और कहीं बहुत गुण होवे तथा दोष थोडा होवे तहां गुण दोषोंके महान् दोषोंको त्याग कर ॥ ८३ ॥

गुणाधिकः स्वल्पदोषः सकलो मंगलप्रदः ॥

दोषो न प्रभवत्येको गुणानां परिसंचये ॥ ८४ ॥

गुण अधिक रहै और दोष थोडे रहजावें तो वह मुहूर्त संपूर्ण मंगलदायक है बहुतगुणोंके बीच एक दोष अपना बल नहीं कर सकता ॥ ८४ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

एको यथा तोयविंदुरुदचिर्षि हुताशने ॥

एवं संचित्य गणितशास्त्रोक्तं लग्नमानयेत् ॥ ८५ ॥

जैसे एकही जलकी बंद बहुत बढीहुई अग्निको नहीं बुझास-
कती तैसे ही गणितशास्त्रको लग्नका बलाबल देखके विचार करना
चाहिये ॥ ८५ ॥

तल्लग्नं जलयंत्रेण दद्याज्जोतिषिकोत्तमः ॥

षडंगुलमितोत्सेधं द्वादशांगुलमायतम् ॥ ८६ ॥

कुर्यात्कपालवत्ताम्रपात्रं तद्दशभिः पलैः ॥

पूर्णं षष्टिर्जलपलैः षष्टिर्मज्जति वासरे ॥ ८७ ॥

उत्तमज्योतिषी जलयंत्रसे घटी बनाकर लग्नका निश्चय करै
छह अंगुल ऊंचा और बारह अंगुल विस्तारवाला दशपल (४०
तोले) तांबाका कपालसरीखा पात्र बनावे जो कि साठपल (२४०
तोले) जलसे भरजावे ऐसे पात्रको जलमें गेरनेसे अहोरात्रमें ६०
वार जलमें डूबेगा ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

माषमात्रत्र्यंशयुतं स्वर्णवृत्तशलाकया ॥

चतुर्भिरंगुलैरापः तथा विद्धं परिस्फुटम् ॥ ८८ ॥

तहां सोनाकी शलाईसे उददप्रमाण छिद्रका स्थान बनावे तहां
बीचमें छिद्रकरै और चार अंगुल ऊपरतक जलभरदेना ॥ ८८ ॥

कार्येणाभ्यधिकः षड्भिः पलैस्ताम्रस्य भाजनम् ॥

द्वादशं मुखविष्कंभ उत्सेधः षड्भिरंगुलैः ॥ ८९ ॥

स्वर्णमासेन वै कृत्वा चतुरंगुलकात्मकः ॥

मध्यभागे तथा विद्धा नाडिका घटिका स्मृता ॥ ९० ॥

और छहपल प्रमाणका भी ताम्रपात्र बनता है उसमें बारह अंगुलका विस्तारकरना, छह अंगुल ऊंचा करना, चार अंगुल प्रमाण बीचमें सुवर्णका मासा लगावे मध्यभागमें जलकी नाडी बीचै वह घटिकायंत्र जानो ॥ ८९ ॥ ९० ॥

ताम्रपात्रे जलैः पूर्णे मृत्पात्रे वाथ वा शुभे ॥

गंधपुष्पाक्षतैः साद्धैरलंकृत्य प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥

तंदुलस्थे स्वर्णयुते वस्त्रयुग्मेन वेष्टिते ॥

मंडलाद्धोदयं वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिःक्षिपेत् ॥ ९२ ॥

फिर जलसेभरे हुए तांबाके पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें गंध-पुष्पादिकोंसे पूजनकर शोभितकर तंदुल सुवर्णसे युक्तकर दो वस्त्रोंसे आच्छादितकर (ऐसे जलके भरे हुए पात्रमें) इस घटीयंत्रको आधा सूर्योदय होनेके समय छोड देवे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

मंत्रेणानेन पूर्वोक्तलक्षणं यंत्रमुत्तमम् ॥

मुख्यं त्वमासि यंत्राणां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ ९३ ॥

भाव्याभव्याय दंपत्योः कालसाधनकारणम् ॥

द्वादशौगुलकं प्रोक्तमिति शंकुप्रमाणकम् ॥ ९४ ॥

पूर्वोक्त लक्षणवाले तिस यंत्रको इस मंत्रसे छोडै “तुम सबयंत्रोंके बीचमुख्य हो पहले ब्रह्माजीने ये वरकन्याके सुखदुःखके वास्ते कालसाधनके कारण कहेहो ” और यह यंत्र नहीं बने तो बारह अंगुलका शंकु बनाकर इष्टका निश्चयकरना ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

अन्ययंत्रप्रयोगा ये दुर्लभाः कालसाधने ॥

एवं सुलग्ने दंपत्योः कारयेत्सम्यगीक्षणम् ॥ ९५ ॥

अन्य यंत्रोंके प्रयोग इष्टसाधनमें दुर्लभ कहेहैं ऐसे सुंदरलक्षमें
वरकन्याका विवाह करना चाहिये ॥ ९५ ॥

इस्तोच्छ्रितां चतुर्हस्तैश्चतुरस्रां समंततः ॥

स्तंभैश्चतुर्भिः श्लक्ष्णैर्वा वामभागे स्वसन्ननः ॥ ९६ ॥

तहां एक हाथ ऊंचे चौकटी चार सुंदरस्तंभोंसे शोभित वेदी
घरकी बाँयीतर्फ बनानी चाहिये ॥ ९६ ॥

समंडलं चतुर्दिक्षु सोपानैरतिशोभनम् ॥

प्रागुदक्प्रवणारंभास्तंभा ह्यशुकादिभिः ॥ ९७ ॥

चारों दिशाओंमें मंडल परिधियोंकरके शोभित बनाने चाहियें
पूर्व और उत्तरकी तर्फ मंडपका विस्तार करना स्तंभोंपर अश्व, तोते
आदि चित्रामोंकी शोभा करनी ॥ ९७ ॥

विचित्रितां चित्रकुंभैर्विविधैस्तोरणांकुरैः ॥

भृंगारपुष्पनिचयैर्वर्णकैः समलंकृताम् ॥ ९८ ॥

विप्राशीर्वचनैः पुण्यस्त्रीभिर्दीपैर्मनोरमाम् ॥

वादित्रनृत्यगीताद्यैर्दद्यानांदिनीं शुभाम् ॥ ९९ ॥

विचित्र कलशोंकरके शोभित और अनेक प्रकारकी तोरण,
अंकर, मंगलीक पूर्णकुंभ पुष्पोंके समूह तथा सुंदर रंगोंकरके शो-
भित, ब्राह्मणोंके पवित्र आशीर्वादोंसे युक्त, सौभाग्यवती स्त्रियोंके गीतों
से शोभित, दीपकोंकी पंक्तियोंसे मनोहर, बाजा नृत्य गीत आदिकों
से हृदयको आनंद देनेवाली शुभवेदी बनानी चाहिये ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

एवंविधां तामारोहेन्मिथुनं साग्निवेदकम् ॥

त्रिषडायगताः पापाः षष्ठाष्टमं विना विधुः ॥ १०० ॥

ऐसी तिस वेदीके पास अग्नि और वेदकी साक्षीसे विवाह विधि करना । विवाह समय पापग्रह ३।६।११ घरमें होवे चंद्रमा छठे आठवें नहीं होवे तो ॥ १०० ॥

कुर्वेत्यायुर्धनारोग्यं पुत्रपौत्रसमन्विताः ॥

त्रिकोणकेंद्रस्वय्याये शुभं कुर्वति खेचराः ॥ १०१ ॥

आयु, धन, आरोग्य पुत्रपौत्रोंकी समृद्धि करते हैं और १।५।१०।३।११ इन घरमें सबग्रह शुभफल करते हैं ॥ १०१ ॥

धूनकेंद्रभगं शुक्रं हित्वा पुत्रधनान्विताम् ॥

धनत्रिबंधुतनयधर्मस्वायेषु चंद्रमाः ॥ १०२ ॥

और सातवें घरविना अन्यकेंद्रमें शुक्र शुभहै पुत्र धनवती कन्या होतीहै और २।३।४।५।९।१०।११ इन घरोंमें चंद्रमा शुभ है ॥ १०२ ॥

करोति सुतसौभाग्यभोगयुक्तां विवाहिताम् ॥

अस्तगा नीचगाः शत्रुराशिगाश्च पराजिताः ॥ १०३ ॥

विवाहिता कन्याको पुत्रवती व सौभाग्य भोगवती करता है और अस्तहुए नीचराशिके शत्रुकी राशिमें प्राप्तहुए ग्रह पराजित (हारे हुए) हैं ॥ १०३ ॥

नाशक्तास्ते फलं दातुं दानमश्रोत्रिये यथा ॥

गुरुरेकोपि लग्नस्थः सकलं दोषसंचयम् ॥ १०४ ॥

विनाशयति घर्मांशुरुदितस्तिमिरं यथा ॥

षकोपि लग्नगः काव्यो बुधो वा यदि लग्नगः ॥ १०५ ॥

वे इसप्रकार फल देनेको समर्थ नहीं हैं कि जैसे मूर्ख ब्राह्मणको दान देनेका फल नहीं है, अकेलाभी गुरु लग्नमें स्थित हो तो संपूर्ण दोषोंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे सूर्य अंधेरेको नष्टकरता है और लग्नमें प्राप्तहुआ अकेला शुक्र अथवा बुध ॥१०४॥१०५॥

नाशयत्यखिलान्दोषांस्तूलराशिमिवानलः ॥

गुरुरेकोपि केन्द्रस्थः शुक्रो वा यदि वा बुधः ॥१०६॥

संपूर्ण दोषोंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे खईकी राशिको अग्नि नष्ट करदेवे अकेला बृहस्पति वा बुध तथा शुक्र केंद्रमें होवे तो ॥ १०६ ॥

दोषसंघान्निहंत्येव केसरीवेभसंहतिम् ॥

दोषाणां शतकं हंति बलवान् केंद्रगो बुधः ॥ १०७ ॥

शुक्रोऽपहाय वै द्यूनं द्विगुणं लक्षमंगिराः ॥

लग्नदोषाश्च दोषा ये दोषा षडर्गजाश्च ये ॥१०८॥

दोषोंके समूहोंको ऐसे नष्टकरता है जैसे सिंह हाथियोंके समूहको नष्टकर देता है तैसेही बलवान् केंद्रमें प्राप्तहुआ बुध सैकड़ों दोषोंको नष्टकरता है शुक्र सातवें घरके बिना अन्यकेंद्रमें होवे तो बुधसे दूना शुभ फल करता है । और बृहस्पति लाख दोषोंको नष्ट करता है जो लग्नके दोष हैं और षड्वर्गसे उत्पन्नहुए दोष हैं ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

हंति ताल्लग्नगो जीवो मेघसंघमिवानिलः ॥

केंद्रत्रिकोणगे जीवे शुक्रो वा यदि वा बुधः ॥ १०९ ॥

तिन सबदोषोंको लग्नमें प्राप्तहुआ बृहस्पति ऐसे नष्ट करता है कि जैसे बादलोंके समूहको वायु खंडित करदेती है । बृहस्पति अथवा शुक्र तथा बुध केंद्रमें तथा नवमें पांचवें घरमें होवे तो ॥ १०९ ॥

दोषा विनाशमायांति पापानीव हरिस्मृतेः ॥

गुरुर्बली त्रिकोणस्थः सर्वदोषविनाशकृत् ॥ ११० ॥

सब दोष ऐसे नष्ट होजाते हैं कि जैसे विष्णुके स्मरण करनेसे पाप नष्ट होजाते हैं । बली गुरु नवमें पांचवें घरमें होय तो संपूर्ण दोषोंको नष्ट करता है ॥ ११० ॥

निहंति निखिलं पापं प्रणाममिव शूलिनः ॥

मुहूर्तपापषड्वर्गकुनवांशग्रहोत्थिताः ॥ १११ ॥

जैसे शिवजीको प्रणाम करनेसे संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं और मुहूर्त दोष, पापषड्वर्ग, कुनवांशक ग्रह इनसे उत्पन्न हुए दोष १११ ॥

ये दोषास्तान्निहंत्येव यत्रैकादशगः शशी ॥

नाशयंत्यखिलान्दोषान्यत्रैकादशगो रविः ॥ ११२ ॥

तिन संपूर्ण दोषोंको लग्नसे ग्यारहवें स्थानसे प्राप्तहुआ चंद्रमा दूर करता है अथवा ग्यारहवें स्थानमें प्राप्तहुआ सूर्यभी संपूर्ण दोषों को नष्ट करता है ॥ ११२ ॥

गंगायाः स्नानतो भक्त्या सर्वपापानिवाचिरात् ॥

वायूपसूर्यनीहारमेघगर्जनसंभवाः ॥ ११३ ॥

दोषा नाशं ययुः सर्वे केन्द्रस्थाने बृहस्पतौ ॥

ये दोषा मासदग्धास्तिथिलग्नसमुद्रवाः ॥ ११४ ॥

और वाय,प्रतिसूर्य,धूम,रज,मेघगर्जना इत्यादि दोष केंद्रस्थानमें बृहस्पति होनेसे ऐसे नष्ट होजाते हैं कि जैसे भक्तिसे गंगाजीमें स्नान करनेसे शीघ्रही पाप नष्ट होजाते हैं और जो मासदग्ध, तिथि दग्ध तथा लग्नदग्ध आदिदोष हैं ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

ते सर्वे विलयं यांति केंद्रस्थाने बृहस्पतौ ॥

बलवान् केंद्रगो जीवः परिवेषोत्थदोषहा ॥ ११५ ॥

वे संपूर्ण केंद्रस्थानमें बृहस्पति प्राप्त होनेसे नष्ट होते हैं और केंद्रमें प्राप्तहुआ बृहस्पति सूर्यमंडल आदि उत्पात दोषको नष्ट करता है ॥ ११५ ॥

एकादशस्थः शुक्रो वा बलवाञ्छुभवीक्षितः ॥

त्रिविधोत्पातजान् दोषान् हंति केंद्रगतो गुरुः ॥ ११६ ॥

ग्यारहवें स्थानमें प्राप्तहुआ शुभग्रहसे दृष्ट बलवान् शुक्र वा केंद्रगत बृहस्पति तीन प्रकारके उत्पातसे उत्पन्नहुए दोषोंको नष्ट करता है ॥ ११६ ॥

स्थानादिवलसंपूर्णः पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥

लग्नलग्नांशसंभूतान् बलवान्केंद्रगो गुरुः ॥ ११७ ॥

स्थानादि बलसे पूर्णहुआ बलवान् तथा केंद्रमें प्राप्तहुआ बृहस्पति लग्न और लग्नके नवांशकसे उत्पन्न हुए दोषोंको ऐसे नष्टकरता है कि जैसे शिवजीने त्रिपुर भस्म कियाथा ॥ ११७ ॥

भस्मीकरोति तान्दोषानिघनानीव पावकः ॥

अब्दायनर्तुमासोत्था ये दोषा लग्नसंभवाः ॥

सर्वे ते विलयं यांति केंद्रस्थाने बृहस्पतौ ॥ ११८ ॥

और केंद्रस्थानमें बृहस्पति होवे तो वर्ष, अयन, ऋतु, मास, लग्न इनसे उत्पन्न हुए दोष ऐसे नष्ट होजाते हैं कि जैसे अग्नि इंधनको भस्म करदेती है ॥ ११८ ॥

उक्तानुक्ताश्च ये दोषास्तान्निहन्ति बली गुरुः ॥

केंद्रसंस्थः सितो वापि भुजंगं गरुडो यथा ॥ ११९ ॥

केंद्रमें स्थित हुआ बली गुरु अथवा शुक्र कहे हुए अथवा विनाकहे हुए छोटे मोटे दोषोंको ऐसे नष्ट कर देता है कि जैसे गरुड सर्पको नष्ट करता है ॥ ११९ ॥

वर्गोत्तमगते लग्ने सर्वे दोषा लयं ययुः ॥

परमाक्षरविज्ञाने कर्माणीव न संशयः ॥ १२० ॥

लग्न वर्गोत्तममें प्राप्तहोवे तो सब दोष ऐसे नष्ट होजावें कि जैसे ब्रह्मज्ञानसे कर्मवासना नष्ट होजाती है ॥ १२० ॥

दुःस्थानस्थग्रहकृताः पापखेटसमुद्भवाः ॥

ते सर्वे लयमायांति केन्द्रस्थाने बृहस्पतौ ॥ १२१ ॥

दुष्ट स्थानमें स्थित हुए ग्रहोंके किये हुए दोष तथा पापग्रहोंके किये हुए सब दोष केंद्रस्थानमें बृहस्पति स्थित होनेसे नष्ट होजाते हैं ॥ १२१ ॥

उच्चस्थो गुरुरेकोपि लग्नगो दोषसंचयम् ॥

हन्ति दोषान् हरिदिने चोपवासव्रतं यथा ॥ १२२ ॥

उच्चराशिपर स्थितहुआ बृहस्पति अकेलाही जो लग्नमें प्राप्त होय तो दोषोंके समुहोंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे एकादशीका व्रत करनेसे पाप नष्ट होजाते हैं ॥ १२२ ॥

अष्टधा राशिकूटं च स्त्रीदूरगणराशयः ॥

राशीशयोनिवर्णाख्यशुद्धाश्चेत् पुत्रपौत्रदाः ॥ १२३ ॥

आठप्रकारका राशिकूट स्त्रीदूर, गणराशि, राशिस्वामी, योनि, वर्ण ये शुद्ध होवें तो पुत्र पौत्रदायक कहे हैं ॥ १२३ ॥

एकराशौ पृथग् धिष्ण्ये दंपत्योः पाणिपीडनम् ॥

उत्तमं मध्यमं भिन्नराश्यैकक्षजयोस्तयोः ॥ १२४ ॥

एकराशि हों और जुदा २ नक्षत्र हो तो कन्या वरका विवाह करना (योग्य है) उत्तमहै और राशि जुदी २ हो नक्षत्र एक ही हो तो मध्यम जानना ॥ १२४ ॥

एकक्षै त्वेकराशौ च विवाहः प्राणहानिदः ॥

स्त्रीधिष्ण्यादाद्यनवके स्त्रीदूरमतिनिन्दितम् ॥ १२५ ॥

और एक ही नक्षत्र तथा एकही राशि हो तो विवाह करनेमें प्राणहानि हाती है स्त्रिके नक्षत्रसे नव नक्षत्रोंके भीतर ही पुरुषका नक्षत्र होय तो वह स्त्री दूर, अति निन्दित है ॥ १२५ ॥

द्वितीयं मध्यमं श्रेष्ठं तृतीये नवके भृशम् ॥

तिस्रः पूर्वोत्तरा धातृयाम्यमाहेशतारकाः ॥ १२६ ॥

और उसमें आगेके नव ९ नक्षत्रोंमें द्वितीय नवकमें पुरुषका नक्षत्र हो तो मध्यम फल जानना। तिसके आगेके नव नक्षत्रोंमें हो तो अत्यंत शुभफल जानना । और तीनों पूर्वा,तीनों उत्तरा,रोहिणी भरणी ॥ १२६ ॥

इति मर्त्यगणो ज्ञेयः स्यादमर्त्यगणः परः ॥

ह्यादित्यर्कवाय्विज्यमित्रेन्दुविष्णु चान्त्यभम् ॥ १२७ ॥

ये मनुष्यगण जानने और अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, पुष्य, अनुराधा, मृगशिर, श्रवण, रेवती देवतागण है ॥ १२७ ॥

रक्षोगणः पितृत्वाष्ट्रद्विदैवानींद्रितारकाः ॥

वसुतोयेशमूलाहितारकाभिर्युतोऽनलः ॥ १२८ ॥

मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल, आश्लेषा, कृत्तिका ये राक्षसगण हैं ॥ १२८ ॥

दंपत्योर्जन्मभमेकगणे प्रीतिरनेकधा ॥

मध्यमा देवमर्त्यानां राक्षसानां तयोर्मृतिः ॥ १२९ ॥

स्त्री पुरुषका एक गण होय तो अनेक प्रकार उत्तम प्रीति रहे देवता तथा मनुष्यकी मध्यम प्रीति रहे । राक्षस तथा देवगणका कलह रहे । राक्षस और मनुष्यगण होय तो दोनोंकी मृत्यु हो ॥ १२९ ॥

मृत्युः षष्ठाष्टके पंच नवमे त्वनपत्यता ॥

नेष्टं द्विर्द्वादशेन्येषु दंपत्योः प्रीतिरुत्तमा ॥ १३० ॥

स्त्री पुरुषकी राशि परस्पर छठे आठवें होवे तो मृत्यु हो, पांचवें नवमें स्थानपर हो तो संतान नहीं हो और परस्पर दूसरे बारहवें राशि होय तो भी शुभ नहीं है अन्यराशि शुभ है । अन्यराशियोंमें स्त्री पुरुषकी उत्तम प्रीति रहती है ॥ १३० ॥

एकाधिपे मित्रभावे शुभदं पाणिपीडनम् ॥

द्विर्द्वादशे त्रिकोणे च न कदाचित् षडष्टके ॥ १३१ ॥

शत्रुषष्ठाष्टके कुंभकन्ययोर्घटमीनयोः ॥

वामोक्षयोर्नृपुक्कीटभयोः कुंभकुलीरयोः ॥ १३२ ॥

पंचास्यमृगयोश्चैव निंदितं तदतीव तु ॥

सितार्कीज्येंद्रुभौमसो रिपुमित्रसमा रवेः ॥ १३३ ॥

शत्रु षडाष्टकमें प्राप्त तथा अशुभराशियोंको कहतेहैं। कुंभकन्या, कुंभमीन, कन्यावृष, मिथुनवृश्चिक, कुंभकर्क, सिंहमकर, ये राशि कन्यावरकी परस्पर होवें तो अत्यंत निंदित हैं और शुक्र शनि सूर्यके शत्रु हैं । बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल मित्र हैं तथा बुध सम है ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥

इन्दोर्न शत्रुर्कज्ञौ कुजेज्यभृगुसूर्यजाः ॥

कुजस्य ज्ञोर्कचंद्रेज्याः शुक्रसूर्यसुतौ क्रमात् ॥ १३४ ॥

चंद्रमाके शत्रु कोई नहीं है सूर्य बुध मित्र हैं । और मंगल, गुरु शुक्र, सूर्य ये सम हैं । मंगलका बुध शत्रु है । सूर्य, चंद्र, गुरु ये मित्र हैं । शुक्र शनि सम हैं ॥ १३४ ॥

ज्ञस्येंदुरर्कशुकौ च कुजजीवशनैश्वराः ॥

गुरोर्ज्ञशुकौ सूर्येंद्रुकुजाः स्युर्भास्करात्मजः ॥ १३५ ॥

बुधका चंद्रमा शत्रु है, सूर्य शुक्र मित्र और मंगल, गुरु, शनि ये सम हैं । बृहस्पतिका बुध तथा शुक्र शत्रु हैं । सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये मित्र हैं शनि सम है ॥ १३५ ॥

शुक्रस्येंदुरवी ज्ञार्की कुजदेवेशपूजितौ ॥

शानेरर्केन्दुभूपत्रा ज्ञशुकौ देवपूजितः ॥ १३६ ॥

शुक्रके चंद्रमा सूर्य शत्रु हैं, बुध शनि मित्र और मंगल बृहस्पति सम हैं । शनिके सूर्य, चंद्रमा ये शत्रु हैं, बुध शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति सम है ॥ १३६ ॥ इति० ॥

अथ योनिः ।

अश्वेभंमेषसर्पाहिश्वेतुमेषोतुमूषकाः ॥

आखुर्गोमहिषव्याघ्रः श्वद्विड् व्याघ्रो मृगद्वयम् ॥ १३७ ॥

श्वानोः कपिर्बभ्रुयुग्मं कपिसिंहतुरंगमाः ॥

सिंहगोहस्तिनो भानामेषां योनिर्यथाक्रमात् ॥ १३८ ॥

अश्व १ हस्ती २ मेष ३ सर्प ४ सर्प ५ श्वान ६ मार्जार ७
मेष ८ मार्जार ९ मेष १० मषक मूषक ११ गौ १२ महिष १३
व्याघ्र १४ महिष १५ व्याघ्र १६ मृग १७ मृग १८ श्वान १९
वानर २० नकुल २१ नकुल २२ वानर २३ सिंह २४ अश्व
२५ सिंह २६ गौ २७ हस्ती २८ ऐसे ये अश्विनी आदि
नक्षत्रोंकी योनि यथाक्रमसे जाननी ॥ १३७ ॥ १३८ ॥

वैरं बभ्रुरंगमेषवानरं सिंहदंतिनम् ॥

गोव्याघ्रमाखुमार्जारं महिषाश्वं च शात्रवम् ॥ १३९ ॥

तहां नकल सर्पका वैर है, और मेष वानरका वैर है, सिंह
हस्तीका वैर है, गौ व्याघ्रका और मषक मार्जार तथा महिष
अश्वका वैर है ॥ १३९ ॥ इति ।

अथ वर्णविचारः ।

मीनालिकर्कटा विप्राः क्षत्री मेषो हरिर्धनुः ॥

शूद्रो युग्मं तुलाकुंभौ वैश्यः कन्या वृषो मृगः ॥ १४० ॥

मीन वृश्चिक कर्क ये ब्राह्मणवर्ण हैं, मेष सिंह धनु क्षत्रीवर्ण हैं,
मिथुन तुला कुंभ, शूद्रवर्ण हैं कन्या, वृष, मकर वैश्यवर्ण हैं १४० ॥

(नोत्तमासुद्रहेत्कन्यां हीनर्णां वरः सदा ॥

आद्यमध्यान्त्यचरममध्याद्या ह्यश्विनीमात् ॥)

गणयेत्संख्यया चैकनाड्यां मृत्युर्न पार्श्वयोः ॥

प्राजापत्यब्राह्मणद्वैवा विवाहार्षकसंयुताः ॥ १४१ ॥

उत्तमवर्ण कन्यासे हीनवर्ण वाले वरको विवाह नहा करना चाहिये । और अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी क्रमसे आद्य मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आद्य, आद्य मध्य अंत्य, ऐसे नाडी होती हैं तहां एक नाडीमें विवाहकरे तो मृत्यु होवे । पृथक् नाडी रहनेमें कुछ दोष नहीं है और प्राजापत्य, ब्राह्मण, दैव, आर्ष ये विवाह श्रेष्ठ कहे हैं १४१ ॥

उक्तकाले तु कर्तव्याश्चत्वारः फलदायकाः ॥

आसुरो द्रविणादानात्पैशाचः कन्यकाच्छलात् ॥ १४२ ॥

ये चार प्रकारके विवाह उक्तकालमें (शुभ मुहूर्तमें) करनेसे अच्छा फल प्राप्त होता है जो द्रव्यलेकर कन्याका पिता विवाहकरे वह आसुरविवाह है । जो वर छलसे कन्याको हर लेजाय वह पैशाच विवाह है ॥ १४२ ॥

राक्षसो युद्धहरणाद्गांधर्वः समयान्मिथः ॥

गांधर्वासुरपैशाचराक्षसाख्यास्तु नोत्तमाः ॥ १४३ ॥

युद्धमें जितकर कन्याको लेजाय वह राक्षस विवाह, वर कन्या आपसमें बतलाकर विवाह करलें वह गांधर्व विवाह है, गांधर्व, आसुर पैशाच, राक्षस ये विवाह पहलके समान उत्तम नहीं हैं १४३ ॥

चतुर्थमभिजिह्नमुदयक्षात् सप्तमम् ॥

गोधूलिकं तदुभयं विवाहे पुत्रपौत्रदम् ॥ १४४ ॥

सूर्यके उदयलग्नसे चौथालग्न अभिजित् संज्ञकहै और सातवां लग्न गोधूलिक संज्ञक है ये दोनों लग्न विवाहमें पुत्र पौत्रदायकहैं ॥ १४४ ॥

प्राच्यानां च कलिंगानां मुख्यं गोधूलिकं स्मृतम् ॥

अभिजित्सर्वदेशेषु मुख्यं दोषविनाशकृत् ॥ १४५ ॥

पूर्ववासी तथा कलिंगदेश निवासी जनोको गोधूलिक लग्न शुभ-
कहा है अभिजित् लग्न सबदेशोंमें मुख्य है सब दोषोंको नष्ट करने
वाला है ॥ १४५ ॥

मध्यंदिनगते भानौ मुहूर्तोभेजिताह्वयः ॥

नाशयत्यखिलान्दोषान्पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ १४६ ॥

मध्याह्नसमयमें अभिजित् नामक मुहूर्त् आता है वह संपूर्ण
दोषोंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे महादेवजीने त्रिपुर दग्ध-
किया था ॥ १४६ ॥

मध्यंदिनगते भानौ सकलं दोषसंचयम् ॥

करोति दोषमभिजित्चूलशशिमिवानलः ॥ १४७ ॥

मध्याह्नसमयमें प्राप्त हुआ अभिजित् संपूर्ण दोषोंको ऐसे नष्ट क-
रताहै कि जैसे हईकी राशिको अग्नि नष्ट करदेता है ॥ १४७ ॥

हंत्येकश्च महादोषो गुणलक्षमपीह सः ॥

पावने पंचगव्यं तु पूर्णकुंभं सुरालयम् ॥ १४८ ॥

और जो एकभी कोई महान् दोष होवे तो वह लाखों गुणोंको ऐसे नष्ट करताहै कि जैसे पवित्र पंचगव्यके कलशको मदिराका कणका अशुद्ध करदेवे ॥ १४८ ॥

पुत्रोद्गाहात्परं पुत्रीविवाहो न ऋतुत्रये ॥

न तयोर्व्रतमुद्गाहान्मंगले नान्यमंगलम् ॥ १४९ ॥

पुत्रके विवाहसे पीछे छहमहीनेतक पुत्रीका विवाह नहीं करना तीन पुत्र पुत्रियोंके विवाहसे पीछे छह महीनोंतक कोई व्रत तथा अन्यमंगलभी नहीं करना चाहिये ॥ १४९ ॥

विवाहश्चैकजन्यानां षण्मासाभ्यंतरे यदि ॥

असंशयं त्रिभिर्वर्षैस्तत्रैका विधवा भवेत् ॥ १५० ॥

एक उदरवाली बहनोंका विवाह छहमहीनोंके भीतर होय तो तीनवर्ष भीतर एकजनी विधवा होवे ॥ १५० ॥

प्रत्युद्गाहो नैव कार्यो नैकस्मै दुहितुर्द्वयम् ॥

न चैकजन्मनोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ १५१ ॥

विवाहमें दूसरा विवाह नहीं करना एकवरके वास्ते दो कन्या साथही नहीं विवाहनी और एक उदरके दो भाइयोंको एकउदरकी दो बहनै नहीं विवाहनी ॥ १५१ ॥

नैवं कदाचिदुद्गाहो नैकदा मुंडनद्वयम् ॥

दिवजातस्तु पितरं रात्रौ तु जननीं तथा ॥ १५२ ॥

मात्मानं संध्योर्हति नास्ति गंडे विपर्ययः ॥

उतः सुता वा नियतं श्वशुरं हंति मूलजाः ॥ १५३ ॥

एकवार दोविवाह, एकवार दोओंका मुंडन, नहीं कराना अब गंडांत जन्मका विचार कहतेहैं । दिनमें जन्म होय तो पिताको नष्ट करे रात्रिमें जन्म होय तो माताको नष्ट करे संधियोंमें जन्म हो तो आत्माको [आपको]नष्ट करै गंडांत नक्षत्रमें अन्य विपर्यय नहींहै मूलनक्षत्रमें उत्पन्न पुत्री अथवा पुत्र अपने श्वशुरको नष्ट करते हैं॥१५२॥१५३॥

तदंत्यपादजो नैव तथाश्लेषाद्यपादजः ॥

ज्येष्ठांत्यपादजो ज्येष्ठं हंति बालो न बालिका॥१५४ ॥

मूलनक्षत्रके अंत्यचरणमें जन्मे तो दोष नहीं है और आश्लेषाके आद्यचरणमें दोष नहींहैं, ज्येष्ठा नक्षत्रके अंत्यचरणमें जन्माहुआ पुत्र बडेभाईको नष्ट करता है और कन्या जन्में तो यह दोष नहीं है१५४

बालिका मूलत्रक्षे तु मातरं पितरं तथा ॥

ऐन्द्री धवाभ्रजं हंति देवरं तु द्विदैवजा ॥ १५५ ॥

मूलनक्षत्रमें कन्या जन्में तो माता पिताको नष्ट करती है और ज्येष्ठानक्षत्रमें जन्में तो अपने ज्येष्ठको नष्ट करती है विशाखामें जन्में तो देवरको नष्ट करै ॥ १५५ ॥ इति ॥

स्वस्थे नरे सुखासीने यावत्स्पंदति लोचनम् ॥

तस्य त्रिंशत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः ॥ १५६ ॥

स्वस्थसुखसे बैठे हुए मनुष्यकी आंखिझिपै ऐसा पलसंज्ञक काल है तिसका तीसवाँ हिस्सा तत्परसंज्ञक कहा है ॥ १५६ ॥

तत्पराच्छतगो भागस्त्रटिरित्यभिधीयते ॥

त्रुटेः सहस्रगो योशो लग्नकालः स उच्यते ॥ १५७ ॥

(१८४)

नारदसंहिता ।

देवोपि तन्न जानाति किं पुनः प्राकृतो जनः ॥

स कालोथान्यकालो वा पूर्वकर्मवशाद्भवेत् ॥ १५८ ॥

तत्परसे सौमाँ हिस्सा त्रुटि है, त्रुटिसे हजारवाँ हिस्सा लग्नकाल कहा है उसको देवता भी नहीं जाने फिर प्राकृत मनुष्य तो क्या जान-सके वह लग्नकाल अथवा अन्यकाल पूर्वकर्म वशसे आपही प्राप्त होजाता है ॥ १५७ ॥ १५८ ॥

निमित्तमात्रं दैवज्ञस्तद्दशान्न शुभाशुभम् ॥

न्यग्रोधखदिराश्वत्थरक्तचंदनवृक्षजाः ॥ १५९ ॥

श्रीखंडागरुदंतोत्थं शुभशंकुमकलमषम् ॥

द्वादशांगुलमुत्सेधं परिणाहे षडंगुलम् ॥ १६० ॥

तहां ज्योतिषी तो निमित्तमात्र है तिसके वशसे कुछ शुभ अशुभ फल नहीं होता तहां बड़, खैर, पीपल, लालचंदन, नारियल, अगर इनवृक्षोंका अथवा हस्तीदंतका शुभ पवित्र शंकु बारह अंगुलका ऊंचा और छह अंगुल मोटाईका बनावे १५९ ॥ १६० ॥

एवं लक्षणसंयुक्तं कल्पयेत्कालसाधने ॥

आरभ्योद्वाहदिवसात्षष्ठे वाप्यष्टमे दिने ॥ १६१ ॥

ऐसे लक्षणयुक्त शंकुको कालसाधनमें बनावे विवाहदिनसे छठे दिन वा आठवें दिन ॥ १६१ ॥

वधूप्रवेशः संपत्त्यै दशमेथ समे दिने ॥

द्वयनं द्वितयं जन्ममासाग्रदिवसानपि ॥

संत्यज्य प्रतिशुक्रोपि यात्रा वैवाहिकी शुभा ॥ १६२ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां विवाहाध्याय

एकोनत्रिंशत्तमः ॥ २९ ॥

वधूप्रवेश करना दशवेंदिन अथवा समदिनमें शुभ है और दोनों अयन वरकन्याके जन्मका मास व दिन सन्मुख शुक्र इनको त्यागकर विवाहकर बहू लानेकी यात्रा शुभ कही है ॥ १६२ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां विवाहाध्याय

एकोनत्रिंशत्तमः ॥ २९ ॥

श्रीप्रदं सर्वगीर्वाणस्थापनं चोत्तरायणे ॥

गीर्वाणपूर्वगीर्वाणमंत्रिणोर्दृश्यमानयोः ॥ १ ॥

उत्तरायण सूर्यमें संपूर्ण देवताओंका स्थापन करना शुभ है गुरु शुक्रका उदय होना शुभ है ॥ १ ॥

विचैत्रेष्वेवमासेषु माघादिषु च पंचसु ॥

शुक्लपक्षेषु कृष्णेषु तदादि पंचसु स्मृतम् ॥ २ ॥

चैत्रदिना माघ आदि पांचमहीनोंमें देवप्रतिष्ठा करनी शुभ है शुक्ल पक्षमें अथवा कृष्णक्षमें पंचमीतक देवप्रतिष्ठा करनी शुभ है ॥ २ ॥

दिनेषु यस्य देवस्य या तिथिस्तत्र तस्य च ॥

द्वितीयादिद्वयोः पंचम्यादितस्तिसृषु क्रमात् ॥ ३ ॥

जिसदेवकी जो तिथि है उसी तिथिको प्रतिष्ठा करनी भी शुभ है और द्वितीया आदि दो तिथि पंचमी आदि तीन तिथि क्रमसे शुभ हैं ॥ ३ ॥

दशम्यादेश्वतसृषु पौर्णमास्यां विशेषतः ॥

त्रिरुत्तरादितिश्चांत्यहस्तत्रयगुरुडुषु ॥ ४ ॥

दशमी आदि चार तिथि पौर्णमासी विशेषतासे शुभहै तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रेवती, हस्त आदि तीन, पुष्य इन नक्षत्रोंमें ॥ ४ ॥

साश्विधातृजलाधीशहरिमित्रवसुष्वपि ॥

कुजवर्जितवारेषु कर्तुः सूर्यबलप्रदे ॥ ५ ॥

तथा अश्विनी, रोहिणी, शनिषा, श्रवण, अनुराधा, धनिष्ठा इन नक्षत्रोंमें तथा मंगल बिना अन्य वार कर्त्ताको सूर्य बलदायक होनेमें ॥ ५ ॥

चंद्रताराबलोपेते पूर्वाह्ने शोभने दिने ॥

शुभलग्ने शुभांशे च कर्तुर्न निघनोदये ॥ ६ ॥

चंद्र ताराबल युक्त दुपहर पहिले शुभदिन, शुभलग्नमें, शुभ नवांशकमें कर्त्ताको अष्टम राशि अष्टम लग्न शुद्ध होने समय ॥ ६ ॥

राशयः सकलाः श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतोक्षिताः ॥

शुभग्रहयुते लग्ने शुभग्रहयुतोक्षिते ॥ ७ ॥

सब ही राशि शुभग्रहोंकी दृष्टि होनेसे शुभ कही हैं । शुभ ग्रहसे युक्त तथा लग्न होना चाहिये ॥ ७ ॥

राशिः स्वभावजं हित्वा फलं ग्रहजमाश्रयेत् ॥

अनिष्टफलदः सोपि प्रशस्तफलदः शशी ॥ ८ ॥

सौम्यर्क्षगोधिमित्रेण गुरुणा वा विलोकितः ॥

पंचेष्टिके शुभे लग्ने नैधने शुद्धिसंयुते ॥ ९ ॥

लग्न राशि स्वभावज फलको त्यागकर ग्रहोंसे उत्पन्न हुआ फल करती है और अशुभ चंद्रमाभी शुभ ग्रहके घरमें हो, मित्रसे ॥ गुरुसे दृष्ट होय तो शुभदायक है और पंचांग शुद्धियुक्त लग्न ॥ अष्टमं स्थान शुद्ध होनेके समय प्रतिष्ठा करनी शुभ है ॥८॥९॥

लग्नस्थाः सूर्यचंद्रारराहुकेत्वर्कसूनवः ॥

कर्तुर्मृत्युप्रदाश्चान्ये धनधान्यसुखप्रदाः ॥ १० ॥

लग्नमें स्थित सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि ये कर्ताकी मृत्यु करते हैं अन्य ग्रह धन धान्य सुखदायक हैं ॥ १० ॥

द्वितीये नेष्टदाः पापाः शुभाश्चंद्रश्च वित्तदाः ॥

तृतीये निखिलाः खेटाः पुत्रपौत्रसुखप्रदाः ॥ ११ ॥

दूसरे घर पाप ग्रह शुभ नहीं हैं और शुभग्रह तथा चंद्रमा धन दायक है तीसरे घर संपूर्ण ग्रह पुत्र पौत्र सुखदायक हैं ॥ ११ ॥

चतुर्थे सुखदाः सौम्याः क्रूराश्चंद्रश्च दुःखदाः ॥

हानिदाः पंचमे क्रूराः सौम्याः पुत्रसुखप्रदाः ॥ १२ ॥

चौथे घर सौम्यग्रह शुभदायक हैं, क्रूर ग्रह और चंद्रमा दुःख दायक हैं, पांचवें क्रूरग्रह हानिदायक हैं शुभ ग्रह पुत्र सुख- दायक हैं ॥ १२ ॥

पूर्णाः क्षीणः शशी तत्र पुत्रदः पुत्रनाशनः ॥

षष्ठे शुभाः शत्रुदाः स्युः पापाः शत्रुक्षयप्रदाः ॥ १३ ॥

पूर्णचंद्रमा ५ हो तो पुत्रदायक, क्षीण हो तो पुत्रनाशक है, छठे घर शुभ ग्रह शत्रु उत्पन्न करते हैं और पापग्रह शत्रुको नष्ट करते हैं ॥ १३ ॥

पूर्णः क्षीणोपि वा चंद्रः षष्ठेखिलरिपुक्षयम् ॥

करोति कर्तुरचिरादायुःपुत्रधनप्रदः ॥ १४ ॥

छठे घर चंद्रमा प्रतिष्ठा करनेवालेके शत्रुओंको शीघ्र ही नष्ट करता है और आयु, पुत्र, धन दायक है ॥ १४ ॥

व्याधिदाः सप्तमे पापाः सौम्याः सौम्यफलप्रदाः ॥

अष्टमस्थानगाः सर्वे कर्तुर्मृत्युप्रदा ग्रहाः ॥ १५ ॥

सातवें घर पापग्रह व्याधिदायक है और शुभग्रह शुभफल दायक है प्रतिष्ठा लग्नेसे अष्टमस्थानमें प्राप्त हुए सब ग्रह कर्त्ताकी मृत्यु करते हैं ॥ १५ ॥

धर्मे पापा व्रंति सौम्याः शुभदाः शुभदः शशी ॥

भंगदाः कर्मगाः पापाः सौम्याश्चंद्रश्च कीर्तिदाः ॥ १६ ॥

नवमें घर पापग्रह अशुभ हैं शुभ ग्रह और चंद्रमा शुभदायक हैं । दशव पापग्रह और चंद्रमा अशुभ हैं शुभग्रह कीर्त्तिदायक हैं १६

लाभस्थानगताः सर्वे भूरिलाभप्रदा ग्रहाः ॥

व्ययस्थानगताः शश्वद्बहुव्ययकरा ग्रहाः ॥ १७ ॥

लाभस्थानमें प्राप्त हुए सभी ग्रह बहुत लाभदायक हैं चारहवें घर सभी ग्रह निरंतर बहुत खर्च करवाते हैं ॥ १७ ॥

गुणाधिकतरे लग्ने दोषाल्पत्वतरे यदि ॥

सुराणां स्थापनं तत्र कर्तुरिष्टार्थासिद्धिदम् ॥ १८ ॥

जिस लग्नमें गुण अधिक हों दोष थोड़े हों तिसमें देवताकी प्रतिष्ठा करनेवाले मनुष्यके मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ १८ ॥

हंत्यर्थहीना कर्तारं मंत्रहीना तु ऋत्विजम् ॥

श्रियं लक्षणहीना तु न प्रतिष्ठासमो रिपुः ॥ १९ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां सुरप्रतिष्ठा-
ध्यायस्त्रिंशत्तमः ॥ ३० ॥

द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमानको नष्ट करती है, मंत्रहीन प्रतिष्ठा आचार्यको नष्ट करती है, लक्षणहीन प्रतिष्ठा लक्ष्मीको नष्ट करती है इसलिये हीन रही प्रतिष्ठाके समान कोई शत्रु नहीं है ॥ १९ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां सुर
प्रतिष्ठाध्यायस्त्रिंशत्तमः ॥ ३० ॥

अथ वास्तुप्रकरणम् ।

निर्माणे पत्तनग्रामगृहादीनां समासतः ॥

क्षेत्रमादौ परीक्षेत गंधवर्णरसपृवैः ॥ १ ॥

शहर, ग्राम, घर इन्होंके रचने (चिन्ने) के समयके संक्षेपमात्रसे पहिले गंध, वर्ण, रसपृव (डुलाई) इन्हों करके क्षेत्रकी अर्थात् भूमिस्थलकी शुद्धि करनी चाहिये ॥ १ ॥

मधुपुष्पाम्लपिशितगंधान् विप्रानुपूर्वकम् ॥

सितरक्तेशहरितकृष्णवर्णं यथाक्रमात् ॥ २ ॥

ब्राह्मणके वास्ते मधु (शहद) समान सुगंधिवाली, क्षत्रियोंको पुष्प समान सुगंधिवाली, वैश्यको खट्टी (काँजी) समान सुगंधिवाली,

शुद्धको मांससमान सुगंधिवाली भूमि शुभहै और श्वेत, लाल, हरा, काला ये भूमिके रंग ब्राह्मणादिकोंको यथा क्रमसे शुभ हैं ॥ २ ॥

मधुरं कटुकं तिक्तं कषायश्च रसाः क्रमात् ॥

अत्यंतं वृद्धिदं नृणामीशानप्रागुदकप्लवम् ॥ ३ ॥

और मधुर, चर्चरा, कडुवा, कसैला ये भूमिके स्वाद ब्राह्मण आदिकोंको शुभ हैं । और जिस पृथ्वीकी ढुलाई ईशान कोण तथा पूर्व व उत्तरकी तरफ होवे तो सब जातियोंको अत्यंत वृद्धिदायक जाननी ॥ ३ ॥

अन्यदिक्षु पृवं तेषां शश्वदत्यंतहानिदम् ॥

तत्र कर्ता हस्तमात्रं खनित्वा तत्र पूरयेत् ॥ ४ ॥

अन्य दिशाओंमें ढुलान रहे तो निरंतर तिन सब जातियोंको अशुभ है । पृथ्वीकी अन्य परीक्षा कहते हैं कि, कर्ता पुरुष अपने हाथ प्रमाण भूमिको खोदकर फिर उसही मिट्टीसे उस खडेको भरै ॥ ४ ॥

अत्यंतवृद्धिरधिके हीने हानिः समे समम् ॥

तथा निशादौ कृत्वा तु पानीयेन प्रपूरयेत् ॥ ५ ॥

प्रातर्दृष्टे चले वृद्धिः समं पंके व्रणे क्षयः ॥

एवं लक्षणसंयुक्ते क्षेत्रे सम्यक्समीकृते ॥ ६ ॥

जो मिट्टी बढजाय तो घर चिननेवालेकी अत्यंत वृद्धि रहे हीन मृत्तिका रहे अर्थात् वह खडा नहीं भरे तो हानि हो, समान मृत्तिका रहे तो समान फल जानना और एक हाथ खडा खोदकर रात्रि में पानीसे भरदेवे प्रातःकाल देखे तब जलसे वह गर्न कुछ ऊंचा

बढा दीखे तो वृद्धि जानना और समान कीच रहे तो समान फल जानना कीचमें छिद्र दीखे तो क्षयकारक भूमि जानना ऐसे लक्षणसे देखे हुए भूमि स्थलको समान बनालेवे ॥ ५ ॥ ६ ॥

दिक्साधनाय तन्मध्ये समे मंडलमालिखेत् ॥

पूर्वोक्तक्षणसंयुक्ते तन्मध्ये स्थापयेत्ततः ॥ ७ ॥

फिर दिक्साधन करनेके वास्ते तिस भूमिके मध्यमें समान भागमें मंडल लिखना चाहिये । पूर्वोक्त लग्नमें तहां यंत्रको स्थापित करै ॥ ७ ॥

ततश्छायां स्पृशेद्यत्र वृत्ते पूर्वापराह्लयोः ॥

तत्र कार्यावुभौ बिंदू वृत्ते पूर्वापराविधौ ॥ ८ ॥

फिर जहां दुपहर पहले और दुपहर पछिकी छाया आती हो तहां छायाकी पिछानके वास्ते पूर्व पश्चिममें दो बिंदु कर देनी ॥ ८ ॥

रेखा या सोत्तरा साध्या तन्मध्येतिमिना स्फुटा ॥

तन्मध्येतिमिना रेखा कर्तव्या पूर्वपश्चिमा ॥ ९ ॥

इसप्रकार रेखा करके उत्तर दिशाका साधन करना । उत्तर दिशाका दिक्साधन करके तिसके बीच मत्स्यसमान तिरछीसे पूर्वपश्चिमकी तर्फ रेखा खींचनी चाहिये ॥ ९ ॥

तन्मध्यमत्स्यैर्विदिशः साध्या सूचीमुखास्तदा ॥

मध्याद्विनिर्गतैः सूत्रैश्चतुरस्रं लिखेद्बहिः ॥ १० ॥

फिर मध्यमें मत्स्याकार सूईके मुखसदृश बारीक रेखा खींच कर विदिशा (कोणोंका) साधन करना चाहिये, मध्यभागसे निकले हुए सूत्रों करके बाहिर चतुरस्र चौकूटा स्थल बनावे ॥ १० ॥

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे षड्बर्गपरिशोधिते ॥

रेखामार्गे च कर्तव्यं प्राकारं सुमनोहरम् ॥ ११ ॥

फिर चतुरस्र स्थल विषे षड्बर्ग विधिसे शोधन कर रेखामार्ग विषे चौगिर्द एक गोलाकार रेखा खींच लेवे ॥ ११ ॥

आयामेषु चतुर्दिक्षु प्रागादिषु च संत्स्वपि ॥

अष्टाष्टौ च प्रतिदिशं द्वाराणि स्युर्यथाक्रमात् ॥ १२ ॥

प्रदक्षिणक्रमात्तेषाममूनि च फलानि वै ॥

हानिनैःस्वं धनप्रातिर्चपूजामहद्वनम् ॥ १३ ॥

उस विस्तारमें चारों दिशाओंके विभाग करलेना, फिर पूर्व आदि दिशाओंमें आठ २ द्वार यथाक्रमसे बनाने चाहियें । पूर्व-दिशामें प्रदक्षिण क्रमसे आठ ८ द्वार लगते हैं, तिनके फल कहते हैं (ईशानके समीपही पूर्वके प्रथमभागमें हानि, दूसरे भागमें दरिद्रता, फिर ३ धन प्राप्ति, ४ राज्यसे लाभ, ५ में बड़ा भारी धन लाभ) ॥ १२ ॥ १३ ॥

अतिचौर्यमतिक्रोधो भीतिर्दिशि शचीपतेः ॥

निधनं बंधनं भीतिरर्थान्निर्धनवर्द्धनम् ॥ १४ ॥

फिर ६ भागमें अत्यंत चोरी, ७ में अत्यंत क्रोध, ८ में भय ये पूर्व दिशामें ८ द्वारोंके फल हैं । और दक्षिण दिशामें यथाक्रमसे मृत्यु १, बंधन २, भय ३, द्रव्यप्राप्ति ४, द्रव्यवृद्धि ५ ॥ १४ ॥

अनातंकं व्याधिभयं निःसत्त्वं दक्षिणादिशि ॥

पुत्रहानिः शत्रुवृद्धिर्लक्ष्मीप्रातिर्धनागमः ॥ १५ ॥

आरोग्य ६, व्याधिभय ७, दरिद्रता ८ ये फल दक्षिणदिशामें
आठ द्वारोंके हैं । और पुत्रहानि १, शत्रुवृद्धि २, लक्ष्मीप्राप्ति ३,
धनागम ४ ॥ १५ ॥

सौभाग्यमतिदौर्भाग्यं दुःखं शोकश्च पश्चिमे ॥

कलत्रहानिर्निःसत्त्वं हानिर्धान्यं धनागमः ॥ १६ ॥

सौभाग्य ५, अतिदौर्भाग्य ६, दुःख ७, शोक ८ ये फल पश्चि-
मदिशामें ८ द्वारोंके हैं । और स्त्रीहानि १, दरिद्रता २, हानि ३,
धान्य ४, धनागम ५, ॥ १६ ॥

संपद्वृद्धिर्महाभीतिरामयो दिशि शीतगोः ॥

एवं गृहादिषु द्वारं विस्ताराद्विगुणोच्छ्रितम् ॥ १७ ॥

संपत्तिकी वृद्धि ६, महाभय ७, रोग ८ ये फल उत्तर दिशामें
आठ द्वार करनेके हैं, ऐसे घर आदिकोंमें द्वार करने चाहिये
द्वारकी चौड़ाईसे दूनी उंचाई करनी शुभ है ॥ १७ ॥

इति प्रदक्षिणं द्वारं फलमीशानकोणतः ॥

मूलद्वारस्य चोक्तानि नान्यत्रैवं वियोजयेत् ॥ १८ ॥

ऐसे ईशानकोणसे दहिने क्रमसे द्वार करनेके सब दिशाओंके
फल कहे हैं । मूलद्वार अर्थात् मुख्य द्वारका यह फल है खिड़की
आदिका फल नहीं है ॥ १८ ॥

पश्चिमे दक्षिणे वापि कपाटं स्थापयेद्बुद्धे ॥

प्राकारतां क्षितिं कुर्यादेकाशीतिपदं यथा ॥ १९ ॥

घरसे पश्चिमकी तर्फ अथवा दक्षिणकी तर्फ किवाड़ स्थापन करने और घरमें ८१ पदका वास्तु होता है अर्थात् वास्तुमें ८१ देवते स्थित कहे हैं ॥ १९ ॥

मध्ये नवपदं ब्रह्मस्थानं तदतिनिन्दितम् ॥

द्वात्रिंशदंशाः प्राकाराः समीपांशाः समंत : । २० ॥

तहां मध्यमें ९ पद (९ कोष्ठ) ब्रह्मस्थान कहा है वह जगह प्रतिनिन्दित जानो और चारोंतर्फ किलाकी तरह भाग करके बत्तीस अंश (भाग) हैं ॥ २० ॥

पिशाचांशा गृहारंभे दुःखशोकभयप्रदाः ॥

शेषाः स्युर्गृहनिर्माणे पुत्रपौत्रधनप्रदाः ॥ २१ ॥

वे गृहारंभमें पिशाचोंके अंशहैं तिस जगहमें पहिले घर चिनना प्रारंभ करे तो दुःख, शोक, भय हो अन्य जगह किसीठौरसे घर चिनना प्रारंभ किया जावे तो पुत्र, पौत्र, धनकी प्राप्तिहोय ॥ २१ ॥

शिरस्यर्वाक्तना रेखा दिग्विदिङ्मध्यसंभवाः ॥

ब्रह्मभागपिशाचांशाः शिशूनां यत्र संहतिः ॥ २२ ॥

मध्यमें चलीहुई रेखा दिशा और कोणोंमें प्रात है तहां वास्तु पुरुषके शिरसे उरली तर्फ रेखा होती है तहां ब्रह्मभाग और पिशाचांशके शिशुओंके समूहकी स्थिति है ॥ २२ ॥

तत्र तत्र विजानीयाद्रसतो मर्मसंधयः ॥

मर्माणि संधयो नेष्टास्तेष्वेव विनिवेशने ॥ २३ ॥

तहां २ निवास करे तो वास्तुके मर्म और संधि जानना तहां प्रथम निवास करना अशुभ है ॥ २३ ॥

सौम्यफाल्गुनवैशाखमाघश्रावणकार्तिकाः ॥

मासाः स्युर्गृहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनप्रदाः ॥ २४ ॥

मार्गशिर, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, कार्तिक इन महीनोंमें घर चिनवाना प्रारंभ करे तो पुत्र, आरोग्य, धनकी प्राप्ति हो ॥ २४ ॥

अकारादिषु वर्गेषु दिक्षु प्रागादिषु क्रमात् ॥

खगेशौ तु हरीशाख्यसर्पाखुगजसूकराः ॥ २५ ॥

वर्गेशाः क्रमतो ज्ञेयाः स्ववर्गात्पंचमो रिपुः ॥

स्ववर्गे परमा प्रीतिः कथ्यते गणकोत्तमैः ॥ २६ ॥

पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमसे अकारादि वर्गोंविषे गरुड़ १, विलाव २, सिंह ३, श्वान ४, सर्प ५, मूषक ६, गज ७, सूकर ८ ये आठ वर्ग पूर्व आदि दिशाओंके जानने तहां अपने वर्गसे पांचवें वर्गको शत्रु जाने ऐसे ज्योतिषी जनोंने कहा है ॥ २५ ॥ २६ ॥

अथान्यप्रकारः ।

स्ववर्गे द्विगुणं कृत्वा परवर्गेण योजयेत् ॥

अष्टभिस्तु हरेद्भागं योऽधिकः स ऋणी भवेत् ॥ २७ ॥

और दूसरा प्रकार यह है कि अपने वर्गको दूना कर परवर्गमें मिलादेवे फिर आठका भाग देना तहां जो अंक बाकी रहे उसको फलरूप जाने इसी प्रकार पराये वर्गको भी दूना कर अपने वर्गमें मिला ८ का भाग देना अंक बँचे सो देखना इन बँचेहुए अंकोंमें जिसका अंक अधिक बँच जाय वह ऋणी जानना यहां घरके वर्गका अंक ऋणी होना ठीक है ॥ २७ ॥

क्षेत्रफलम् ।

विस्तारगुणितं दैर्घ्यं गृहक्षेत्रफलं भवेत् ॥

तत्पृथक् वसुभिर्भक्तं शेषमायो ध्वजादिकः ॥ २८ ॥

घरकी चौडाईको लंबाईसे गुणा करदेना वह क्षेत्रफल होता है, फिर आठका भाग देना बाकी रहा ध्वज आदिक आय जानना २८

ध्वजो धूमोऽथ सिंहः श्वा सौरभेयः खरो गजः ॥

ध्वांक्षश्चैव क्रमेणैतदायाष्टकमुदीरितम् ॥ २९ ॥

ध्वज १, धूम २, सिंह ३, श्वान ४, वृष ५, खर ६, गज ७, ध्वांक्ष ८ ऐसे क्रमसे ये ८ आय कहे हैं ॥ २९ ॥

ब्राह्मणस्य ध्वजो ज्ञेयः सिंहो वै क्षत्रियस्य च ॥

वृषभश्चैव वैश्यस्य सर्वेषां तु गजः स्मृतः ॥ ३० ॥

तहां ब्राह्मणको ध्वज आय शुभ है, क्षत्रियको सिंह शुभ है, वैश्यको वृष शुभ है, गज आय सब वर्णोंको शुभ है ॥ ३० ॥

कीर्त्तिः शोको जयो वैरं धनं निर्धनता सुखम् ॥

रोगश्चैते गृहारंभे ध्वजादीनां फलं क्रमात् ॥ ३१ ॥

और ध्वज १ आय आवे तो कीर्त्ति, फिर धूम २ हो तो शोक, फिर ३ जय, ४ वैर, ५ धन, ६ निर्धनता, ७ सुख, ८ रोग ऐसे इन आठ ध्वज आदिकोंका फल जानना ॥ ३१ ॥

अथ राशिफलम् ।

द्विर्द्वादशं निर्धनाय त्रिकोणं कलहाय च ॥

षडष्टकं मृत्यवे स्याच्छुभदा राशयः परे ॥ ३२ ॥

घरकी राशि व स्वामीकी राशि परस्पर दूसरे बारहवें स्थान हो तो निर्धनता फल कहना, नवमें पांचवें होवे तो कलह कहना, छठे आठवें हो तो मृत्यु कहना, अन्यराशि शुभदायक जानना ३२॥

सूर्यागारकवारांशा वैश्वानरभयप्रदाः ॥

इतरे ग्रहवारांशाः सर्वकामार्थसिद्धये ॥ ३३ ॥

सूर्य तथा मंगलकी राशिके नवांशकमें घर चिनना प्रारंभ करे तो अग्निका भय हो और अन्यवारोंके नवांशकमें करे तो सब कामना सिद्ध होवे ॥ ३३ ॥

नभस्यादिषु मासेषु त्रिषु त्रिषु यथक्रमात् ॥

यद्दिङ्मुखं वास्तु पुमान्कुर्यात्तद्दिङ्मुखं गृहम् ॥ ३४ ॥

भाद्रपद आदि तीन २ महीनोंमें पूर्वादि दिशाओंमें वास्तुका मुख रहता है जिस दिशामें वास्तुका मुख हो तिसही दिशामें घरका द्वार करना शुभहै ॥ ३४ ॥

प्रतिकूलमुखो गेहो रोगशोकभयप्रदः ॥

सर्वतोमुखगेहानामेष दोषो न विद्यते ॥ ३५ ॥

तिस्से विपरीत द्वार लगावे तो रोग शोक भय हो और जिन घरोंके चारोंतर्फ चौखट लगाई जातीहैं उन घरोंमें यह दोष नहीं होता है ॥ ३५ ॥

मृत्पेटिका स्वर्णरत्नधान्यशैवालसंयुता ॥

गृहमध्ये हस्तमात्रे गर्ते न्यासाय विन्यसेत् ॥ ३६ ॥

वास्तवायामदलं नाभिस्तस्माद्बध्यंगुलत्रयम् ॥

कुक्षिस्तस्मिन्नयसेच्छंकुं पुत्रपौत्रप्रवर्द्धनम् ॥ ३७ ॥

मृत्तिकाकी पिटारी, सुवर्ण, रत्न, धान्य, शिवाल इन सबोंको इकट्ठे कर घरके बीच एक हाथ खड़ा खोदकर तिसमें रस्वदेवे वास्तुके विस्तारदलमें नाभि है तिस नाभिसे ७ अंगुलतक कुक्षि जानना तहां शंकु रोपै तो पुत्र, पौत्र, धनकी प्राप्ति हो ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

चतुर्विंशत्रयोविंशत्षोडशद्रादशांगुलैः ॥

विप्रादीनां शंकुमानं स्वर्णवस्त्राद्यलंकृतम् ॥ ३८ ॥

चौबीस अंगुल, तेईस अंगुल, सोलह अंगुल, बारह अंगुल ऐसे ब्राह्मण आदि वर्णोंके क्रमसे शंकुका प्रमाण करना चाहिये । सुवर्ण तथा वस्त्रादिकसे शंकुको विभूषित करे ॥ ३८ ॥

खदिरार्जुनशालोत्थं पूगपत्रतरुद्भवम् ॥

रक्तचंदनपालाशरक्तशालविशालजम् ॥ ३९ ॥

खैर, अर्जुन वृक्ष, शाल, सुपारीवृक्ष, तेजपातवृक्ष, लाल चंदन, ढाक, लाल सुंदर शाल ॥ ३९ ॥

नीपकारं च कुटजं वैपावं विल्ववृक्षजम् ॥

शंकुं त्रिधा विभज्याथ चतुरस्रं ततः परम् ॥ ४० ॥

कटज वृक्ष, कदंब वृक्ष, बाँस, बेलवृक्ष इन्होंका शंकु बनाना चाहिये । शंकुमें तीन विभाग करलेवे अथवा चौकूटा शंकु करना ॥ ४० ॥

अष्टांशं च तृतीयांशमनस्रमृजुमव्रणम् ॥

एवं लक्षणसंयुक्तं परिकल्प्य शुभे दिने ॥ ४१ ॥

आठ दलका अथवा तीन दलका करना अथवा दलरहित साफ गोल करलेना ऐसे लक्षणसे युक्त शंकु बनाय शुभदिनमें इष्ट साधनकर गृहारंभ करना ॥ ४१ ॥

व्यर्कारवारलग्नेषु चापे चाष्टमवर्जिते ॥

नैधने शुद्धिसंयुक्ते शुभलग्ने शुभांशके ॥ ४२ ॥

तहां रवि मंगलके लग्न नहीं हों, अष्टमस्थानमें धनु लग्न नहीं हो, अष्टम घरमें कोई ग्रह नहीं हो, शुभलग्न तथा शुभराशिका नवांशक होवे तब ॥ ४२ ॥

शुभेक्षितेऽथ वा युक्ते लग्ने शंकुं विनिःक्षिपेत् ॥

पुण्याहवाचैर्वादित्रैः पुण्यैः पुण्यांगनादिभिः ॥ ४३ ॥

शुभग्रहोंकी दृष्टि हो, शुभग्रहयुक्त हो, ऐसे लग्नमें शंकुको स्थापितकरै पुण्याहवाचन बाजा, गीत, स्त्रीमंगलगीत इन्होंसे मंगल कराना ॥ ४३ ॥

स्वकेंद्रस्थैस्त्रिकोणस्थैः शुभैर्हयायारिगैः परैः ॥

लग्नात्षष्ठायचंद्रेण दैवज्ञार्चनपूर्वकम् ॥ ४४ ॥

शुभग्रह धनस्थान तथा केंद्रमें होवे अथवा ९।५ घरमें हो और पापग्रह ३।१।६ घरमें हो, चंद्रमा ६ तथा ११ होवे ऐसे लग्नमें ज्योतिषीके पूजन पूर्वक घर चिनवाना प्रारंभ करै ॥ ४४ ॥

एकद्वित्रिचतुःशालाः सप्तशालाह्वयाः स्मृताः ॥

ताः पुनः षड्विधाः शालाः प्रत्येकं दशषड्विधाः ॥ ४५ ॥

एक शालासे युक्त घर, दो शालावा तीन, चार, सात शालाका घर होता है तिनके भी छह भेदहैं सोलहप्रकारके घर होते हैं तिनके नाम ॥ ४५ ॥

ध्रुवं धान्यं जयं नंदं खरं कांतं मनोरमम् ॥

सुमुखं दुर्मुखं क्रूरं शत्रुस्वर्णप्रदं क्षयम् ॥ ४६ ॥

आक्रंदं विपुलाख्यं च विजयं षोडशं गृहम् ॥
गृहाणि षण्णवत्येव तेषां प्रस्तारभेदतः ॥ ४७ ॥

ध्रुव १ धान्य २ जय ३ नंद ४ खर ५ कांत ६ मनोरम ७
सुमुख ८ दुर्मुख ९ क्रूर १० शत्रुप्रद ११ स्वर्णप्रद १२ क्षयप्रद १३
आक्रंद १४ विपुल १५ विजय १६ ऐसे ये सोलह प्रकारके घर
होतेहैं इनके प्रस्तारका भेदसे १६ प्रकारके भेद होतेहैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

गुरोरधो लघुः स्थाप्यः पुरस्तादूर्ध्ववन्न्यसेत् ॥
गुरुभिः पूजयेत्पश्चात्सर्वलब्धविधिर्विधिः ॥ ४८ ॥

गुरुस्थानके नीचे लघु स्थापित करना तिसके आगे ऊपरके
क्रमसे लिखै फिर बड़े छोटे स्थानोंका भेद करना ऐसे एक
घरके छह २ भेदहोनेसे १६ भेद होवेंगे ॥ ४८ ॥

दिक्षु पूर्वादितः शालाध्रुवा भूद्रौ कृता गजाः ॥
शालाध्रुवांकसंयोगः सैको वेश्म ध्रुवादिकम् ॥ ४९ ॥

अब सोलह नामवाले इन घरोंके भेद कहतेहैं । पूर्वद्वारवाले
मकानका ध्रुवांक १ है । दक्षिणद्वारवाले मकानका ध्रुवांक २
पश्चिमद्वारवाले मकानका ध्रुवांक ८ है । उत्तरद्वारवाले मकानका ध्रुवांक
८ है इस ध्रुवांकमें १ मिलाकर जितनी संख्या हो वह ध्रुव धान्यआदि
संज्ञावाला मकान जानना जैसे पूर्वपश्चिम दो द्वारोंवाला मकान
होवे तो पूर्वका ध्रुवांक १ पश्चिमका ४ जोड़ ५ हुआ १ मिला
६ हुआ तो यह कांतनामक स्थान जानना ॥ ४९ ॥

स्नानागारं दिशि प्राच्यामाग्नेय्यां पचनालयम् ॥

याम्यायां शयनागारं नैर्ऋत्यां शस्त्रमंदिरम् ॥ ५० ॥

मकानकी पूर्वदिशामें स्नानकरनेका स्थान, अग्निकोणमें रसोई पकानेका स्थान, दक्षिणमें सोनेका मकान, नैर्ऋतमें शस्त्रस्थान करना ॥ ५० ॥

एवं कुर्यादिदं स्थानं क्षीरपानाज्यशालिकाः ॥

शय्यामूत्रास्त्रतद्विद्याभोजनामंगलाश्रयाः ॥ ५१ ॥

और दूध, जलपान, घृत इन्होंके स्थान ईशानकोणमें शय्या, मूत्र, शस्त्र, भोजन इनके स्थान अग्निकोणमें ॥ ५१ ॥

धान्यस्त्रीभोगवित्तं च शृंगारायतनानि च ॥

ईशान्यादिक्रमस्तेषां गृहनिर्माणकं शुभम् ॥ ५२ ॥

धान्य, स्त्रीभोग, धन ये स्थान नैर्ऋतमें, शृंगारादिकके स्थान वायव्य कोणमें ऐसे ईशानादिक कोणोंमें ये भी स्थान कहेहैं ॥ ५२ ॥

एते स्वस्थानशस्तानि स्वस्वायस्वस्वदिश्यपि ॥

प्लक्षोदुंबरचूताख्या निबस्तुहीविभीतकाः ॥ ५३ ॥

ये अपने २ कर्मविस्तारके योग्य स्थान अपनी २ कोणमें होनेसे शुभ हैं जैसे अग्निस्थान अग्निकोणमें होना शुभहै और मकानके आगे पिलखन, गलर, आम, नींब, थोहर, बहेडा ॥ ५३ ॥

ये कंटका दग्धवृक्षा वटाश्वत्थकपित्थकाः ॥

अगस्त्यशिष्टुतालाख्यतितिणीकाश्च निर्दिताः ॥ ५४ ॥

ये वृक्ष तथा कांटेवाले वृक्ष, जलेहुए वृक्ष, बड, पीपल, कैथ, अगस्तिवृक्ष, सहौंजना वृक्ष, ताडवृक्ष, अमलीवृक्ष ये वृक्ष अत्यंत निंदित कहे हैं घरके आगे नहीं लाने चाहिये ॥ ५४ ॥

पितृवत्स्वाग्रजं गेहं पश्चिमे दक्षिणेऽपि वा ॥

गृहपादा गृहस्तंभाः समाः शस्ताश्च नो समाः ॥ ५५ ॥

पिताका तथा बडे भाईका घर अपने घरसे पश्चिम तथा दक्षिण दिशामें कराना योग्यहै घरके पाद और स्तंभ समान होने चाहियें ऊंचे नीचे नहीं होने चाहियें ॥ ५५ ॥

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं कुड्योत्सेधं यथारुचि ॥

गृहोपरि गृहादीनामेवं सर्वत्र चिंतयेत् ॥ ५६ ॥

भातिकांकी उंचाई ज्यादा ऊंची नहीं और ज्यादा नीची नहीं करनी सुंदर करनी और घरके ऊपर उतनीही ऊंची भीत उसी जगह द्वार आदि नहीं करने ॥ ५६ ॥

गृहादीनां गृहे स्राव्यं क्रमशो विविधं स्मृतम् ॥

पंचालमानं वैदेहं कौरवं चैव कन्यकाम् ॥ ५७ ॥

घर आदिकोंमें जल गिरनेके पतनाल अनेक विधिसे करने शुभहैं और पंचाल, वैदेह, कुरु, कान्यकुब्ज इन देशोंका मान हस्तादिक कहा हुआ परिमाण ठीक है ॥ ५७ ॥

मागंधं शूरसेनं च वंगमेवं क्रमः स्मृतः ॥

तं चतुर्भागविस्तारं संशोधय तदुच्यते ॥ ५८ ॥

मागध, शूरसेन, बंगाला इन्होंके मानसे अपने (मध्यदेशका) मानविस्तार चौगुना शुभहै ॥ ५८ ॥

पंचालमानमतुलमुत्तरोत्तरवृद्धितः ॥

वैदेहादीनि शेषाणि मानानि स्युर्यथाक्रमात् ॥ ५९ ॥

पंचाल देश (पंजाब) का मान ठीक अन्यदेशोंके मानसे उत्तरोत्तर बढ़ाकर मान (तोलादिक) लना चाहिये ॥ ५९ ॥

पंचालमानं सर्वेषां साधारणमतः परम् ॥

अवंतिमानं विप्राणां गांधारं क्षत्रियस्य च ॥ ६० ॥

पंचालदेशका मान साधारणतासे सभी देशोंमें मानना योग्य है और अवंती (उज्जैन) का मान ब्राह्मणोंको शुभहै क्षत्रियको गांधार देशका ॥ ६० ॥

कौजन्यमानं वैश्यानां विप्रादीनां यथोत्तरम् ॥

यथोदितजलस्राव्यं द्वित्रिभूमिकवेश्मनः ॥ ६१ ॥

वैश्योंको कौजन्यदेशका मान ग्रहण करना । ब्राह्मण आदिकोंने यथोत्तर वृद्धिभागसे परिमाण लेना जिस मकानमें दो तीन शाला होवें उसमें जल पडनेका स्थान यथायोग्य करना चाहिये ॥ ६१ ॥

उष्ट्रकुंजरशालानां ध्वजायोऽप्यथवा गजे ॥

पशुशालाश्वशालानां ध्वजायोऽप्यथवा वृषे ॥

द्वारे शय्यासना मंत्रे ध्वजसिंह वृषाः शुभाः ॥ ६२ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां वास्तुविधानाध्याय

एकत्रिंशत्तमः ॥ ३१ ॥

ऊंट हाथि आदिकोंकी शालामें पूर्वोक्त ध्वज आय अथवा गज-संज्ञक आय रहना शुभ है और गौआदि पशुओंकी शाला तथा

अश्वोंकी शालामें ध्वज अथवा वृष आय शुभहै और शय्या, आसन,
मंत्र इन्होंकी शालाके द्वारमें ध्वज, सिंह, वृष ये आय शुभ कहे हैं ६२

इति श्रीनारदीयसं० भाषा० वास्तुविधानाध्याय

एकत्रिंशत्तमः ॥ ३१ ॥

वास्तुपूजामहं वक्ष्ये नववेशमप्रवेशने ॥

हस्तमात्रा लिखेद्रेखा दशपूर्वा दशोत्तराः ॥ १ ॥

अब नवीन घरमें प्रवेश होनेके समय वास्तुपूजाको कहतेहैं । एक
हस्तप्रमाण वेदीपर दश रेखा पूर्वको और दश रेखा उत्तरको
खींचे ॥ १ ॥

गृहमध्ये तण्डुलोपर्य्येकाशीतिपदं भवेत् ॥

पंचोत्तरान्वक्ष्यमाणांश्चत्वारिंशत्सु वा न्यसेत् ॥ २ ॥

फिर तिन कोष्ठोंमें चावल रखकर ८१ कोष्टक बनावे तहां
पांच और चौतालीस अर्थात् ४९ देवता भीतरके अलग हैं ॥ २ ॥

द्वात्रिंशद्बाह्यतः पूज्या स्तत्रांतःस्थास्त्रयोदश ॥

तेषां स्थानानि नामानि वक्ष्यामि क्रमशोऽधुना ॥ ३ ॥

और बत्तीस देवता बाहिर पूजने चाहियें तिनके भीतर भी
तेरह देवता अलगहैं अब क्रमसे तिनके नामोंको कहेंगे ॥ ३ ॥

ईशानकोणतो बाह्या द्वात्रिंशत्त्रिदशा अमी ॥

कृपीटयोनिः पर्जन्यो जयंतः पाकशासनः ॥ ४ ॥

ईशानकोणमें ये बत्तीस ३२ बाह्यसंज्ञक देवताहैं कि अग्नि,
पर्जन्य, जयंत, पाकशासन ॥ ४ ॥

सूर्यसत्यौ भृशाकाशौ वायुः पूषा च नैऋतः ॥

गृहर्क्षतो दंडधरो गांधर्वो मृगराजकः ॥ ५ ॥

सूर्य, सत्य, भृश, आकाश, वायु, पूषा, नैऋत, गृहर्क्षत, दंडधर,
गांधर्व, मृगराजक ॥ ५ ॥

मृगपितृगणाधीशस्ततो दौवारिकाह्वयः ॥

सुग्रीवः पुष्पदंतश्च जलाधीशस्तथासुरः ॥ ६ ॥

मृग, पितरगणाधीश, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंतक, जलाधीश,
असुर ॥ ६ ॥

शेषश्च पापरोगश्च भोगी मुख्यो निशाकरः ॥

सोमः सूर्योऽदितिदिती द्वात्रिंशत्त्रिदशा अमी ॥ ७ ॥

शेष, पापरोग, भोगी, मुख्य, निशाकर, सोम, सूर्य, अदिति,
दिति ये बत्तीस देवता हैं ॥ ७ ॥

अथेशान्यादिकोणस्थाश्चत्वारस्तत्समीपगाः ॥

आपः सवितृसंज्ञश्च जयो रुद्रः क्रमादमी ॥ ८ ॥

और ईशानआदि कोणोंमें स्थित तिनके समीपके चार देवता
ये हैं कि आप, सविता, जय, रुद्र ये क्रमसे ४ दिशाओंमें
जानने ॥ ८ ॥

मध्ये नव पदो ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगाः ॥

एकांतराः स्युः प्रागाद्याः परितो ब्रह्मणः स्मृतः ॥ ९ ॥

मध्यमें नव कोष्ठमें ब्रह्मा और तिसके समीप ८ हैं वे
पूर्वआदि दिशाओंमें एक २ के अंतरसे ब्रह्माके चारोंतर्फ
स्थितहैं ॥ ९ ॥

अर्यमा सविता चैव विवस्वान्विबुधाधिपः ॥

मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधराह्वयः ॥ १० ॥

अर्यमा, सविता, विवस्वान्, विबुधाधिप, मित्र, राजयक्ष्मा,
पृथ्वीधर ॥ १० ॥

आपवत्सोष्टमः पंचचत्वारिंशत्सुरा अमी ॥

आपश्चैवापवत्सश्च पर्जन्योऽग्निर्दितिः क्रमात् ॥ ११ ॥

पदिकानां च वर्गोयमेवं कोणेष्वशेषतः ॥

तन्मध्ये विंशतिर्बाह्या द्विपदास्तेषु सर्वदा ॥ १२ ॥

आपवत्स ये आठ हैं ऐसे ये सब मिलकर ४९ होते हैं और
आप, आपवत्स, पर्जन्य, अग्नि, दिति ये क्रमसे चारोंकोणमें रहते हैं
ऐसे यह पदिकोंका वर्ग कहाता है तिनके मध्यमें बीस देवता बाह्य हैं
वे सदा द्विपद कहे हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

अर्यमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधराह्वयः ॥

ब्रह्मणः परितो दिक्षु चत्वारस्त्रिदशाः स्मृताः ॥ १३ ॥

अर्यमा, विवस्वान्, मित्र, पृथ्वीधर ये ब्रह्मसे चारोंतरफ़ त्रिपद-
संज्ञक कहे हैं ॥ १३ ॥

ब्रह्माणं च तथैकद्वित्रिपदानर्चयेत्सुरान् ॥

वास्तुमंत्रेण वास्तुज्ञो दूर्वादध्यक्षतादिभिः ॥ १४ ॥

सो वहां ब्रह्माको और एकपदिक, द्विपदिक, त्रिपदिक, देवता-
ओंको पूजे वास्तुको जाननेवाला द्विज वास्तुमंत्रसे दूर्वा, अक्षत, वही
आदिकोंसे वास्तुका पूजन करे ॥ १४ ॥

ब्रह्ममंत्रेण वा श्वेतवस्त्रयुग्मं प्रदापयेत् ॥

तांबूलं च ततो दत्त्वा प्रार्थयेद्वास्तुपुरुषम् ॥ १५ ॥

ब्रह्माके मंत्रसे दो सफेद वस्त्र चढावे और तांबूल चढाकर
वास्तुपुरुषकी प्रार्थना करै ॥ १५ ॥

आवाहनादिसर्वोपचारांश्च क्रमशस्तथा ॥

नैवेद्यं विविधानेन वाद्याद्यैश्च समर्पयेत् ॥ १६ ॥

आवाहन आदि सम्पूर्ण उपचार क्रमसे करने चाहियें । नैवेद्य
अनेकप्रकारके भोजन चढाकर अनेक प्रकारके बाजे बजवाकर
समर्पण करै ॥ १६ ॥

वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूशय्याभिरत प्रभो ॥

मद्गृहं धनधान्यादिसमृद्धं कुरु सर्वदा ॥ १७ ॥

भूमिकी शय्यापर अभिरत रहनेवाले हे प्रभो ! तुमको नमस्कार है
औरे घरको सदा धनधान्यसे भरपूर करो ॥ १७ ॥

इति प्रार्थ्यं यथाशक्त्या दक्षिणामर्चकाय च ॥

दद्यात्तदग्रे विप्रेभ्यो भोजनं च स्वशक्तितः ॥ १८ ॥

ऐसी प्रार्थना कर शक्तिके अनुसार पजन करानेवाले ब्राह्मणको
दक्षिणा देवे और तिन देवतोंके सन्मुख विठाकर श्रद्धाके अनुसार
ब्राह्मणोंको भोजन करावे ॥ १८ ॥

अनेन विधिना सम्यग्वास्तुपूजां करोति यः ॥

आरोग्यं पुत्रलाभं च धनं धान्यं लभेत सः ॥ १९ ॥

इस विधिसे अच्छे प्रकारसे जो पुरुष वास्तुपूजा करता है वह
आरोग्य, पुत्र, धन धान्य, इन्होंको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

अकपाटमनाच्छन्नमदत्तबलिभोजनम् ॥

गृहं न प्रविशेदेव विपदामाकरं हि तत् ॥ २० ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां वास्तुलक्षणाध्यायो

द्वात्रिंशत्तमः ॥ ३२ ॥

बिना क्वाड़ोंवाला, बिना ढका हुआ, और जिसमें बलिदान तथा ब्रह्मभोज्य नहीं हुआ हो ऐसे स्थानमें प्रवेश नहीं करना चाहिये क्योंकि वह विपत्तियोंका खजाना है ॥ २० ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां वास्तुलक्षणाध्यायो

द्वात्रिंशत्तमः ॥ ३२ ॥

॥ अथ यात्राप्रकरणम् ॥

अथ यात्रा यथा नृणामभीष्टफलसिद्धये ॥

स्यात्तथा ता प्रवक्ष्यामि सम्यग्विज्ञातजन्मनाम् ॥१॥

जिस प्रकार मनुष्योंको अभीष्ट फलदायी यात्रा होती है तिसको ज्ञानवान् द्विजातियोंकेवास्ते अच्छे प्रकारसे कहते हैं ॥ १ ॥

अज्ञातजन्मनानृणां फलातिर्घुणवर्णवत् ॥

प्रश्नोदयनिमित्ताद्यैस्तेषामपि फलोदयः ॥ २ ॥

और जो अज्ञातजन्मवाले मूर्ख जनहैं तिनको घुणाक्षरन्यायसे कभी सुखकी प्राप्ति होजाती है (घुणाक्षरन्याय यह है कि जैसे घूण लकड़ीको खाता है वहां चिह्न होता है तो कभी दैवयोगसे राम ऐसे अक्षर भी लिखे जाते हैं यह घणाक्षर न्याय है) तिन

मूर्खाँको भी प्रशोदय निमित्तआदिकोंसे ही फलका उदय होता है ॥ २ ॥

षष्ठ्यष्टमी द्वादशी च रिक्तामा पूर्णिमासु च ॥

यात्रा शुक्लप्रतिपदि निधनायाधनाय च ॥ ३ ॥

षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, रिक्तातिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्लपक्षकी प्रतिपदा इन्होंमें यात्रा करने मृत्युके वास्ते और निर्धनताके वास्ते कही है ॥ ३ ॥

पौष्णेकैद्रश्चिमित्राग्निहरितिष्यव सूडुषु ॥

नव सप्त पंचायेषु यात्राभीष्टफलप्रदा ॥ ४ ॥

रेवती, हस्त, मृगशिर, अश्विनी, अनुराधा, कृत्तिका, श्रवण, पुष्य, धनिष्ठा इन नक्षत्रोंमें यात्रा करना शुभ है नवमां, पांचवां, सातवां, ग्यारहवां चंद्रमा शुभ है ॥ ४ ॥

न मंदेन्दुदिने प्रार्ची न ब्रजेदक्षिणां गुरौ ॥

सितार्कयोर्न प्रतीचीं नोदीचीं ज्ञारयोर्दिने ॥ ५ ॥

सोम तथा शनिवारको पूर्वदिशामें गमन नहीं करना, बृहस्पति-वारको दक्षिणमें गमन नहीं करना, शुक्र तथा रविवारको पश्चिमको गमन नहीं करना, बुध और मंगलवारको उत्तर दिशामें गमन नहीं करना ॥ ५ ॥

इन्द्रोजपादचतुरास्यार्यमर्शाणि पूर्वतः ॥

शूलानि सर्वद्वाराणि मैत्रार्केज्याश्विभानि च ॥ ६ ॥

ज्येष्ठा १, पूर्वाषाढ २, रोहिणी ३, उत्तराफाल्गुनी ४ ये नक्षत्र यथाक्रमसे पूर्वआदि दिशामें शूलरूप हैं और अनुराधा, हस्त, पुष्य, अश्विनी ये नक्षत्र सब दिशाओंमें शुभ हैं ॥ ६ ॥

क्रमादिग्द्वारभानि स्युः सप्तसप्तत्रिंशद्विधेः ॥

वाय्वग्निदिग्गतं दंडं परिघं तु न लंघयेत् ॥ ७ ॥

और कृत्तिका आदि सात २ नक्षत्र पूर्वआदि दिशाओंमें यथाक्रमसे दिग्द्वार नक्षत्र कहे हैं । और वायु तथा अग्निकोणमें रेखादंड है अर्थात् पूर्वदिग्द्वारि नक्षत्रोंमें उत्तरको गमन करना और दक्षिण पश्चिमकी एकता करनी परंतु इस वायव्य अग्निकोणकी रेखाको उलंघन नहीं करना इस परिघमें गमन नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥

आग्नेय्यां पूर्वदिग्घिषण्यैर्विदिशश्चैवमेव हि ॥

दिग्ग्राशयस्तु क्रमशो मेषाद्याश्च पुनःपुनः ॥ ८ ॥

और कोणोंमें गमनकरना हो तो यह व्यवस्था है कि पूर्वदिग्द्वारि नक्षत्रोंमें अग्निकोणमें गमन करना फिर इसी क्रमसे दक्षिणदिशाके नक्षत्रोंमें नैर्ऋतमें गमन करना । वायव्यके नक्षत्रोंमें पश्चिमके नक्षत्रोंमें गमन करना और मेषादिक राशि तीन बार आवृत्ति होकर पूर्वादिदिशाओंमें रहती हैं जैसे १ । ५ । ९ पूर्वमें २ । ६ । १० दक्षिण० ३ । ७ । ११ पश्चि० ४ । ८ । १२ उत्तरमें यही चंद्रमाका वास है ॥ ८ ॥

अथ दिक्स्वामिनः लालाटियोगश्च ।

दिगीशाः सूर्यशुक्रारराहार्कीन्दुज्ञसूर्यः ॥

दिगीश्वरे ललाटस्थे यातुर्न पुनरागमः ॥ ९ ॥

सूर्य १, शुक्र २, मंगल ३, राहु ४, शनि ५, चंद्रमा ६, बुध ७, बृहस्पति ८ ये पूर्व आदि दिशाओंके स्वामी हैं । दिगीश्वर ग्रह ललाट (मस्तक) पर होय तब गमन करनेवालोंका फिर उलटा आगमन नहीं हो ॥ ९ ॥

लग्नस्थो भास्करः प्राच्यां दिशि यातुर्ललाटगः ॥

द्वादशैकादशः शुक्र आग्नेय्यां तु ललाटगः ॥ १० ॥

जैसे कि लग्नमें सूर्य होवे तब पूर्वदिशामें जानेवालेको ललाट योग है और १२ । ११ वर शुक्र हो तब अग्निकोणमें ललाट योग है ॥ १० ॥

दशमस्थो कुजो लग्नाद्याम्यायां तु ललाटगः ॥

नवमोऽष्टमगो राहुर्नैर्ऋत्यां तु ललाटगः ॥ ११ ॥

लग्नसे १० वर मंगल हो तब दक्षिणादशामें और लग्नसे नवमें तथा आठवें राहु होवे तब नैर्ऋत कोणमें ललाटग योग है ॥ ११ ॥

लग्नात्सप्तमगः सौरिः प्रतीच्यां तु ललाटगः ॥

षष्ठपंचमगश्चंद्रो वायव्यां तु ललाटगः ॥ १२ ॥

लग्नसे ७ शनि हो तब पश्चिमदिशामें ललाटग योग है छठे और पांचवें चंद्रमा हो तब वायव्य कोणमें ललाटग है ॥ १२ ॥

चतुर्थस्थानगः सौम्य उत्तरस्यां ललाटगः ॥

द्वित्रिस्थानगतो जीव ईशान्यां तु ललाटगः ॥ १३ ॥

चौथे स्थान बुध हो तब उत्तर दिशामें ललाटयोग है, लग्नसे २ । ३ वर बृहस्पति हो तब ईशान कोणमें जानेवालेके मस्तकपर दिगीश्वर है ॥ १३ ॥

ललाटगं तु संत्यज्य जीवितेच्छुर्व्रजेन्नरः ॥

विलोमगो ग्रहो यस्य यात्रालग्नोपगो यदि ॥ १४ ॥

जीवनेकी इच्छायाला मनुष्य इस ललाटग योगको त्यागकर गमन करै राजाको जो ग्रह जन्मलग्नमें नेष्टहो वह ग्रह यात्रालग्नमें हो तो उस लग्नमें ॥ १४ ॥

तस्य भंगप्रदो राज्ञस्तद्गर्गोपि विलग्नगः ॥

रवीद्वयनयोर्यानमनुकूलं शुभप्रदम् ॥ १५ ॥

राजा गमन करे तो मनोरथ भंग है और उस ग्रहकी राशिका नवांशक भी अशुभ है । और सूर्य चंद्रमाकी अयनके अनुकूल गमनकरना शुभ है जैसे सूर्य उत्तरायण हो चंद्रमाभी उत्तरायण हो तब उत्तर पूर्वमें गमन करना और सूर्य चंद्रमा दक्षिणायन होवे तब दक्षिण पश्चिममें गमन करना ॥ १५ ॥

तदभावे दिवा रात्रौ यात्रा यातुर्वधोऽन्यथा ॥

मूढे शुके कार्यहानिः प्रतिशुके पराजयः ॥ १६ ॥

और जो सूर्य चंद्रमा भिन्न २ अयनमें होवें तो सूर्यकी अयनमें तो दिनमें गमन करना और चंद्रमाके अयनमें रात्रिमें गमन करना इससे अन्यथा गमन करनेवालेका वध होताहै । शुक्रास्तमें गमनकरे तो कार्यकी हानि हो शुक्रकी सन्मुख गमन करे तो परजाय हार) होवे ॥ १६ ॥

प्रतिशुक्रकृतं दोषं हंति शुक्रो ग्रहा न हि ॥

वसिष्ठः काश्यपेयोत्रिभरद्वाजः सगौतमः ॥ १७ ॥

शुक्रके सन्मुख गमनके दोषको शुक्रही दूर करसकताहै अन्यग्रह नहीं करसकते । और वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज गौतम ॥ १७ ॥

एतेषां पंचगोत्राणां प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥

एकग्रामे विवाहे च दुर्भिक्षे राजविप्लवे ॥ १८ ॥

इन पांच गोत्रवालोंको शुक्रके सन्मुख जानेका दोष नहींहै और एक ग्राम, विवाह, दुर्भिक्ष, राजभंग ॥ १८ ॥

द्विजशोभे नृपशोभे प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥

नीचगोऽरिग्रहस्थो वा वक्रगो वा पराजितः ॥ १९ ॥

ब्राह्मणशाप, राजाका क्रोध इन कामोंमें शुक्रके सन्मुख जानेका दोष नहीं है। नीचराशिपर स्थित, शत्रुके घरमें स्थित, वक्री अथवा पापग्रहोंसे आक्रांत ॥ १९ ॥

यातुर्भंगप्रदः शुक्रः स्वांशस्थे च जयप्रदः ॥

स्वेष्वल्लग्न्येष्टराशौ वा शत्रुभात्पष्टगोपि वा ॥ २० ॥

ऐसा शुक्र गमनकरनेवालेके मनोरथको नष्ट करताहै और अपनी राशिके नवांशक्रमें स्थित होय तो विजय करताहै स्वेष्वल्लग्न्येष्टमें अथवा लग्नसे आठवीं राशिपर अथवा शत्रुकी राशिसे छठी राशिपर शुक्र हो ॥ २० ॥

तेषाम्निशस्य राशौ वा यातुर्मृत्युर्न संशयः ॥

जन्मेशाष्टमलग्न्येष्टौ मिथो मित्रव्यस्थितौ ॥ २१ ॥

अथवा शत्रुओंकी राशि लग्नके स्वामीके घरमें हो तब गमनकरनेवालेकी मृत्यु होतीहै और जन्मलग्न तथा जन्मलग्नसे आठवें घरका पति इन दोनोंकी आपसमें मित्रता होवे ॥ २१ ॥

जन्मराश्यष्टमक्षेषु दोषा नश्यन्ति भावतः ॥

क्रूरग्रहेक्षितो युक्तो द्विस्वभावोपि भंगदः ॥ २२ ॥

फिर वे जन्मलग्नमें तथा आठवें घरमें स्थित होंवे तो स्वभावमें ही सब दोष नष्ट होजाते हैं और क्रूरग्रहसे युक्त तथा दृष्ट पापग्रह कार्यको भंग करताहै ॥ २२ ॥

याने शुभैरदृष्टश्च शुभयुक्तेक्षितः शुभः ॥

वस्वन्त्यार्द्धादिपंचक्षे संग्रहे तृणकाष्ठयोः ॥

याम्यदिग्गमनं शय्या कुर्यान्नो गृहगोपनम् ॥ २३ ॥

गमनसमय वह पापग्रह शुभग्रहोंसे दृष्ट नहीं हो तो अशुभ है और शुभग्रहोंसे युक्त तथा दृष्ट हो तो शुभ जानना। और धनिष्ठाका अर्ध उत्तरभाग आदि, रेवतीपर्यंत पांच नक्षत्र पंचक कहलातेहैं तिनमें तृण काष्ठ आदिका संग्रह नहीं करना और दक्षिण-दिशामें गमन नहीं करना, शय्या नहीं बनानी, घर नहीं छावना ॥ २३ ॥

जन्मोदये लग्नगते दिग्लग्ने लग्नगोपि वा ॥

शुभे चतुर्षु केंद्रेषु याते शत्रुक्षयो भवेत् ॥ २४ ॥

जन्मलग्न शुभग्रहोंसे युक्तहो तिस लग्नमें अथवा दिग्द्वारि लग्नमें तथा शुभग्रह चारों केंद्रोंमें प्राप्त होनेके समय गमन करे तो शत्रु नष्ट होंवे ॥ २४ ॥

शीर्षोदये लग्नगते दिग्लग्ने लग्नतोपि वा ॥

शुभवर्गेथ वा लग्ने यातुः शत्रुक्षयो भवेत् ॥ २५ ॥

शीर्षोदय कहिये ५। ६। ७। ८। ११ ये लग्न होवें अथवा दिग्द्वारि लग्न हो अथवा शुभग्रहकी राशिका लग्न हो तब गमन करनेवालेको शुभफल होता है ॥ २५ ॥

शीर्षोदये जन्मराशौ लग्नं शुभयुतं तथा ॥

तयो राशिस्थिते राशौ यातुः शत्रुक्षयो भवेत् ॥ २६ ॥

शीर्षोदय लग्न विषे जन्मकी राशि हो अथवा शुभ ग्रहसे युक्त जन्मलग्न हो तब उसी राशिके लग्नविषे गमन करे तो शत्रु नष्ट हो ॥ २६ ॥

शत्रुजन्मोदये जन्म राशिश्च निधनं तयोः ॥

यो राशिस्तत्र वै राशौ यातुः शत्रुक्षयो भवेत् ॥ २७ ॥

शत्रुका जन्मलग्न और जन्मराशिसे आठवीं राशिके लग्नमें गमन करे तो गमन करनेवालेका शत्रु नष्ट हो ॥ २७ ॥

वक्रे तथा मीनलग्ने यातुर्मीनांशकेऽपि वा ॥

निधं निखिलयात्रासु घटलग्नं घटांशकः ॥ २८ ॥

मीन लग्नमें तथा मीनके नवांशकमें गमन करना अशुभ है और कुंभलग्न तथा कुंभके नवांशकमें सब तर्फकी यात्रा करनी अशुभ है ॥ २८ ॥

जलोदये जलांशे वा जलजातेः शुभावहाः ॥

मूर्तिकोशोथ धानुष्कं वाहनं मंत्रसंज्ञकम् ॥ २९ ॥

शत्रुमार्गस्तथायुश्च भाग्यं व्यापारसंज्ञितः ॥

प्राप्तिरप्राप्तिरुदयाद्भावाः स्युर्द्रादशैव तु ॥ ३० ॥

जलचर राशिके लग्नें तथा नवांशकमें जलजातिके कार्य करने शुभदायक हैं । अब स्थानसंज्ञा कहतेहैं मूर्ति १, कोश २, धानुष्क ३, वाहन ४, मंत्र ५, शत्रु ६, मार्ग ७, आयु ८, भाग्य ९, व्यापार १०, प्राप्ति ११, व्यय १२ ये प्रथम आदि बारह भावोंके नाम हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥

हांति पापस्त्वायवर्जं भावात्सूर्यमहीसुतौ ॥

न निहतोऽरिगेहं च सौम्याः पुष्यंत्यरिं विना ॥ ३१ ॥

पापग्रह ग्यारहवें घरविना अन्य घरको नष्ट करता है और सूर्य मंगल छठे घरमें अशुभ नहीं हैं और शुभ ग्रह छठे घरविना अन्य घरोंमें शुभदायक हैं ॥ ३१ ॥

शुक्रोस्तं चापि पुष्टोपि मूर्तिर्मृत्युश्च चंद्रमाः ॥

याम्यदिग्गमनं रिक्ता सर्वकाष्ठासु याधिनाम् ॥ ३२ ॥

शुक्र सातवें अशुभ है और बली भी चंद्रमा लग्नें तथा आठवें घर अशुभ है विशेषकरके दक्षिण दिशामें अशुभ है और रिक्तातिथि सब दिशाओंमें वर्जित हैं ॥ ३२ ॥

अभिजित्क्षणयोगोयमभीष्टफलसिद्धिदः ॥

पंचांगशुद्धिरहिते दिवसेऽपि फलप्रदः ॥ ३३ ॥

ऐसे मुहूर्त्तमें अभिजित् क्षणयोग होता है तिसमें गमन करनेसे मनोरथ सिद्ध होताहै पंचांगशुद्धि रहित दिनमें भी यह योग संपूर्ण शुभदायक है ॥ ३३ ॥

यात्रा योगे विचित्रास्तान्येन वक्ष्ये इतस्ततः ॥

फलसिद्धिर्योगलग्नाद्राज्ञो विप्रस्य धिष्ण्यतः ॥ ३४ ॥

अच्छे ग्रहयोग होनेमें यात्रा अनेक प्रकार फल देनेवाली होती है इसलिये तिन योगोंको कहते हैं । राजाओंकी योग लग्नमें सिद्धि होती है, ब्राह्मणोंकी शुभ नक्षत्रमें गमन करनेसे सिद्धि होती है ॥ ३४ ॥

मूर्तितः शक्तितोन्येषां शकुनैस्तस्करस्य च ॥

केंद्रत्रिकोणेष्वेकेन योगः शुक्रेण सूरिणा ॥ ३५ ॥

अतियोगो भवेद्वाभ्यां त्रिभिर्योगो धियोगकः ॥

योगे यियासतां क्षेममतियोगे जंयो भवेत् ॥ ३६ ॥

अन्य वैश्य आदिकोंकी लग्नसे तथा अच्छे शुभ मुहूर्त्तसे सिद्धि होती है, चोर गमन करे तब अच्छा शुभ शकुन होनेसे ही सिद्धि होती है । केंद्रमें अथवा त्रिकोणमें अकेला शुक्र अथवा अकेला बृहस्पति होय तो एक अच्छा योग होता है और दोनों हों तो अतियोग होता है, तीन ग्रहोंका अच्छा योग हो तो अधियोग होता है एक अच्छा योगमें गमन करे तो क्षेम कुशल रहे अतियोगमें जय हो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

योगातियोगे क्षेमं च विजयाय विभूतयः ॥ ३७ ॥

अधियोगमें गमन करे तो क्षेम विजय विभूति होती है ॥ ३७ ॥

व्यापारशत्रुमूर्तिस्थैश्चंद्रमंददिवाकरैः ॥

रणे गतस्य भूपस्य जयलक्ष्मीप्रमाणता ॥ ३८ ॥

दशावां तथा छठा घरमें वा लग्नमें चंद्रमा, शनि, सूर्य होवे तो रणमें प्राप्तहुए (गमनकरनेवाले) राजाको विजयलक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ॥ ३८ ॥

अथान्ययोगं चित्रपदमाह ।

वित्तगतः शशिपुत्रो भ्रातरि वासरनाथः ॥

लग्नगते भृगुपुत्रे स्युः शलभा इव सर्वे ॥ ३९ ॥

अब चित्रपदा छंदसे अन्य योगको कहते हैं । बुध धनघरमें हो, सूर्य तीसरे घर हो, लग्नमें शुक्र हो तब गमनकरनेवाले राजाके आगे सब टीडीकी तरह नष्ट होजावें ॥ ३९ ॥

लग्नस्थे त्रिदशाचार्ये धनायस्थे परे ग्रहे ॥

गतस्य राज्ञोऽरिसेना नियते यममंदिरे ॥ ४० ॥

बृहस्पति लग्नमें स्थित हो और अन्य ग्रह धनस्थान तथा ग्यारहवें स्थानमें हों तो गमनकरनेवाले राजाके शत्रुकी सेना धर्मराजके स्थानमें पहुंचती है ॥ ४० ॥

लग्ने शुके रवौ लाभे चंद्रे बंधुस्थिते तदा ॥

निहंति यातुः पूतनां केशवः पूतनामिव ॥ ४१ ॥

लग्नमें शुक्र हो, सूर्य ११ घर हो, चौथे घर चंद्रमा हो, ऐसे योगमें गमन करनेवाला राजा शत्रुकी सेनाको इस प्रकार नष्टकर देता है कि जैसे श्रीकृष्ण भगवान् ने पूतना नष्ट करदी थी ॥ ४१ ॥

त्रिकोणकेंद्रगाः सौम्याः क्रूराख्यायगता यदि ॥

यस्य यातुश्च लक्ष्मीच्छास्तमुपैत्यभिसारिका ॥ ४२ ॥

शुभग्रह नवमें पांचवें घर हों और क्रूरग्रह तीसरे तथा ग्यारहवें घर हों तब गमन करनेवाले राजाके शत्रुकी लक्ष्मी व्यभिचारिणी होकर अस्त होजाती है ॥ ४२ ॥

जीवार्कचंद्रलग्नारिंध्रगा यदि गच्छतः ॥

तस्याग्रे स्वल्पमैत्री च न स्थिरा रिपुवाहिनी ॥ ४३ ॥

बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, ये लग्नमें छठा घर व सातवां घरमें यथाक्रमसे स्थित हों तब गमनकरनेवाले राजाकी सेना इस प्रकार नष्ट होजातीहै कि जैसे स्वल्प मित्रता शीघ्र ही नष्ट होजाती है ॥ ४३ ॥

स्वोच्चस्थे लग्नगे जीवे चंद्रे लाभगते यदि ॥

त्रिषडायेषु सौरारौ बलावांश्च शुभो यदि ॥

यात्रायां नृपतेस्तस्य हस्ते स्याच्छत्रुमेदिनी ॥ ४४ ॥

बृहस्पति उच्चका होकर लग्नमें स्थितहो और चंद्रमा ११ घरं हो और ३।६।११ घरमें शनि मंगल हों, शुभग्रह बलवान् हों तब गमन करनेवाला राजा शत्रुकी भूमिको ग्रहण करलेताहै ॥ ४४ ॥

स्वोच्चस्थे लग्नगे जीवे चंद्रे लाभगते यदि ॥

गतो राजा रिपून्हंति पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ ४५ ॥

उच्चका बृहस्पति लग्नमें और चंद्रमा ११ हो ऐसे इस योगमें गमनकरनेवाला राजा, जैसे शिवजीने त्रिपुर नष्ट किया ऐसे शत्रुओंको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥

मस्तकोदयगे शुक्रे लग्नस्थे लाभगे गुरौ ॥

गतो राजा रिपून् हंति कुमारस्तारकं यथा ॥ ४६ ॥

शुक्र शीर्षोदय कहिये ५।६।७।८।११ इन लग्नोंपर स्थितहो और ११ स्थान गुरु होवे तब गमनकरनेवाला राजा शत्रु-

ओंको ऐसे नष्टकरताहै कि जैसे स्वामिकार्तिकजीने तारकामुर नष्ट किया था ॥ ४६ ॥

जीवे लग्नगते शुक्रे केंद्रे वापि त्रिकोणगे ॥

गतो जयत्यरीन् राजा कृष्णवत्यां यथा व्रणम् ॥४७ ॥

बृहस्पति लग्नमें हो और शुक्र केंद्रमें अथवा त्रिकोण (९ । ५) घर हो तब गमनकरनेवाला राजा शत्रुको ऐसे नष्टकरदेवे कि जैसे कृष्णवती नदीमें व्रण (घाव) नष्ट होजाताहै ॥ ४७ ॥

लग्नगे ज्ञे शुभे केंद्रे धिष्ये चोपकुले गते ॥

नृपा मुष्णंत्यरीन्ग्रीष्मे द्वदानीवार्करश्मयः ॥ ४८ ॥

बुध लग्नमें हो, अन्य शुभग्रह केंद्रमें हों, बृहस्पति चौथे घरमें होय तब गमनकरनेवाले राजे शत्रुओंको ऐसे नष्ट करते हैं कि जैसे सूर्यकी किरण सरोवरोंको (जोहडोंको) नष्ट करतीहै ॥ ४८ ॥

शुभे त्रिकोणकेंद्रस्थे लाभे चंद्रेऽथवा रवौ ॥

शत्रून्हांति गतो राजा त्वंधकारं यथा रविः ॥ ४९ ॥

नवमें पांचवें घर अथवा केंद्रमें शुभग्रह हों, ग्यारहवें घर चंद्रमा अथवा सूर्य हो तब गमनकरनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट करताहै कि जैसे सूर्य अंधकारको नष्ट करताहै ॥ ४९ ॥

स्वक्षेत्रज्ञे शुभे चंद्रे त्रिकोणायगते गतः ॥

विनाशयत्यरीन् राजा तूलराशिमिवानलः ॥ ५० ॥

शुभग्रह अपने क्षेत्रमें हों और चंद्रमा त्रिकोणमें अथवा ग्यारहवें घर हो तब गमनकरनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट करताहै कि जैसे रुईके समूहको अग्नि भस्म करदेताहै ॥ ५० ॥

इन्दौ स्वस्थे गुरौ केंद्रे मंत्री सप्तमगे गतः ॥

नृपो हंति रिपून्सर्वान्पापं पंचाक्षरी यथा ॥ ५१ ॥

चंद्रमा दशमं घर हो, बृहस्पति केंद्रमें हो, शुक्र सातवें हो तब गमनकरनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट करताहै कि जैसे पंचाक्षरी मंत्र सब पापोंको नष्ट करदेवे ॥ ५१ ॥

वर्गोत्तमगते शुक्रप्येकस्मिन्नेव लग्नगे ॥

हरिस्मृतिर्यथा पापान्हंति शत्रून् गतो नृपः ॥ ५२ ॥

उच्चका अकेलाही शुक्र लग्नमें हो तो गमन करनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट करे कि जैसे हरिस्मरणसे पाप नष्ट होजावें ५२ ॥

शुभे केंद्रत्रिकोणस्थे चंद्रे वर्गोत्तमे गते ॥

सगोत्रान्हि रिपून् हंति यथा गोत्रांश्च गोत्रभित् ॥ ५३ ॥

शुभग्रह केंद्रमें हो अथवा त्रिकोणमें हो चंद्रमा उच्चका हो तब गमनकरनेवाला राजा कुटुंबसहित शत्रुओंको ऐसे नष्ट करताहै कि जैसे इंद्र पर्वतोंको नष्ट करताभया ॥ ५३ ॥

मित्रभस्थे गुरौ केंद्रे त्रिकोणस्थेऽथवासिते ॥

शत्रून् हंति गतो राजा भुजंगं गरुडो यथा ॥ ५४ ॥

मित्रग्रहके घरमें प्राप्तहुआ बृहस्पति केंद्रमें हो अथवा शुक्र त्रिकोणमें हो तब गमनकरनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट करदेवे जैसे सर्पको गरुड नष्ट करदेताहै ॥ ५४ ॥

शुभे केंद्रत्रिकोणस्थे वर्गोत्तमगते गतः ॥

विनाशयत्वमीन्द्राजा पापान् भागीरथी यथा ॥ ५५ ॥

शुभग्रह केंद्रमें अथवा त्रिकोणमें हो अथवा उच्चराशिपर हो तब गमन करनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट करदेवे कि जैसे गंगाजी पापोंको नष्ट करती है ॥ ५५ ॥

ये नृपा यान्त्यरीञ्जेतुं तत्र योगौ नृपाह्वयौ ॥

उपैति शांतिं क्रोधाग्निः शत्रुयोषाश्रुर्विदुभिः ॥ ५६ ॥

ऐसे ये दो योग नृपनामक हैं इनमें गमन करनेवाले राजाकी क्रोधाग्नि, शत्रुओंके स्त्रियोंकी आंसुवोंके पड़नेसे शांत होती है ॥ ५६ ॥

बलक्षयप्रदश्चंद्रः पूर्णः क्षीणप्रभावतः ॥

विजयस्तत्र यातृणां संधिः सर्वान् पराक्रमः ॥ ५७ ॥

पूर्ण चंद्रमा बलदायीहै और क्षीणचंद्रमा क्षयकारक है तहां बली चंद्रमाहो तिन तिथियोंमें गमन करनेवाले राजाकी विजय, मिलाप और सर्वप्रकार पराक्रमसे वृद्धि होतीहै ॥ ५७ ॥

निमित्तशकुनादिभ्यः प्रधानेनोदयः स्मृतः ॥

तस्मात्प्रसवनायुः स्यात्फलहेतुर्मनोदयः ॥ ५८ ॥

निमित्त (मुहूर्त्त) और शकुनआदिकोंसे भाग्योदय होना यह मुख्य बात नहीं है किंतु यात्राआदि संपूर्ण मंगलोंमें मनकी प्रसन्नता रहनी यह फलका हेतु है ॥ ५८ ॥

उत्सवोपनयोद्वाहशवस्य सूतकेषु च ॥

ग्रहणे च न कुर्वीत यात्रां मर्त्यः सदा बुधः ॥ ५९ ॥

उत्सव, उपनयन, विवाह, मुरदाका सूतक, ग्रहण इनविषे बुद्धिमान जन यात्रा नहीं करे ॥ ५९ ॥

महिषीमेषयोर्युद्धे कलत्रकलहांतरे ॥

वस्त्रादेस्खलिते क्रोधे दुरुक्ते न व्रजेत्क्षुतौ ॥ ६० ॥

मैंसोंका और मीठोंका युद्ध होनेमें, स्त्रियोंका युद्ध होनेसमय, वस्त्रादिक उतरपडना, क्रोध होना, खराब बचन कहना, छींकना ऐसे वक्तपर गमन नहीं करना ॥ ६० ॥

घृतान्नं तिलपिष्टान्नं मत्स्यान्नं घृतपायसम् ॥

प्रागादिक्रमशो भुक्त्वा याति राजा जयत्यरीन् ॥ ६१ ॥

घी अन्न, तिल पीठी, मत्स्य अन्न, घी खीर इन चार पदार्थोंको खाकर यथाक्रमसे पूर्वआदि दिशाओंमें राजा गमन करे तो शत्रुओंको नष्ट करे ॥ ६१ ॥

मार्ज्जितापरमान्नं च कांजिकं च पयो दधि ॥

क्षौरं तिलोदनं भुक्त्वा भानुवारादिषु क्रमात् ॥ ६२ ॥

शिखरणि १ खीर २ कांजी ३ पकायादूध ४ दही ५ कच्चादूध ६ तिलओदन ७ इन पदार्थोंको रविआदि बारोंमें यथाक्रमसे भोजन करके गमन करना शुभ है ॥ ६२ ॥

कुलमाषांश्च तिलान्नं च दधि क्षौद्रं घृतं पयः ॥

मृगमांसं च तत्सारं पायसं चाषकं मृगम् ॥ ६३ ॥

शशमांसं च षष्टिक्यं प्रियंगुकमपूपकम् ॥

चित्रांडजं फलं कूर्मं सारिं गोधां च शल्लकम् ॥ ६४ ॥

हविष्यं कृसरान्नं च मुद्गान्नं यवपिष्टकम् ॥

मत्स्यान्नं चित्रितान्नं च दध्यन्नं दस्यभात्क्रमात् ॥ ६५ ॥

और बाकली १ तिलपीठी २ दही ३ शहद ४ बी ५ दूध ६
 मृगमांस ७ मृगका रक्त ८ खीर ९ पपैयाका मांस १० मृग ११
 सूकरका मांस १२ सांठी चावल १३ मालकांगनी १४ पूडे १५
 विचित्र अन्नोसे उत्पन्न हुए पक्षियोंका मांस १६ फल १७
 कछुवाका मांस १८ सारिकापक्षीका मांस १९ गोहका मांस २०
 सेहका मांस २१ हविष्यान्न २२ खिचडी २३ मूँग २४ जवोंकी
 पीठी २५ मत्स्यान्न २६ विचित्रितअन्न २७ दहीभात २८ इन
 पदार्थोंको खाकर अश्विनी आदि २८ नक्षत्रोंमें यथाक्रमसे यात्रा
 करनी शुभ है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

भुक्त्वा यायाजयेच्छुभो भूमिनाथो जयत्यरीन् ॥

दुताशनं तिलैर्हुत्वा पूजयेत्तु दिगीश्वरम् ॥ ६६ ॥

इसप्रकार इन अश्विनी आदि नक्षत्रोंमें इन वस्तुओंको खाकर
 जो विजयकी इच्छा करनेवाला राजा गमन करताहै वह शत्रु-
 ओंको जीतताहै । गमनसमय तिलोंसे अग्निमें हवन कर जिस दिशामें
 गमन करनाहो उस दिगीश्वरका पूजन करै ॥ ६६ ॥

प्रणम्य देवभूदेवानाशीर्वादैर्नृपो वदेत् ॥

कृत्वा होमं दारुणं च तन्मंत्रेण कृतं व्रजेत् ॥ ६७ ॥

देवता तथा ब्राह्मणोंको प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर दिगीश्वर
 के मंत्रसे अच्छे प्रकारसे होमकरके गमन करना ॥ ६७ ॥

वस्त्रं तद्भ्रगंघाद्यैरेवं भक्त्या दिगीश्वरम् ॥

इंद्रमैरावतारूढं शक्या सह विराजितम् ॥ ६८ ॥

दिगेश्वरके वर्णका वज्र चढावे भक्तिसे गंध आदिको करके पूजन करना ऐरावत हस्तीपर सवारहुए इंद्राणीसे युक्तहुए इंद्रको पूजै ॥ ६८ ॥

वज्रपाणिं स्वर्णवर्णं दिव्याभरणभूषितम् ॥

सप्तहस्तं सप्तजिह्वं षडक्षं मेषवाहनम् ॥ ६९ ॥

हाथमें वज्र धारण किये हुए सुवर्णसरीखे वर्णवाले दिव्य आभूषणोंसे विभूषित ऐसे इंद्रका ध्यान करना और सात हाथोंवाला, सात जिह्वावाला, छह आखोंवाला, मीढाकी सवारी ॥ ६९ ॥

स्वाहाप्रियं रक्तवर्णं सुक्लुवायुधधारिणम् ॥ ७० ॥

स्वाहाको प्रियमाननेवाला, लालवर्ण, सुक् और सुक्वा आयुधको धारण करनेवाला ऐसे अश्रिको पूजै ॥ ७० ॥

दंडायुधं लोहिताक्षं यमं महिषवाहनम् ॥

श्यामलासहितं रक्तवर्णमूर्द्धमुखं शुभम् ॥

खड्गचर्मधरं नीलं निर्ऋतिं नरवाहनम् ॥ ७१ ॥

दंडआयुधवाला, रक्तनेत्र, भैंसाकी सवारी करनेवाला, श्यामल दूतसहित ऊपरको मुख किये हुए शुभ, ऐसे धर्मराजका दक्षिणदिशामें ध्यान करना, खड्ग और ढालको धारण किये हुए नीलवर्ण मनुष्यकी सवारी किये हुए ॥ ७१ ॥

उर्द्धकेशं विरूपाक्षं दीर्घग्रीवायुतं विभुम् ॥

नागपाशधरं पीतवर्णं मकरवाहनम् ॥ ७२ ॥

ऊपरको बाल उठाये हुए विकराल नेत्र, दीर्घग्रीवा, ऐसे समर्थ नैर्ऋत (राक्षस) को पूजै । नागफांशधारी, पीलावर्ण, मगरमच्छकी सवारी ॥ ७२ ॥

वरुणं कालिनाथं च रत्नाभरणभूषितम् ॥

प्राणिनां प्राणरूपं च द्विबाहुं दंडपाणिनम् ॥ ७३ ॥

कालिनाथ, रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित ऐसे वरुणदेवका ध्यान करना । प्राणधारियोंका प्राण, दोभुजावाला हाथमें दंड लिये हुए ॥ ७३ ॥

वायुं कृष्णमृगासीनं पूजयेदंजनापतिम् ॥

अश्वासीनं कुंतपाणिं द्विबाहुं स्वर्णसंनिभम् ॥ ७४ ॥

काले मृगपर सवार हुआ अंजनाके स्वामी, ऐसे वायुदेवका पूजन करना । घोडापर सवार हुआ, हाथमें भाला शस्त्र और दोभुजाओंवाला सुवर्णसमान कांतिवाला ॥ ७४ ॥

कुबेरं चित्रलेखेशं यक्षगंधर्वनायकम् ॥

पिनाकिनं वृषारूढं गौरीपतिमनुत्तमम् ॥ ७५ ॥

चित्रलेखका स्वामी, यक्ष गंधर्वोंका स्वामी ऐसे कुबेरका पूजन करना और पिनाक धनुषवाले बैलपर सवार हुए, पार्वतीके पति, परमोत्तम ॥ ७५ ॥

श्वेतवर्णं चंद्रमौलिं नागयज्ञोपवीतिनम् ॥

अप्रयागे स्वयं कार्याऽपेक्षया पूजनं तथा ॥ ७६ ॥

श्वेतवर्ण, चंद्रमाको मस्तकमें धारण करनेवाले सर्पका यज्ञोपवीत धारण किये हुए ऐसे महादेवका ध्यान करना यह ईशान-

कोणके स्वामीका पूजन है। गमनसमयमें तो पूजन करना योग्य ही है और कहीं गमन नहीं करना हो तौ भी कार्यकी अपेक्षासे इन दिक्पालोंका इसी प्रकार पूजा करना ॥ ७६ ॥

कार्यं निर्गमनं छत्रध्वजाश्वक्षतवाहनैः ॥

स्वस्थानान्निर्गमस्थानं धनुषां च शतद्वयम् ॥ ७७ ॥

ध्वजा, छत्र, अश्व, निर्विकार वाहन, इन्होंसे युक्त होकर गमन करना चाहिये और अपने घर दोसौ २०० धनुष प्रमाण अर्थात् ८०० हाथ प्रमाणके अंतरमें प्रस्थान करना योग्य है ७७ ॥

चत्वारिंशद्वादशैव प्रस्थितो हि स्वगेहतः ॥

दिनान्येकत्र न वसेत्सप्त भूपः परो जनः ॥ ७८ ॥

अथवा चालीस धनुष प्रमाण वा बारहधनुष प्रमाण अंतर प्रमाणमें प्रस्थान करना अथवा अपने घरसे दूसरे घरमें प्रस्थान करना यही गमनहै गमन करके दूसरे घरमें राजाने एकजगह सातदिनसे अधिक नहीं ठहरना और अन्य जन ॥ ७८ ॥

पंचरात्रं च परतः पुनर्लभ्रांतरं व्रजेत् ॥

अकालजेषु नृपतिर्विद्युद्गर्जितवृष्टिषु ॥ ७९ ॥

प्रस्थानकी जगह पाँचदिनसे अधिक नहीं ठहरे जो अधिक स्थिति होजाय तो दूसरे लग्नमें गमन करना और बिना कालमें बिजली कड़कना, तथा वर्षा होना ॥ ७९ ॥

उत्पातेषु त्रिविधेषु सप्तरात्रं तु न व्रजेत् ॥

गमनेतु शिवाकाककपोतानां गिरः शुभाः ॥ ८० ॥

इत्यादि उत्पातहोना तथा भकंप आदि तीन प्रकारके उत्पात होनेमें राजा तीन दिनतक गमन नहीं करे । और गमनसमय गीदड़ी, काग, कपोती इन्होंकी वाणी शुभहै ॥ ८० ॥

वामांगे कोकिला पल्ली पोतकी सूकरी रला ॥

वानरः काकऋक्षः श्वा भासः स्युर्दक्षिणाः शुभाः ॥ ८१ ॥

और कोयल, छिपकली, पोतकी (दुर्गापक्षी) सूकरी, खाती-चिड़ा, ये बायींतर्फ आवें तो शुभहैं । और वानर, काग, रीछ, कुत्ता, भासपक्षी (पटबीजना) ये दहिनीतर्फ शुभ हैं ॥ ८१ ॥

चाषं त्यक्त्वा चतुष्पात्तु शुभदो वामतो गमः ॥

कृष्णं त्यक्त्वा प्रयाते तु कृकलाशो न वीक्षितः ॥ ८२ ॥

पपैया बिना चतुष्पादपक्षी बायींतर्फ गमन करे तो शुभहै काला-पपैया बिना चतुष्पाद पक्षी बायींतर्फ गमन करे तो शुभहै काला बिना अन्यतरहका किरलकांट दीखना शुभ नहीं हैं ॥ ८२ ॥

वराहशशगोधानां सर्पाणां कीर्तनं शुभम् ॥

दृष्टमात्रेण यात्रायां व्यस्तं सर्वं प्रवेशने ॥ ८३ ॥

सूकर, शशा, गोह, सांप इन्होंका उच्चारण करना शुभहै यह यात्राका शकुन है और प्रवेशसमयमें शकुन विपरीत जानने अर्थात् इन सर्पादिकोंका दीखना अच्छाहै और उच्चारण अच्छा नहीं ॥ ८३ ॥

यात्रासिद्धिर्भवेदृष्टे शवे रोदनवर्जिते ॥

प्रवेशो रोदनयुते शवे स्याच्च शिवप्रदः ॥ ८४ ॥

रोनासे रहित मुरदाका दर्शन हो तो गमनकी सिद्धि होतीहै
और रोनासहित मुरदाका दीखना प्रवेशसमय सुखदायी है ॥ ८४ ॥

पतितकृीबजटिलोन्मत्तवांतौषधादिभिः ॥

अभ्यक्तकाष्ठान्यस्थानि चर्मांगारतुषाग्निभिः ॥ ८५ ॥

और जातिपतित, हीजडा, जटाधारी, बावला, गमन करता
हुआ, औषधि, मालिश तेल आदि लगाना, काष्ठ, हड्डी, चाँम,
अंगार, तुष, धूमाकी अग्नि ॥ ८५ ॥

गुडकार्पासलवणवसातैलतृणोरगैः ॥

बंध्या व्यथितकाणौ च मुक्तकेशो बुभुक्षितः ॥ ८६ ॥

गुड, कपास, लवण, चरबी, तेल, तृण, सर्प, बंध्यास्त्री,
रोगीपुरुष, काणा, खुलेकेशोंवाला, भूखा ॥ ८६ ॥

प्रयाणसमये लग्ने दृष्टे सिद्धिर्न जायते ॥

प्रज्वलाग्निः शुभं वाक्यं कुसुमेक्षुसुरागणाः ॥ ८७ ॥

ये सब गमनसमयके लग्नविषे दीखजावें तो कार्यसिद्धि नहीं हो।
और जलतीहुई अग्नि शुभदायक वचन, पुष्प, ईस, मदिरा ॥ ८७ ॥

गंधपुष्पाक्षतच्छत्रचामरांदोलका नृपाः ॥

भक्ष्यं शुभफलं चैवभोऽश्वजौ दक्षिणे वृषः ॥ ८८ ॥

गंधु, पुष्प, अक्षत, छत्र, चाँमरडोली, पिन्नस, राजा, भक्ष्यप-
दार्थ, शुभफल, हस्ती अश्व, दहिनीतर्फ, आयाहुआ वृष ॥ ८८ ॥

मत्स्यमांसं सुधौतं च वस्त्रं श्वेतवृषध्वजः ॥

पुण्यस्त्री पूर्णकलशरत्नशृंगारगोद्रिजाः ॥ ८९ ॥

मत्स्यमांस, घोघाहुआ वस्त्र, सफेद बैल, ध्वजा, सौभाग्यवती स्त्री,
जलका कलश, रत्न, शृंगार, गौ, ब्राह्मण ॥ ८९ ॥

भेरीमृदंगपटहशंखरागादिनिस्वनाः ॥

वेदमंगलघोषः स्युर्यायिनां कार्यसिद्धिदाः ॥ ९० ॥

भेरी, मृदंग, ढोल, शंख, राग, गीत, गाना, वेदमंगलकी ध्वनि
ये सब शकुन गमनकरनेवालोको सिद्धिदायक हैं ॥ ९० ॥

आदौ विरुद्धशकुनं दृष्ट्वा यायीष्टदेवताम् ॥

स्मृत्वा द्वितीये विप्राणां कृत्वा पूजां निवर्तयेत् ॥ ९१ ॥

गमनकरनेवाला जन प्रथम अपशकुन देखे तो इष्टदेवका ध्यान
करके गमन करे फिर दूसराभी अपशकुन देखे तो ब्राह्मणोंका
पूजन कर उलटा चला आवे फिर गमनकरना ॥ ९१ ॥

सर्वदिक्षु क्षुतं नेष्टं गोक्षुतं निधनप्रदम् ॥

अफलं यद्बालवृद्धरोगिपीनसवत्कृतम् ॥ ९२ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां यात्राध्यायस्रयस्त्रिंशत्तमः ॥ ३३ ॥

सब दिशाओंमें छींकहोना अशुभ है और गौकी छींक
मृत्युदायक है बालक, वृद्ध, रोगी, शरदीरोगकी छींक कपटसे लईहुई
छींक इनका दोष नहीं है ॥ ९२ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां यात्राध्याय-

स्रयस्त्रिंशत्तमः ॥ ३३ ॥

आदौ सौम्यायने कार्यं नववास्तुप्रवेशनम् ॥

राज्ञा यात्रा निवृत्तौ च यद्वा द्रंद्रप्रवेशनम् ॥ १ ॥

उत्तरायण सूर्य होवे तब नवीन घरमें प्रवेश करना चाहिये
राजा यात्रासे निवृत्त होकर घरमें प्रवेश हो अथवा वरवधूका प्रवेशहो
वह भी इसीप्रकार मुहूर्त्तमें होना चाहिये ॥ १ ॥

विधाय पूर्वदिवसे वास्तुपूजां बलिक्रियाम् ॥

माघफाल्गुनवैशाखज्येष्ठमासेषु शोभनः ॥ २ ॥

पहिलेदिन वास्तुपूजा बलिदान करके माघ, फाल्गुन, वैशाख,
ज्येष्ठ, इनमहीनोमें प्रवेशकरना शुभहै ॥ २ ॥

प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः सौम्यकार्तिकमासयोः ॥

वस्वीज्यांत्यैदुवरुणत्वाष्टमित्रस्थिरोडुषु ॥ ३ ॥

और मार्गशिर तथा पौषमासमें प्रवेशकरना मध्यम है । और
धनिष्ठा, पुष्य, रेवती, मृगशिर, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा इन नक्ष-
त्रोंमें और स्थिर संज्ञक नक्षत्रोंमें प्रवेश करना ॥ ३ ॥

शुभः प्रवेशो देवेज्यशुक्रयोर्दृश्यमानयोः ॥

व्यकारिवारतिथिषु रिक्तामावर्जितेषु च ॥ ४ ॥

बृहस्पति तथा शुक्रके उदयमें प्रवेश करना शुभहै मंगल तथा
शनिवारके विना और रिक्ता तथा अमावस्या तिथिके विना अन्य
दिनमें प्रवेश करना शुभदायक कहाहै ॥ ४ ॥

दिवा वा यदि वा रात्रौ प्रवेशो मंगलप्रदः ॥

चंद्रताराबलोपेते पूर्वोक्तवर्जितेषु च ॥ ५ ॥

दिनमें अथवा रात्रिमें भी प्रवेश करना शुभहै परंतु पूर्वोक्त अशुभ
तिथ्यादिकोंको वर्जकर चंद्रताराका बल देखलेना चाहिये ॥ ५ ॥

स्थिरलग्ने स्थिरांशे च नैधने शुद्धिसंयुते ॥

त्रिकोणे केंद्रस्वत्रयाये सौम्यैरुयायारिगैः स्वलैः ॥ ६ ॥

स्थिरलग्न, स्थिरराशिका नवांशक हो और आठवें घर कोई ग्रह नहीं हो नवमें पांचवें घर, व केंद्रमें और ३ तथा दशवें घर शुभग्रह होवें पापग्रह ३।११।६ घर होवें ॥ ६ ॥

लग्नात्पष्ठाष्टमस्थेन वर्जितेन हिमांशुना ॥

कर्तुर्वा जन्मभे लग्ने ताभ्यामुपचयेऽपि वा ॥ ७ ॥

लग्नसे छठे आठवें घर चंद्रमा नहीं हो अथवा कर्त्तिका जन्मलग्न हो तथा जन्मलग्नसे ३।४।१०।११ लग्न हो तब प्रवेश करना ॥ ७ ॥

कृत्वार्के वामतो विद्वाञ्शृङ्गारं चाग्रतो विशेत् ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रवेशाध्यायश्चतुस्त्रिंशत्तमः ३४ ॥

विद्वान् पुरुष वामार्के सूर्य देखकर शृंगार मंगलसे युक्त हो घरमें प्रवेश करै ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां प्रवेशाध्याय-

श्चतुस्त्रिंशत्तमः ॥ ३४ ॥

अथ वर्षाप्रश्न ।

वर्षाप्रश्ने वारिभेऽजे पूर्णे वै लग्नगेपि वा ॥

केंद्रगे वा शुक्रपक्षे चातिवृष्टिः शुभेक्षिते ॥ १ ॥

वर्षाके प्रश्नमें जलराशिपर पूर्णचंद्रमा हो अथवा लग्नमें चंद्रमा हो अथवा शुक्रपक्षमें केंद्रमें चंद्रमा हो तथा शुभग्रहोंसे दृष्ट हो तो अत्यंत वर्षा होवे ॥ १ ॥

अल्पदृष्टिः पापदृष्टे प्रावृट्काले चिराद्भवेत् ॥

चंद्रवद्भागिने सर्वमेवंविधगुणान्विते ॥ २ ॥

और वर्षाकालमें चंद्रमा पापग्रहोंसे दृष्ट होतो अल्पवर्षा बताना चंद्रमाकी तरह शुक्रसेभी सब शुभ अशुभ फल कहना ॥ २ ॥

प्रावृषींदुः सितात्सप्तराशिगः शुभवीक्षितः ॥

मंदात्रिकोणसप्तस्थो यदि वा वृष्टिकृद्भवेत् ॥ ३ ॥

वर्षाकालमें शुक्रसे सातवीं राशिपर चंद्रमाहो और शुभग्रहोंसे दृष्टहो अथवा शनिसे नवमें, पांचवें घर तथा सातवें घर चंद्रमाहो तो वर्षा होवे ॥ ३ ॥

सद्यो वृष्टिकरः शुक्रो यदा बुधसमीपगः ॥

तयोर्मध्यगते भाना तदा वृष्टिविनाशनम् ॥ ४ ॥

शुक्र जो बुधके समीप होय तो शीघ्रही वर्षा करे तिनहोंके मध्यमें सूर्य आजाय तो वर्षाको नष्ट करै ॥ ४ ॥

मघादिपंचधिष्ण्यस्थः पूर्वा स्वाती त्रये परे ॥

प्रवर्षणं भृगुः कुर्याद्विपरीते न वर्षति ॥ ५ ॥

मघा आदि पांच नक्षत्र तीनों पूर्वा, स्वाती आदि तीन नक्षत्र इन नक्षत्रोंपर शुक्र होय तो वर्षाकरे इनसे विपरीत होय तो नहीं वर्षे ॥ ५ ॥

पुरतः पृष्ठतो भानोर्ग्रहा यदि समीपगाः ॥

तदा वृष्टिं प्रकुर्वति न चैते प्रतिलोमगाः ॥ ६ ॥

सौम्यमार्गगतः शुक्रो वृष्टिकृन्न तु याम्यगः ॥

उदयास्तेषु वृष्टिः स्याद्भानोर्गार्द्राप्रवेशने ॥ ७ ॥

चंद्रमा आदि ग्रह पीछेसे अथवा आगेसे सूर्यके समीप होवें तो वर्षा करते हैं और वक्री होकर सूर्यसे दूर होवें तो वर्षा नहीं करें शुक्र उत्तरचारी होय तो वर्षा करता है और दक्षिणचारी होय तो वर्षा नहीं करे शुक्रके उदय अस्त होनेके समय वर्षा होती है और सूर्य आर्द्रापर आवे उसदिनका फल कहते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥

विपत्तिः सस्यहानिः स्यादहन्यार्द्राप्रवेशने ॥

संध्ययोः सस्यवृद्धिः स्यात्सर्वसंपन्नृणां निशि ॥ ८ ॥

दिनमें आर्द्राप्रवेश होय तो प्रजामें दुःख और खेतीका नाश हो दोनों संधियोंमें आर्द्राप्रवेश हो तो खेतीकी वृद्धि हो रात्रिमें आर्द्रा प्रवेश हो तो मनुष्योंकी संपूर्ण समृद्धि बढे ॥ ८ ॥

स्तोकवृष्टिरनर्घः स्याद्वृष्टिः सस्यसंपदः ॥

आर्द्रादये प्रभिन्ने चेद्भवेदीतिर्न संशयः ॥ ९ ॥

आर्द्राप्रवेश समय थोड़ीसी वर्षा हो तो अन्नादि महँगे हों और वर्षा नहीं हो तो खेतियोंकी वृद्धि हो पवन चले तो टीडी आदिका मय हो ॥ ९ ॥

चंद्रेज्येज्ञेथवा शुक्रे केंद्रे त्वीतिर्विनश्यति ॥

पूर्वाषाढगतोभानुर्जीमूतैः परिवेष्टितः ॥ १० ॥

आर्द्राप्रवेश लग्नसमय चंद्रमा बृहस्पति, बुध, शुक्र ये केंद्रमें होंतो टीडी आदि उपद्रव नष्ट होजावें पूर्वाषाढ नक्षत्रपर सूर्य आवे तब (धनुकीसंक्रांतिमें) सूर्य बादलोंसे आच्छादित रहे तो ॥ १० ॥

वर्षत्याद्रादिमूलांतं प्रत्यक्षं प्रत्यहं तथा ॥

वृष्टिश्च पौष्णमे तस्मादशक्षेषु न वर्षति ॥ ११ ॥

आद्राआदि मूलनक्षत्रतक सूर्य रहे तबतक यथाकालमें सुंदर वर्षा होती है और रेवती नक्षत्रपर सूर्य होनेके समय वर्षा होजाय तो रेवती आदि दश नक्षत्रोंतक सूर्य वर्षा नहीं करता है ॥ ११ ॥

सिंहे भिन्ने कुतो वृष्टिरभिन्ने कर्कटे कुतः ॥

कन्योदये प्रभिन्ने चेत्सर्वथा वृष्टिरुत्तमा ॥ १२ ॥

सिंहकी संक्रांतिके दिन वर्षा बादल हो और कर्ककी संक्रांतिके दिन वर्षा बादल नहीं हो तो वर्षा संवत् अच्छा नहीं हो ॥ १२ ॥

अहिर्बुध्न्य पूर्वसस्यं परसस्यं च रेवती ॥

भरणी सर्वसस्यं च सर्वनाशाय चाश्विनी ॥ १३ ॥

उत्तराभाद्रपदपर सूर्य हो तब बादलगर्भ रहे पूर्व सस्य अर्थात् सामणूखेती नहीं हो रेवतीमें गर्भहो तो परसस्य कहिये सा-
दूकी खेती नहीं हो अश्विनी भरणी पर सूर्य हो तब बादल वर्षा होजाय तो संपूर्ण खेतियां नष्ट होवें ॥ १३ ॥

गुरोः सप्तमराशिस्थः प्रत्यग्नो भृगुजो यदा ॥

तदातिवर्षणं भूरि प्रावृद्धाले बलोज्झिते ॥ १४ ॥

बृहस्पतिसे आगे सातवीं राशिपर शुक्र स्थित होय तो वर्षाकालमें वर्षा होनेके बादभी बहुत अच्छी वर्षा होनेलगे ॥ १४ ॥

आसन्नमर्कशाशिनोः परिवेषगतोत्तरा ॥

विद्युत्प्रपूर्णा मंडूकास्त्वनावृष्टिर्भवेत्तदा ॥ १५ ॥

सूर्य और चंद्रमाके समीप उत्तरदिशामें मंडल होय अथवा विजली चमके और उत्तरदिशामें ही मीडक बोले तो वर्षा नहीं हो ॥ १५ ॥

यदा प्रत्यंगता भेकाः स्वसन्नोपरि संस्थिताः ॥

पतंति दक्षिणस्था वा भवेद्वृष्टिस्तदाचिरात् ॥ १६ ॥

जो पश्चिमदिशामें अथवा दक्षिणदिशामें अपने स्थानपर बैठे हुए मीडक उछलके पडनेलगे तो वर्षा शीघ्रही होगी ऐसे जाने ॥ १६ ॥

नखैर्लिखंतो मार्जाराश्चैव निर्लोभसंस्थिताः ॥

सेतुबंधपरा बालाः सद्यो वै वृष्टिहेतवः ॥ १७ ॥

और बिलाव नखोंकरके भूमिको खोदें तथा निर्लोभ हुए स्थित रहें तथा बालक पुल बांधकर खेलने लगें तो वर्षा होगी ऐसा जानना ॥ १७ ॥

पिपीलिका शिरश्छिन्ना व्यवायः सर्पयोस्तथा ॥

दुमाधिरोहः सर्पाणां प्रतीदुर्वृष्टिसूचकाः ॥ १८ ॥

कीडीपर कीडी चढ़ें अथवा कीडी अंडा लेकर चलें सर्प सर्पिणी एकजगह स्थित दीखें सर्प वृक्षपर चढ़ाहुआ दीखे बादलेमें चंद्रमाके सम्मुख दूसरा चंद्रमा दीखे ये सब वर्षा होनेके लक्षण जानने ॥ १८ ॥

उदयास्तमये काले विवर्णोर्कोऽथ वा शशी ॥

मधुवर्णोतिवायुश्चेदतिवृष्टिर्भवेत्तदा ॥ १९ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां सद्योवृष्टिलक्षणाध्यायः

पंचत्रिंशत्तमः ॥ ३५ ॥

उदय तथा अस्त होनेके समय सूर्य वा चंद्रमाका वर्ण बुरा (गाधला) दीखे अथवा शहदसरीखा वर्ण दीखे अथवा अत्यंत पवन चले तो वर्षा बहुत होतीहै ॥ १९ ॥

इति श्रीनारदायसंहिताभाषाटीकायां सद्योवृष्टिलक्षणाध्यायः

पंचत्रिंशत्तमः ॥ ३५ ॥

प्राङ्मुखस्य तु कूर्मस्य नवांगेषु धरामिमाम् ॥

विभज्य नवधा खंडमंडलानि प्रदक्षिणम् ॥

अंतर्वेदी च पांचालं तस्येदं नाभिमंडलम् ॥ १ ॥

पूर्वकी तर्फहै मुख जिसका ऐसे कूर्मके नव अंगोंविषे इस पृथ्वीका विभाग करना अर्थात् पूर्वाभिमुख कूर्मचक्र बनाकर एक खंडके नव विभाग बनाकर प्रदक्षिणक्रमसे मंडल बनावे तिस कूर्मका नाभि-मंडल, (मध्यभाग,) अंतर्वेदी अर्थात् गंगा यमुनाका मध्यभाग और पांचाल, पंजाब देश कूर्मचक्रका नाभिमण्डलहै ॥ १ ॥

प्राचां मागधलाटादिदेशास्तन्मुखमंडलम् ॥

स्त्रीकलेयकिराताख्यादेशास्तद्बाहुमंडलम् ॥ २ ॥

तहां पूर्वके मध्यमें मागध, लाट आदिदेश तिसका मुखमंडल है स्त्रीकलेय, किरात ये देश तिसके बाहुमंडलहैं ॥ २ ॥

अवंतिद्राविडा भिल्लदेशास्तत्पार्श्वमंडलम् ॥

गौडकौंकणशाख्वेष्टपुण्ड्रास्तत्पार्श्वमंडलम् ॥ ३ ॥

अवंती, उज्जैन प्रांतदेश, द्राविड, भिल्लदेश ये तिसके पार्श्व

(पांशू) मंडलहैं और गौड़, कोंकण, शाल्वदेश, पुंड्रदेश ये भी तिसके पार्श्वमंडल हैं ॥ ३ ॥

सिंधुकाशीमहाराष्ट्रसौराष्ट्राः पुच्छमंडलम् ॥

पुलिंदभीष्मयवनगुर्जराः पादमंडलम् ॥ ४ ॥

सिंधुदेश, काशी, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ये देश तिसके पुच्छमंडल हैं पुलिंद, भीष्म, यवन, गुर्जर ये देश पादमंडल हैं ॥ ४ ॥

कुरुकाश्मीरमाद्रेयमत्स्यास्तत्पार्श्वमंडलम् ॥

खशाङ्गवंगबाल्हीककंबोजाः पाणिमंडलम् ॥ ५ ॥

कुरु, काश्मीर, माद्रेय, मत्स्यदेश ये तिसके पार्श्वमंडलहैं खशा, अंग, वंग, बाल्हीक, कंबोज ये देश तिसके हाथोंकी जगह समझने चाहियें

कृत्तिकादीनि धिष्ण्यानि त्रीणित्रीणि क्रमात्त्रयसेत् ॥

नाभेर्दिशु नवांगेषु पापैर्दुष्टं शुभैः शुभम् ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसं० कूर्मविभागाध्यायः षट्त्रिंशत्तमः ॥ ३६ ॥

इसप्रकार तिस कूर्मके नव विभाग कर यथाक्रमसे कृत्तिका आदि तीन २ नक्षत्र रखने । पहले ३ नक्षत्र मध्यमें नाभिमंडलपर रखके मागध लाटादि देशोंके क्रमसे इन ९ अंगोंपर रखने फिर जिस अंगपरके नक्षत्रोंपर पापग्रह होवें उसी अंगके देशोंमें अशुभ-फल होवे और जिस देशके नक्षत्रोंपर शुभग्रह आरहेहों उस देशमें शुभफल हो ऐसे जानो ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां कूर्मविभागाध्यायः

षट्त्रिंशत्तमः ॥ ३६ ॥

अथ उत्पाताध्यायः ।

देवता यत्र नृत्यन्ति पतन्ति प्रज्वलन्ति च ॥

मुहू रुदन्ति गायन्ति प्रस्विद्यन्ति हंसन्ति च ॥ १ ॥

जहां देवता नृत्य करते हैं, पडते हैं अथवा देवताओंकी मूर्ति जल उठती हैं, रोती हैं, कभी गाती हैं, मूर्तियोंके पसीना आता है कभी हंसती हैं ॥ १ ॥

वमन्त्याग्निं तथा धूमं स्नेहं रक्तं पयो जलम् ॥

अधोमुखाश्च तिष्ठन्ति स्थानात्स्थानं व्रजन्ति च ॥ २ ॥

मूर्तियोंके मुखसे अग्नि, धूमा, स्नेह (तैलादिक) रक्त, दूध जल ये निकलते हैं अथवा मुख नीचेको होजाता है, एक जगहसे दूसरी जगहसे मूर्ति प्राण होती है ॥ २ ॥

एवमाद्या हि दृश्यन्ते विकाराः प्रतिमासु च ॥

गंधर्वनगरं चैव दिवा नक्षत्रदर्शनम् ॥ ३ ॥

इत्यादिक विकार देवताओंकी मूर्तियोंमें दीखते हैं और आकाशमें गंधर्वनगर (मकानात) दीखना, दिनमें तारे दीखने ॥ ३ ॥

महोल्कापतनं काष्ठतृणरक्तप्रवर्षणम् ॥

गंधर्वगेहे दिग्धूमं भूमिकंपं दिवा निशि ॥ ४ ॥

तारे टूटने, काष्ठ तृण रक्त इन्होंकी वर्षा होनी, आकाशमें व दिशाओंमें धूमां दीखना इत्यादि उत्पात दिनमें तथा रात्रिमें भूकंप (भौंचाल) होना ॥ ४ ॥

अनग्नौ च स्फुलिंशाश्च ज्वलनं च विनैधनम् ॥

निशीन्द्रचापमंडूकशिखरं श्वेतवायसः ॥ ५ ॥

ईधन विना अग्नि जल उठे, अग्निमेंसे किणके उडने लगे, रात्रिमें इंद्रधनुष दीखे, मीडक दीखें शिखर दीखे सफेद काग दीखे ॥ ५ ॥

दृश्यंते विस्फुलिंशाश्च गोगजाश्वोष्मगात्रतः ॥

जंतवो द्वित्रिशिरसो जायंते वा वियोनिषु ॥ ६ ॥

गौ, हस्ती, अश्व, ऊंट इन्होंके शरीरसे अग्निके किनके निकलते दीखें अथवा दो तीन शिरवाले बालकका जन्म होना, दूसरी योनिमें दूसरा बालक जन्मना ॥ ६ ॥

प्रतिसूर्याश्वतसृषुस्युर्दिक्षु युगपद्रवेः ॥

जंबुकग्रामसंवासः केतूनां च प्रदर्शनम् ॥ ७ ॥

सूर्यके सम्मुख दूसरा सूर्य देखना एक ही बार चारों दिशा-ओंमें इंद्रधनुष दीखने, ग्रामके समीप बहुतसे गीदड़ इकट्ठे होना, पूँछवाले तारे दीखें ऐसे उत्पात दीखें ॥ ७ ॥

काकानामाकुलं रात्रौ कपोतानां दिवा यदि ॥

अकाले पुष्पिता वृक्षा दृश्यंते फलिता यदि ॥ ८ ॥

कार्यं तच्छेदनं तत्र ततः शांतिर्मनीषिभिः ॥

एवमाद्या महोत्पाता बहवः स्थाननाशदाः ॥ ९ ॥

ऐर रात्रिमें कौओंका शब्द सुनें, दिनमें कपोतोंका शब्द सुनें, कालमें वृक्षोंके फूल तथा फल दीखें तब ऐसे वृक्षोंका छेद न करना और पंडित जनोंने इन उत्पातोंको दूरकरनेके वास्ते इन्होंकी शांति

करनी चाहिये इत्यादि बहुतसे महान् उत्पात स्थानको नष्ट करने-
वाले कहे हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥

केचिन्मृत्युप्रदाः केचिच्छत्रुभ्यश्च भयप्रदाः ॥

मध्याद्भयं पशोर्मृत्युः क्षयेऽकीर्तिः सुखासुखम् ॥ १० ॥

कितेक उत्पात मृत्युदायक हैं, कितेक उत्पात शत्रुओंसे भय
करते हैं तथा उदासीन पुरुषसे भय करते हैं, पशुकी मृत्यु, क्षय,
कीर्तिनाश, सुखमें दुःख ॥ १० ॥

अथ होमः ।

अनैश्वर्यं चान्नहानिरुत्पातभयमादिशेत् ॥

देवालये स्वगेहे वा ईशान्यां पूर्वतोऽपि वा ॥ ११ ॥

ऐश्वर्यका नाश, अन्नकी हानि, इत्यादिके ये सब उत्पातोंके
भय जानने । देवताके मंदिरमें अथवा अपने घरमें ईशानकाणमें
अथवा पूर्वमें ॥ ११ ॥

कुंडं लक्षणसंयुक्तं कल्पयेन्मेखलायुतम् ॥

गृहोक्तविधिना तत्र स्थापयित्वा हुताशनम् ॥ १२ ॥

बहुत उत्तम अग्निकुंड बनावे कुंडपर मेखला बनावे फिर अपने
कुलके अनुसार विवाहादि मंगलोक्तविधिसे अग्नि स्थापन करना १२

जुहुयादाज्यभागांते पृथगष्टोत्तरं शतम् ॥

यत इंद्रभयामहे स्वस्तिदाघोरमंत्रकैः ॥ १३ ॥

समिदाज्यं चरुं व्रीहितिलैर्व्याहृतिभिस्तथा ॥

कोटीहोमं तदर्थं च लक्षहोममथापि वा ॥ १४ ॥

घृतसे आज्यभागसंज्ञक मंत्रोंसे १०८ आहुति देना फिर "यत-
इंद्रभयामहे स्वस्तिदा" और अघोर, इन मंत्रोंसे आहुति देवे समिध,
घृत, चरु, चावल, तिल इन्होंसे व्याहृतियोंके मंत्रसे आहुति देना
कोटि होम कराना अथवा तिससे आधा अथवा लक्ष होम
कराना ॥ १३ ॥ १४ ॥

यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककल्पना ॥

एकविंशतिरात्रं वा पक्षं पक्षाद्धमेव वा ॥ १५ ॥

जैसा अपना वित्तहो उसके अनुसार होम कराना इक्कीस दिनों
तक अथवा १५ दिनोंतक अथवा आधे पक्षतक होम कराना ॥ १५ ॥

पंचरात्रं त्रिरात्रं वा होमकर्म समाचरेत् ॥

दक्षिणां च ततो दद्यादाचार्याय कुटुंबिने ॥ १६ ॥

पांचरात्रितक वा तीनरात्रितक होमकर्म कराना योग्य है फिर
कुटुंबवाले आचार्यके वास्ते दक्षिणा देवे ॥ १६ ॥

गणेशक्षेत्रपालार्कदुर्गाक्षोण्यंगदेवताः ॥

तासां प्रीत्यै जपः कार्यः शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥ १७ ॥

गणेश, क्षेत्रपाल, सूर्य, दुर्गा, चौंसठयोगिनी, अंगदेवता इन्होंकी
प्रीतिके वास्ते इनमंत्रोंसे जप करावे अन्य होमादिकर्म पूर्वोक्तविधिसे
करना ॥ १७ ॥

ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यात्षोडशभ्यः स्वशक्तितः ॥ १८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायामुत्पाताध्यायः

सप्तत्रिंशत्तमः ॥ ३७ ॥

सोलह ऋत्विजोंके वास्ते अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देवे ॥ १८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिता भाषाटीकायामुत्पाताध्यायः

सप्तत्रिंशत्तमः ॥ ३७ ॥

उत्पातास्त्रिविधा लोके दिवि भौमांतरिक्षजाः ॥

तेषां नामानि शांतिं च सम्यग्वक्ष्ये पृथक्पृथक् ॥ १ ॥

संसारमें तीन प्रकारके उत्पात हैं स्वर्ग, भूमि, आकाश इन तीन जगह होनेवाले उत्पात हैं तिनके नामोंको और शांतिको अलग २ कहते हैं ॥ १ ॥

दिवा वा यदि वा रात्रौ यः पश्येत्काकमैथुनम् ॥

स नरो मृत्युमाप्नोति यदि वा स्थाननाशनम् ॥ २ ॥

दिनमें अथवा रात्रिमें जो पुरुष काकके मैथुनको देखता है उस पुरुषकी मृत्युहो अथवा स्थान नष्ट होवे ॥ २ ॥

काकघातव्रतं चैव विदधीताथ वत्सरम् ॥

पितृदेवद्विजान्भक्त्या प्रत्यहं चाभिवादनम् ॥ ३ ॥

तिस पुरुषने वर्षदिनतक काकघात नामक व्रत करना और पितर देवता ब्राह्मण इन्होंको भक्तिसे दिन २ प्रति प्रणाम करना ॥ ३ ॥

जितेंद्रियः शुद्धमनाः सत्यधर्मपरायणः ॥

तद्दोषशमनायेत्थं शांतिकर्म समाचरेत् ॥ ४ ॥

जितेंद्रिय शुद्धमनवाला रहे, सत्यधर्ममें तत्पर रहै तिस दोषको शांत करनेके वास्ते इसप्रकार शांति करे कि ॥ ४ ॥

गृहस्येशानकोणे तु होमस्थानं प्रकल्पयेत् ॥

स्वगृहोक्तविधानेन तत्र स्थाप्य हुताशनम् ॥ ६ ॥

घरमें ईशानकोणकी तर्फ अग्निस्थान कल्पितकर तहां अपने
गृहोक्त विधिसे अग्निस्थापन करना ॥ ५ ॥

मुखांते समिदाज्यात्रैर्होमश्चाऽष्टोत्तरं शतम् ॥

प्रतिमंत्रं त्र्यंबकेन चाथ मृत्युंजयेन वा ॥ ६ ॥

व्याहृतिभिर्व्रींहितिलैर्जपाद्यंतं प्रकल्पयेत् ॥

पूर्णाहुतिं च जुहुयात्कर्ता शुचिरलंकृतः ॥ ७ ॥

फिर समिध, घृत, तिलादिक अन्न इन्होसे 'त्र्यंबकं यजामहे' इस
मंत्रसे अथवा महामृत्युंजयमंत्रसे अर्थात् "भूर्भुवःस्वः" इत्यादिक
व्याहृतियोंसहित त्र्यंबकमंत्रसे चावलतिलोसे जपकी संख्याके
अनुसार होम करना और पवित्र विभूषितहुआ कर्ता यजमान होमके
अंतमें पूर्णाहुति करै ॥ ६ ॥ ७ ॥

स्वर्णशृंगीं रौप्यसुरीं कृष्णां धेनुं पयस्विनीम् ॥

वस्त्रालंकारसहितां निष्कद्वादशसंयुताम् ॥ ८ ॥

और सुवर्णकी सींगडी तथा चांदीके सुरीसे विभूषितहुईका
अच्छे दुधवाली कालीगौको वस्त्र आभूषणोंसे विभूषितकर बारह
निष्क अर्थात् ४८ तोले सुवर्णसे युक्त ॥ ८ ॥

तदर्द्धेन तदर्द्धेन तदर्द्धेनाथ वा पुनः ॥

यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककल्पना ॥ ९ ॥

अथवा तिससे आधा अथवा तिससे भी आधा अथवा तिससे भी
आधा सुवर्ण वा चांदी अपने वित्तके अनुसार कमज्यादै देना ॥ ९ ॥

आचार्याय श्रोत्रियाय गां च दद्यात्कुटुंबिने ॥

ब्राह्मणेभ्यो विशिष्टेभ्यो यथाशक्त्या च दक्षिणाम् ॥ १० ॥

वेदपाठी कुटुंबी आचार्यके वास्ते इस गौको दान देवे और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके वास्ते शक्तिके अनुसार दक्षिणा देनी ॥ १० ॥

ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥

एवं यः कुरुते सम्यक्स तद्दोषात्प्रमुच्यते ॥ ११ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां वायसमैथुनलक्षणा

ध्यायोऽष्टत्रिंशत्तमः ॥ ३८ ॥

फिर स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन करवावे ऐसे जो अच्छेप्रकारसे करता है वह तिसदोषसे (काकमैथुनादिदोषसे) छट जाता है ॥ ११ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीयां वायसमैथुनलक्षणा-

ध्यायोऽष्टत्रिंशत्तमः ॥ ३८ ॥

पह्याः प्रपतने पूर्वे फलमुक्तं शुभाशुभम् ॥

शीर्षे राज्यं श्रियं प्राप्तिर्माँलौ त्वैश्वर्यवर्धनम् ॥ १ ॥

छिपकली शरीरपर पडनेका फल पूर्वाचार्योंने कहा है। शिरपर पड़े तो राज्य तथा लक्ष्मीकी प्राप्ति हो मस्तकपर पड़े तो ऐश्वर्यकी वृद्धि हो ॥ १ ॥

पह्याः प्रपतने चैव सरटस्य प्ररोहणे ॥

शुभाशुभं विजानीयात्तत्स्थाने विशेषतः ॥ २ ॥

शरीरपर छिपकलीके पडनेका और किरकाटके चढनेका तिस

२ स्थानका शुभाशुभ फल विशेषतासे जानना ॥ २ ॥

सव्ये भुजे जयः प्रोक्तो ह्यपसव्ये महद्भयम् ॥

कुक्षौ दक्षिणभागस्य धनलाभस्तथैव च ॥ ३ ॥

दहिनी भुजापर पडे तो जयप्राप्ति और बांयीं भुजापर महान् भय हो दहिनी कुक्षिपर धनका लाभहो ॥ ३ ॥

वामकुक्षौ तु निधनं गदितं पूर्वसूरिभिः ॥

सव्यहस्ते मित्रलाभो वामहस्ते तु निस्वता ॥ ४ ॥

बांयींकुक्षिपर मृत्यु, दहिने हाथपर मित्रका लाभ और बायें हाथपर दरिद्रताहो ऐसे पुरातन पंडितोंने कहा है ॥ ४ ॥

उदरे सव्यभागे तु सुपुत्रावाप्तिरुच्यते ॥

वामभागे महारोगः कट्यां सव्ये महद्यशः ॥ ५ ॥

उदरके दहिने भागपर पडे तो पुत्रकी प्राप्ति और उदरपर बांयींतर्फ पडे तो महान् रोग हो दहिनीकटिपर पडे तो महान् यश मिलै ॥ ५ ॥

वामकट्यां तु निधनं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

जान्वेरेवं विजानीयात्सव्यपादे शुभावहम् ॥ ६ ॥

बांयीं कटिपर तत्त्वदर्शीमुनियोंने मृत्यु कही है और दोनों गूडोंपर भी मृत्यु जानना, दहिने पांवपर शुभ फल जानना ॥ ६ ॥

वामपादे तु गमनमिति प्राहुर्महर्षयः ॥

स्त्रीणां तु सरटश्चैव व्यस्तमेतत्फलं वदेत् ॥ ७ ॥

बायें पैरपर पडे तो गमन हो ऐसे महर्षि जनोंने कहा है इसीप्रकार किरलकाँटका फल जानना और स्त्रियोंको यह फल विपरीत

होता है अर्थात् पुरुषके जिस अंगपर शुभफल कहाहै वहां अशुभ फल होता है ॥ ७ ॥

फलं प्ररोहणे चैव सरटस्य प्रचारतः ॥

सर्वंगेषु शुभं विद्याच्छांतिं कुर्यात्स्वशक्तितः ॥ ८ ॥

किरलकाँट सब अंगोंमें जहां चढजाय उसी जगहके शुभफलके विचारै जो अशुभफल होय तो शक्तिके अनुसार शांति करवाने चाहिये ॥ ८ ॥

शुभस्थाने शुभावातिरशुभे दोषशांतये ॥

तत्स्वरूपं सुवर्णेन रुद्ररूपं तथैव च ॥ ९ ॥

शुभ स्थानमें चढे तो शुभफलकी प्राप्ति हो और अशुभस्थान पर चढे तो शांति करवानी चाहिये तिस किरलकाँटको सुवर्णक बदनवाके रुद्ररूप जानकर पूजनकरै ॥ ९ ॥

मृत्युंजयेन मंत्रेण वस्त्रादिभिरथार्चयेत् ॥

अग्निं तत्र प्रतिष्ठाप्य जुहुयात्तिलपायसैः ॥ १० ॥

मृत्युंजयमंत्रसे वस्त्रआदि समर्पणकरके पूजनकरै अग्निस्थापन करके तिल और खीरसे होम करै ॥ १० ॥

आचार्यो वारुणैः सूक्तैः कुर्यात्तत्राभिषेचनम् ॥

आज्यावलोकनं कृत्वा शक्त्या ब्राह्मणभोजनम् ॥ ११ ॥

वरुणदेवताके मंत्रोंसे आचार्य तहां अभिषेक, करै यजमान घृतमें मुख देखके (छायादान कर) शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन करवावे ॥ ११ ॥

गणेशक्षेत्रपालार्कदुर्गाक्षोण्यंगदेवताः ॥

तासां प्रीत्यै जपः कार्यः शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥ १२ ॥

गणेश, क्षेत्रपाल, सूर्य, दुर्गा, चौसठयोगिनी, अंगदेवता इन्होंकी प्रीतिके वास्ते इनके मंत्रोंका जप करै अन्य सब विधि पहिलेकी तरह करनी ॥ १२ ॥

ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यात्षोडशभ्यः स्वशक्तितः ॥ १३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां पल्लीसरटाशुभस्थानशांति-
प्रकरणाध्याय एकोनचत्वारिंशत्तमः ॥ ३९ ॥

अपनी शक्तिके अनुसार सोलह ऋत्विजोंके अर्थ दक्षिणा देनी १३ इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां पल्लीसरटाशुभस्थानशांति-
प्रकरणाध्याय एकोनचत्वारिंशत्तमः ॥ ३९ ॥

आरोहेत गृहं यस्य कपोतो वा प्रवेशयेत् ॥

स्थानहानिर्भवेत्तस्य यद्दानर्थपरंपरा ॥ १ ॥

जिसके घरमें कपोत (बाजपक्षी) प्रवेश होजाय अथवा घरके ऊपर बैठजाय उसके स्थानकी हानि हो अथवा कोई दुःख होवे ॥ १ ॥

दोषाय धनिनां गेहे दरिद्राणां शिवाय च ॥

तच्छांतिस्तु प्रकर्तव्या जपहोमविधानतः ॥ २ ॥

धनीपुरुषोंके घरमें प्रवेश होना यह अशुभफल है और दरिद्री पुरुषोंके घरमें तथा शून्यघरमें शुभफल जानना तिसकी शांति जप होम विधिसे करनी चाहिये ॥ २ ॥

ब्राह्मणान्वरयेत्तत्र स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥

षोडशद्वादशाष्टौ वा श्रौतस्मार्तक्रियापरान् ॥ ३ ॥

श्रुति स्मृतिकी क्रियामें तत्पर रहनेवाले सोलह वा आठ ब्राह्मणोंको स्वस्तिवाचनपूर्वक वरणकरै ॥ ३ ॥

देवाः कपोत इत्यादि ऋग्भिः स्यात्पंचभिर्जपः ॥

कुंडं कृत्वा प्रयत्नेन स्वगृह्योक्तविधानतः ॥ ४ ॥

“ देवाः ” कपोत, इत्यादि पांचऋचाओंसे जप करवाना और अपने वेदशाखाके अनुकूल अग्निकुंड बनवावे ॥ ४ ॥

ईशान्यां स्थापयेद्ब्रह्मिं मुखांतेऽष्टोत्तरं शतम् ॥

प्रत्येकं समिदाज्यान्नैः प्रतिप्रणवपूर्वकम् ॥ ५ ॥

ईशानकोणमें अग्निस्थापन कर समिध, घृत, अन्न इन्हों करके ओंकारपूर्वक अष्टोत्तर शत १०८ आहुति अग्निके मुखमें करै ॥ ५ ॥

यत इंद्रभयामहस्वस्ति तेनेति त्र्यंबकैः ॥

त्रिभिर्मंत्रैश्च जुहुयात्तिलान्व्याहृतिभिः सह ॥ ६ ॥

“यत इंद्रभयामहे” इस मंत्रसे अथवा “ स्वस्तिन इन्द्रो ” वा “ त्र्यंबकं ” इन तीनमंत्रोंसे व्याहृतिपूर्वक तिलोंसे होमकरै ॥ ६ ॥

कुर्यादेव ततो भक्त्या कर्ता पूर्णाहुतिं स्वयम् ॥

विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्याद्दोषशान्तिं ततो जपेत् ॥ ७ ॥

फिर यजमान आप भक्तिपूर्वक पूर्णाहुति करै और ब्राह्मणोंके वास्ते दक्षिणा बाँटै ऐसे करनेसे तिसदोषकी शान्ति होवे ॥ ७ ॥

ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्स्वयं भुंजीत बंधुभिः ॥

एवं यः कुरुत भक्त्या तस्माद्दोषात्प्रमुच्यते ॥ ८ ॥

फिर ब्राह्मणोंको भोजन करवाके आप अपने बंधुजनों सहित भोजन करै ऐसे जो भक्तिसे करताहै वह तिसदोषसे छूटजाताहै ॥ ८ ॥

पिंगलायाः स्वरेप्येवं मधुवाल्मीकयोरपि ॥

संपूर्णमंगले हानिः शून्यसद्धानि मंगलम् ॥ ९ ॥

पिंगला (कोतरी) के बोलनेमें तथा मधु वाल्मीक पक्षीके बोलेनमें भी ऐसे ही शांति कराना।संपूर्ण मंगलकी जगह इनका प्रचार होवे तो हानिहो और शून्यमकानमें बोलें तो शुभफल हो ॥ ९ ॥

प्राकारेषु पुरद्वारे प्रासादाद्येषु वीथिषु ॥

तत्फलं ग्रामपस्यैव सीमा सीमाधिपस्य च ॥ १० ॥

किला, कोट, पुरका दरवाजा, मंदिर, राजभवन, गली इन्होंपर बोले तो वह फल ग्रामके अधिपतिको ही होता है सीमापर बोले तो सीमाके मालिकको फल होता है ॥ १० ॥

शांतिकर्माखिलं कार्यं पूर्वोक्तेन क्रमेण तु ॥ ११ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां कपोतपिंगलादिशां

तिरध्यायश्चत्वारिंशत्तमः ॥ ४० ॥

इन कोतरी आदिकोंके बोलनेमें पूर्वोक्त क्रमकरके संपूर्ण शांति कर्म कराना चाहिये ॥ ११ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां कपोतपिंगलादि

शांतिरध्यायश्चत्वारिंशत्तमः ॥ ४० ॥

उत्पाता ह्यखिला नृणामगम्याः शुभसूचकाः ॥

तथापि सद्यः फलदं शिथिलीजननं महत् ॥ १ ॥

शुभसूचक संपूर्ण उत्पात, मनुष्योंको प्राप्त होने दुर्लभ हैं । परंतु शिथिलीजनन अर्थात् अचानकसे शिथिल होकर किसी वस्तुका गिरना उछडना आदि उत्पात तत्काल महान फल करते हैं ॥ १ ॥

शिथिलीजननं ग्रामे सेतौ वा देवतालये ॥

तत्फलं ग्रामपस्थैव सीम्नि सीमाधिपस्य च ॥ २ ॥

ग्राममें अथवा पुलपर वा देवताके मंदिरमें जो यह पूर्वोक्त उत्पात होय तो ग्रामके स्वामीको अशुभ फल होता है सीमापर हो तो सीमाके मालिकको अशुभ फल होता है ॥ २ ॥

शिथिलीजनने हानिः सर्वस्थानेषु दिक्षु च ॥

तद्दोषशमनायैव शांतिकर्म समाचरेत् ॥ ३ ॥

सर्वस्थानोंमें सब दिशाओंमें जहां शिथिलजनन उत्पात (किसी-किसी रूपविगडना अचानकसे ढीलाहोना) होता है वहां हानि होती है तिस दोषको शमन करनेके वास्ते शांति करनी चाहिये ॥ ३ ॥

स्वर्णेन मृत्युप्रतिमां कृत्वा वित्तानुसारतः ॥

रक्तवर्णं चर्मदंडधरं महिषवाहनम् ॥ ४ ॥

सुवर्णकरके वित्तके अनुसार मृत्युकी मूर्ति बनवावे लालवर्ण, लाल तथा दंडको धारण किये, मैसाकी सवारी ऐसी मूर्ति बनवानी चाहिये ॥ ४ ॥

नववस्त्रं च संवेष्य तंदुलोपरि पूजयेत् ॥

तल्लिंगेन च मंत्रेण नैवेद्यं तु यथाविधि ॥ ५ ॥

तिस मूर्तिको नवीन वस्त्रसे लपेटकर चावालोंपर स्थापितकर तिसका पूजनकरै तिस धर्मराजके मंत्रका उच्चारणकर यथार्थविधिसे नैवेद्य चढावे ॥ ५ ॥

पूर्णकुंभं तदीशान्यां रक्तवस्त्रेण वेष्टितम् ॥

पंचत्वक्पल्लवैर्युक्तं जलं मंत्रैः समर्पयेत् ॥ ६ ॥

जलका पूर्णकलश ईशानकोणमें स्थापितकर तिसपर लालवस्त्र उढावे पंचपल्लव, पंचवल्कल, आम्रआदिकोंसे युक्तकर मंत्रों करके तिस कलशमें जल ढालै ॥ ६ ॥

अग्निसंस्थापनं प्राच्यां स्वगृहोक्तविधानतः ॥

प्रत्येकमष्टोत्तरशतमघोरेणैव होमयेत् ॥ ७ ॥

अपने कुलकी संप्रदायके अनुसार पूर्वदिशामें अग्नि स्थापनकरे अघोरमंत्रसे अष्टोत्तरशत १०८ होम करै ॥ ७ ॥

मंत्रेण समिदाज्यान्नैः शेषं पूर्ववदाचरेत् ॥

द्विजाय प्रतिमां दद्यात्सर्वदोषापनुत्तये ॥ ८ ॥

समिध, घृत, तिलादिक अन्न इन्होंसे होम करना अन्य सबविधि पहिलेकी तरह करना और संपूर्ण दोष मूर होनेके वास्ते उस सुवर्णकी मूर्तिको ब्राह्मणके अर्थ देवे ॥ ८ ॥

जलमंत्रेण संप्रोक्ष्य तत्स्थानं तीर्थवारिभिः ॥

एवं यः कुरुते सम्यक्स तु दोषात्प्रमुच्यते ॥ ९ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां शिथिलीजननशांति-
रध्याय एकचत्वारिंशत्तमः ॥ ४१ ॥

वरुणका मंत्र उच्चारणकर तिसउत्पातवाले स्थानको गंगा आदि तीर्थके जलसे छिडकदेवे इस प्रकार जो पुरुष करता है वह उत्पादि दोषसे छूट जाताहै ॥ ९ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां शिथिलीजननशांति-
रध्याय एकचत्वारिंशत्तमः ॥ ४१ ॥

श्रीरग्निर्बन्धुनाशश्च वित्तहानिर्महद्वशः ॥

बन्धुलाभः पुत्रहानिः स्त्रीचिंता महतो गदः ॥ १ ॥

पूर्वादीनि फलान्येषामिन्द्रलुप्तं च मस्तके ॥

पंचत्वक्पल्लवैश्चैव पंचामृतफलोदकैः ॥ २ ॥

अभ्यंगमंत्रितैर्मन्त्रैः स्नानदोषं विमुञ्चति ॥

एवमेवाग्निदाहेपि मस्तके मध्यदूषिते ॥ ३ ॥

दंतच्छेदे काकहते सरटापत्तनेपि च ॥

आशिषो वाचनं कृत्वा ब्राह्मणान्भोजयेच्छुचिः ॥ ४ ॥

किसीके शिरपर इन्द्रलुप्त होजाय अर्थात् शिरपरसे किसी जग-हके बाल उडजावें तो मस्तकमें पूर्वआदि दिशा कल्पित करके लक्ष्मीप्राप्ति १, अग्निभय २, बन्धुनाश ३, द्रव्यकी हानि ४, महान् यश ५, बन्धुलाभ ६, पुत्रहानि ७, स्त्रीचिंता ८, महान् रोग ९ यह फल पूर्वआदिदिशाओंका जानना और नवमां फल मस्तकमें मध्यभागका जानना।तहां इसकी शांतिके वास्ते पंचवल्कल, पंचपल्लव, पंचामृत, फलोदक इन्होंकरके स्नानकरावे और अभिषेकके मंत्रोंका उच्चारण करे तब शुद्धि होती ह। इसी प्रकार अग्निदाहादिसे मस्तकमध्यसे

दूषित होजाय तथा दांत आदि कटजाय, काक चोंचमारदेवे तथा किरलकांट चढजाय तो उसस्थानका भी शुभाशुभ फल विचारकर स्वस्तिवाचन करवाके ब्राह्मण जिमावें पवित्र रहे ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

लाभदः स्त्रीजनानां त्वशुभदो व्यत्ययो व्ययः ॥

दक्षिणे स्फुरणं लाभं वामे स्फुरणमन्यथा ॥ ५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां निमित्तशांति-

रध्यायो द्विचत्वारिंशत्तमः ॥ ४२ ॥

जो शकुन पुरुषोंको लाभदायक हैं वह स्त्रियोंको अशुभ विपरीत तथा हानिदायक जानना । पुरुषोंका दहिना अंग स्फुरणा शुभ है बायां अंग स्फुरणा अशुभ है ॥ ५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां निमित्तशांतिरध्यायो

द्विचत्वारिंशत्तमः ॥ ४२ ॥

स्वर्गाच्युतानां रूपाणि यान्युल्कास्तानि वै भुवि ॥

धिष्ण्योल्काविद्युदशानिताराः पंचविधाः स्मृताः ॥ १ ॥

स्वर्गसे पतितहुई उल्काओंके जो रूप पृथ्वीपर होते हैं तिनको कहते हैं । धिष्ण्या, उल्का, विद्युत्, अशनि, तारा ऐसे पांच प्रकारका उल्कापात जानना ॥ १ ॥

सम्यक्पञ्चविधानं च वक्ष्यते लक्षणं फलम् ॥

पाचयन्ति त्रिभिः पक्षैर्धिष्ण्योल्काशनिसंज्ञिताः ॥ २ ॥

उछे प्रकारसे इनपांचोंका विधान लक्षण फल कहते हैं । उल्का, अशनि इन संज्ञाओंवाली उल्का ४५ दिनमें ऋती हैं ॥ २ ॥

विद्युत्षड्विंशोभिश्च तारास्तद्वत्फलप्रदाः ॥

फलपाककरी तारा धिष्ण्याख्यार्द्धा फलप्रदा ॥ ३ ॥

विद्युत् छः दिनमें फलकरे, तारापात भी ६ दिनमें फलकरे तारापात पूराफल करता है । धिष्ण्या आधाफल करती है ॥ ३ ॥

उल्का विद्युदशन्याख्याः संपूर्णफलदा नृणाम् ॥

अश्वेभोष्टृपशुनृषु वृक्षक्षोणीषु च क्रमात् ॥ ४ ॥

विदारयन्ति पतितं स्वनेन महता शानिः ॥

जनयित्री च संत्रासं विद्युद्योमि त्विव स्फुटम् ॥ ५ ॥

उल्का, अशानि, विद्युत् ये मनुष्योंको पूराफल देती हैं । अश्व, हाथी, ऊंट, पशु, मनुष्य, वृक्षोंकी पंक्ति इन सबोंपर यथाक्रमसे पडती हैं और तोड़ फोड़ डालती हैं बडाभारी कडकना शब्द करती हैं यह अशनिका लक्षण है । और बिजली आकाशमें बहुत चिमकती है बडा भय दिखाती है यह विद्युत्का लक्षण है ॥ ४।५॥

चक्रा विशालज्वलिता पतन्ती वनराजिषु ॥

धिष्ण्यान्त्यपुच्छा पतति ज्वलितांगारसन्निभा ॥ ६ ॥

चक्राकार विशाल ज्वलिता, वनमें बहुतदूरतक पडतीहुई जलेहुए अगारसदृश, अंतमें पूंछसे आकारवाली ऐसी धिष्ण्या जाननी ॥ ६ ॥

हस्तद्वयप्रमाणा सा दृश्यते च समीपतः ॥

ताराब्जतनुवच्छुक्त्वा हस्तदीर्घाबुजारुणा ॥ ७ ॥

वह दो हाथप्रमाणकी समीपमें ही दीखती है चंद्रमासरीखी सफेद दीखतीहै ऐसी तारा जाननी और एक हाथ लंबी लालकमल सरीखी लाल ॥ ७ ॥

ऊर्ध्वं वाप्यथवा तिर्यग्धो वा गगनांतरे ॥

उल्काशिरो विशाला तु पतंती वर्द्धते तनुम् ॥ ८ ॥

आकाशमें ऊपरको अथवा नीचेको तिरछी होती है पडती हुईका विस्तार होजाता है जिसका मस्तक चौडा होता है ऐसी उल्का जाननी चाहिये ॥ ८ ॥

दीर्घपुच्छा भवेत्तस्या भेदाः स्युर्बहवस्तथा ॥

पीडाश्चोष्ट्राहिगोमायुस्वरगोगजदंष्ट्रिकाः ॥ ९ ॥

वह उल्का लंबी पूंछवाली होती है तिसके बहुतसे लक्षण हैं वह ऊंट, सर्प, गीदड़, गधा, गौ, हाथी, कजिाड इन्होंके समान आकारवाली उल्का इन सबोंको पीडा करती है ॥ ९ ॥

कपिगोधाधूमनिभा विविधा पापदा नृणाम् ॥

अश्वेभचंद्रजतवृषहंसध्वजोपमाः ॥ १० ॥

बंदर, गोह, धूमा इन्होंके समान अनेक आकारवाली होय तो मनुष्योंको पाप (अशुभ) फल करती है और, घोडा, हाथी चंद्रमा, चांदी, बैल, हंस, ध्वजा इन्होंके समान ॥ १० ॥

वज्रशंखशुक्तिकाब्जरूपाः शिवसुखप्रदाः ॥

पतंतीह स्वरा वह्नौ राजराष्ट्रक्षयाय च ॥ ११ ॥

अथवा हीरा, शंख, सीपी, कमल इन्होंके सदृश उल्का पडे तो मंगल सुखदायक जाननी । अग्निमें उल्कापात होजाय तो राजाका और देशोंका नाश हो ॥ ११ ॥

यद्यंबरे निपतति लोकस्याप्यतिविभ्रमः ॥

यद्यर्केदू संस्पृशति तत्र भूप्रकंपनम् ॥ १२ ॥

और जो आकाशमें ही रहे तो लोगोंको अत्यंत श्रमकरे जो सूर्य
चंद्रमाको स्पर्श करे तो राजाओंको कंपनी हो ॥ १२ ॥

परचक्रागमभयं जनानां क्षुजलाद्रयम् ॥

अर्केन्द्रोरपसव्योल्का पौरैतरविनाशदा ॥ १३ ॥

दूसरे राजाके आनेका भयहो मनुष्योंको दुर्भिक्षका तथा
जलका भयहो, सूर्यचंद्रमाके दहिनीतर्फ होकर पडे तो शहरसे अलग
तुच्छं बाहरगावोंमें रहनेवाले जनोंको पीडा करती है ॥ १३ ॥

उदयास्तमयेर्केद्रोः परतोल्का शुभप्रदा ॥

सितरक्ता पीतसिता सौल्का नेष्टा द्विजातिभिः ॥ १४ ॥

सितोदितोभये पार्श्वे पुच्छे दिक्षु विदिक्षु च ॥

विप्रादीनामनिष्ठानि पतितोल्कादिभान्यपि ॥ १५ ॥

सूर्यचंद्रमाके उदय अस्त होनेके बाद संधिमें पडे तो शुभदायक
जानना और सफेदलाल, तथा पीलीसफेद उल्का पडे तो द्विजातियों
को अच्छी नहीं है दोनों बराबरोंमें सफेद वर्णहों उल्काका पुच्छ
भाग दिशाओंमें रहे अथवा अग्निकोणआदि विदिशाओंमें रहे
तब पृथ्वीपर पडे तो ऐसे दूटे हुए तारे ब्राह्मण आदि वर्णोंको अशुभ
हैं तिनको कहते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥

तारा कुंदनिभा स्निग्धा भूभुजां तु शुभप्रदा ॥

नलि श्यामारुणा चाग्निवर्णोक्ता साशुभप्रदा ॥ १६ ॥

कुंदपुष्प समान सफेद चिकना तारा टूटे तो राजाओंको शुभदायक है, नील, श्याम, लाल, अग्निसमान वर्णवाला तारा टूटे तो अशुभदायक जानना ॥ १६ ॥

संध्यायां वह्निपीडा च दलिता राजनाशिनी ॥

नक्षत्रग्रहणे देवस्तद्वर्णानामनिष्टदा ॥ १७ ॥

संध्यासमयमें तारा टूटे तो अग्निकी पीडा करे खंडितहुआ तारा दीखे तो राजाको नष्टकरे और जिनके नक्षत्रोंका देवता गणहो पुरुषोंको अशुभफल जानना ॥ १७ ॥

स्थिरधिष्ण्येषु पतिता स्त्रीणां चोक्ता भयप्रदा ॥

क्षिप्रभेषु विशां पीडा भूपतीनां चरेषु च ॥ १८ ॥

स्थिरसंज्ञक नक्षत्रोंमें पडे तो स्त्रियोंको अशुभ जानना, क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रोंमें पडी हुई तारा वैश्योंको पीडाकरे चरसंज्ञक नक्षत्रोंमें पडे तो राजाओंको पीडाकरे ॥ १८ ॥

मृदुभेषु द्विजातीनां दारुणं दारुणेषु च ॥

उग्रभेषु च शूद्राणां परेषां मिश्रभेषु च ॥ १९ ॥

मृदुसंज्ञक नक्षत्रोंमें पडे तो ब्राह्मणोंको पीडा करै, दारुण तीक्ष्ण नक्षत्रोंमें पडे तो दारुण दुष्टपुरुषोंको पीडा करै, उग्रसंज्ञक नक्षत्रोंमें पडे तो शूद्रोंको पीडा करै, मिथुन नक्षत्रोंमें नीचजातियोंको पीडा करै ॥ १९ ॥

राजराष्ट्रस्वनाशाय प्रासादप्रतिमासु च ॥

गृहेषु स्वामिनां पीडा नृपाणां पर्वतेषु च ॥ २० ॥

राजाके भवनमें अथवा देवताओंकी मूर्तियोंपर बिजली पड़े तो राज्यको नष्ट करे, घरमें पड़े तो घरके मालिकको पीड़ा करै पर्वतोंपर पड़ेतो राजाओंको पीड़ाकरै ॥ २० ॥

दीक्षितानां दिगीशानां कर्षकाणां स्थलेषु च ॥

प्राकारे परिखायां वा द्वारि तत्पौरमध्यमे ॥ २१ ॥

स्थलमें पड़े तो दीक्षित (ब्रह्मचारी आदि) दिशाओंके स्वामी किसानलोग इन्हेंको पीड़ाकरे और किला, कोट, खाही, शहरका दरवाजा, शहरका मध्यभाग ॥ २१ ॥

परचक्रागमभयं राज्यं पौरजनक्षयः ॥

गोष्ठे गोस्वामिनां पीडा शिल्पिकानां जलेषु च ॥ २२ ॥

इन्हेंमें पड़े तो दूसरा राज्य आनेका भय हो और शहरके लोगों का नाशहो, गोशालामें पड़े तो गौओंके स्वामियोंको पीड़ा हो, जलमें पड़े तो (शिल्पी) कारीगरोंको पीड़ा हो ॥ २२ ॥

राजहंत्री तंतुनिभा चेंद्रध्वजसमाथ वा ॥

प्रतीपगा राजपत्नीं तिर्यगा च चमूपतिम् ॥ २३ ॥

तंतुसमान आकारवाली पड़े तो राजाको नष्ट करै, इंद्रधनुष समान पड़े तो भी राजाको नष्ट करे और उलटी होकर पड़े तो राजाकी रानीको नष्ट करै, तिरछी पड़े तो सेनापतिको नष्टकरै ॥ २३ ॥

अधोमुखी नृपं हंति ब्राह्मणानूर्ध्वगा तथा ॥

वृक्षोपमा पुच्छनिभा जनसंक्षोभकारिणी ॥ २४ ॥

नीचेको मुखवाली उल्का राजाको नष्टकरै, ऊपरको मुखवाली ब्राह्मणोंको नष्टकरे, वृक्षसमान तथा पूंछसमान आकारवाली उल्का मनुष्योंको त्रास देती है ॥ २४ ॥

प्रसर्पिणी या सर्पवत्सा गणानामनिष्टदा ॥

वर्तुलोलका पुरं हंति च्छत्राकारा पुरोहितम् ॥ २५ ॥

सर्पकी तरफ फैलती हुई उल्का (बिजली) पड़े तो किसी भी चाकर लोगोंको अशुभ है। गोल उल्का पड़े तो पुरको नष्ट करे छत्राकार पड़े तो सजाके पुरोहितको नष्ट करै ॥ २५ ॥

वंशगुल्मलताकारा राष्ट्रविद्राविणी तथा ॥

सकरव्यालसदृशा खंडाकारा च पापदा ॥ २६ ॥

बांस, गुल्म, लता इनके समान आकारवाली पड़े तो राज्यको नष्ट करै और सूकर सर्प तथा खंडित आकारवाली उल्का पड़े तो पापदायक (अशुभदायक) है ॥ २६ ॥

इंद्रचापनिभा राज्यं मूर्च्छिता हंति तोयदम् ॥ २७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायामुल्कालक्षणा-

ध्यायस्त्रिचत्वारिंशत्तमः ॥ ४३ ॥

इंद्रधनुष समान आकारवाली पड़े तो राज्यको नष्ट करै और मूर्च्छिता अर्थात् कांतिहीन उल्का (बिजली) पड़े तो जलका कामकरनेवाले जनोंको पीडा करै ॥ २७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटी० उल्कालक्षणाध्याय-

स्त्रिचत्वारिंशत्तमः ॥ ४३ ॥

किरणा वायुनिहता उच्छ्रिता मंडलीकृताः ॥

नानावर्णाकृतयस्ते परिवेषाः शशीनयोः ॥ १ ॥

वायुसे निहतहुई सूर्य वा चंद्रमाकी किरण ऊपरको होके मंडलाकार होजाती हैं उनके अनेक वर्ण और अनेक आकार होते हैं तिनको सूर्यचंद्रमाके परिवेष (मंडल) कहते हैं ॥ १ ॥

ते रक्तनीलपांडुरकपोताभ्राश्च कापिलाः ॥

सपीतशुकवर्णाश्च प्रागादिदिक्षु वृष्टिदाः ॥ २ ॥

सुदुर्मुहुः प्रलीयंते न संपूर्णफलप्रदाः ॥

शुभास्तु कपिलाः स्निग्धाः क्षीरतैलांबुसन्निभाः ॥ ३ ॥

वे मंडल लाल, नील, पांडुरवर्ण (गुलाबी) कपोतसरीखे तथा बादल सरीखे वर्णवाले तथा कपिल वर्णवाले पीले तथा हरे इनवर्णोंके होते हैं। ये वर्ण यथा क्रमसे पूर्वादि दिशाओंमें होवें तो वर्षाहोवे और जो मंडलके वर्ण बारंबार हो होकर नष्ट होजावें तो पूरा फल नहीं करते हैं कपिलवर्ण, चिकने दूध तथा तेल व जलसरीखी कांतिवाले ॥ २ ॥ ३ ॥

चापशृंगाटकथक्षतजाभारुणाः शुभाः ॥

अनेकवृक्षवर्णाश्च परिवेषा नृपांतकृत् ॥ ४ ॥

धनुष, चौपट, रथ इनके आकार तथा रक्तसमान लाल ऐसे कुंडल शुभदायक कहे हैं अनेक दरखतोंके समान आकार हरेकुंडल राजाओंको नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥

अहर्निशं प्रतिदिनं चंद्रार्कवरुणो यदा ॥

परिविष्टो नृपवधं कुरुतो लोहितो यदा ॥ ५ ॥

जो दिनरात नियम करके अर्थात् दिनमें सूर्यके और रात्रिमें चंद्रमाके इस प्रकार सूर्यचंद्रमाके लालवर्ण मंडल बना रहे तो राजाकी मृत्यु हो ॥ ५ ॥

द्विमंडलश्चमूनाथं नृपघ्नोऽथ त्रिमंडलम् ॥

परिवेषगतः सौरिः क्षुद्रधान्यविनाशकृत् ॥ ६ ॥

दो मंडल होवें तो सेनापतिको नष्टकरै, तीसमंडल होवें तो राजाको नष्टकरै, मंडलके मध्यमें शनि प्राप्त होवे तो तुच्छधान्यों का नाशहो ॥ ६ ॥

रणकृद्भूमिजो जीवः सर्वेषामभयप्रदः ॥

ज्ञः सस्यहानिदः शुक्रो दुर्भिक्षकलहप्रदः ॥ ७ ॥

मंगल मंडलमें आजाय तो युद्ध करावे बृहस्पति हो तो सबको अभय करै, बुध हो तो खेतीका नाशकरे, शुक्र मंडलमें प्राप्तहो तो दुर्भिक्ष तथा कलह करे ॥ ७ ॥

परिवेषगतः केतुर्दुर्भिक्षकलहप्रदः ॥

पीडां नृपवधं राहुर्गर्भच्छेदं करोति च ॥ ८ ॥

केतु सूर्यमंडलमें आजाय तो दुर्भिक्ष तथा कलह करे, राहु मंडलमें आजाय तो पीडा, राजाकी मृत्यु, गर्भच्छेद यह फल करता है ॥ ८ ॥

द्वौ ग्रहौ परिवेषस्थौ क्षितीशकलहप्रदौ ॥

कुर्वति कलहानर्घं परिवेषगतास्त्रयः ॥ ९ ॥

दो ग्रह मंडलमें प्राप्तहोवें तो राजाओंका युद्धहो, तीन ग्रह होवें तो कलह तथा अन्नका भाव महुँगा करे ॥ ९ ॥

चत्वारः परिवेषस्था नृपस्य मरणप्रदाः ॥

परिवेषगताः पंच बलप्रबलदा ग्रहाः ॥ १० ॥

चारग्रह होवें तो राजाकी मृत्यु करै और मंडलमें पांचग्रह होवें तो बलदायक (शुभफलदायक) जानने ॥ १० ॥

एवं वक्रग्रहास्तेषामेवं फलनिरूपणम् ॥

नृपहानिः कुजादीनां परिवेषे पृथक् पृथक् ॥ ११ ॥

इसी प्रकार दो चार वक्रीग्रह हों उनका भी फल जानना मंगल आदि पृथक् २ ग्रह चंद्रमंडलमें होवें तो राजाकी हानि हो ॥ ११ ॥

परिवेषोपि धिष्ण्यानां फलमेवं द्वयोस्त्रिषु ॥

परिवेषो द्विजातीनां नेष्टः प्रतिपदादिषु ॥ १२ ॥

इसीतरह अन्य भी दो वा तीन तारे चंद्रमंडलमें होवें तो उनका फल जानना और प्रतिपदा आदि चारतिथियोंमें सूर्यके वा चंद्रमाके मंडलमें होय तो ब्राह्मणोंको अशुभ फल जानना ॥ १२ ॥

पंचम्यादिषु तिसृषु ह्यशुभो नृपतेस्तथा ॥

अष्टम्यां युवराजस्य परिवेषोप्यभीष्टदः ॥ १३ ॥

पंचमी आदि तीनतिथियोंमें मंडल होय तो राजाको अशुभ जानना अष्टमीके दिन मंडल हो तो युवराजको शुभदायक जानना ॥ १३ ॥

ततस्तिसृषु तिथिषु नृपाणामशुभप्रदः ॥

पुरोहितस्य द्वादश्यां विनाशाय भवेदसौ ॥ १४ ॥

सैन्यक्षोभस्त्रयोदश्यां नृपरोधमथापि वा ॥

राजपत्न्यश्चतुर्दश्यां परिवेषो गदप्रदः ॥ १५ ॥

नवमीआदि तीनतिथियोंमें राजाओंको अशुभ जानना ।
द्वादशीको मंडल होय तो राजाके पुरोहितका नाश हो, त्रयोदशीके
दिन हो तो सेनाका कोप हो अथवा राजाका अवरोध हो चतुर्दशीके
दिन हो तो रानीके रोग होवे ॥ १४ ॥ १५ ॥

परिवेषः पंचदश्यां क्षितीशानामनिष्टदः ॥

परिवेषस्य मध्ये वा बाह्ये रेखा भवेद्यदि ॥ १६ ॥

स्थायिनां मध्यमा नेष्टा यायिनां पार्श्वसंस्थिता ॥

प्रावृद्धतौ च शरदि परिवेषो जलप्रदः ॥ १७ ॥

पूर्णिमाको मंडल होय तो राजाओंको अशुभ है मंडलके मध्यमें
अथवा बाहिरकी तर्फ रेखा होय तो स्थायी (अपने किलामें
स्थितरहनेवाले) राजाओंको मध्यम जानना और बराबरमें
रेखा होय तो गमन करनेवाले राजाओंको अशुभ जानना, प्रावृद्
ऋतुमें तथा शरदऋतुमें मंडल होय तो वर्षा करे ॥ १६ ॥ १७ ॥

प्राथेणान्येषु ऋतुषु तदुक्तफलदायिनः ॥ १८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां परिवेषलक्षणाध्याय-

श्वतुश्वत्वारिंशत्तमः ॥ ४४ ॥

और विशेषकरके अन्य ऋतुओंमें सूर्य वा चंद्रमाके मंडल होय
तो जैसा पूर्व कहाहै वही फल जानना ॥ १८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां परिवेषलक्षणाध्याय

श्वतुश्वत्वारिंशत्तमः ॥ ४४ ॥

नानावर्णाशवो भानोः साभ्रवायुविघट्टिताः ॥

यद्व्योम्नि चापसंस्थानमिंद्रचापं प्रदृश्यते ॥ १ ॥

सूर्यकी किरण बादल और वायुके संयोगसे अनेक प्रकारके रंगोंवाली होकर आकाशमें धनुषके आकार होजाती हैं वह इंद्रधनुष कहलाता है ॥ १ ॥

अथवा शेषनागेंद्रदीर्घनिश्वाससंभवम् ॥

विदिक्षुजं दिक्षुजं च तद्दिङ्मृपविनाशनम् ॥ २ ॥

अथवा सर्पराज शेषनागके उच्च श्वास लेनेसे इंद्रधनुष होजाता है वह जिस दिशामें अथवा जिसकोणमें होय तिसीदिशके स्वामी राजाको नष्ट करे ॥ २ ॥

पीतपाटलनीलैश्च वह्निशस्त्रास्त्रभीतिदम् ॥

वृक्षजं व्याधिदं चापं भूमिजं सस्यनाशदम् ॥ ३ ॥

अवृष्टिदं जलोद्भूतं वल्मीके युद्धभीतिदम् ॥

अवृष्टौ वृष्टिदं चैत्र्यां दिशि वृष्ट्यामवृष्टिदम् ॥ ४ ॥

पीला, पाडलवर्ण, नीलावर्ण इंद्रधनुष होय तो अग्नि तथा युद्धका भय करे वृक्षके ऊपर किरणोंकी क्रांति पडके धनुषाकार दीखे तो प्रजामें रोग हो तथा भूमिपर दीखे तो खेतीको नष्टकरे जलमें क्रांति पडके धनुष दीखे तो वर्षा नहीं होवे । बमईमें बिलमें धनुषकी क्रांति पडे तो प्रजामें युद्धका भयहो, पूर्वदिशामें इंद्रधनुष होय तो वर्षा नहीं होवे तो वर्षा होने लगे और वर्षा होतेहुए पूर्वदिशामें इंद्रधनुष दीखे तो वर्षाहोनी बंद होजाय ॥ ३ ॥ ४ ॥

सदैव वृष्टिदं पश्चाद्दिशोरितरयोस्तथा ॥

रात्र्यामिंद्रधनुः प्राच्यां नृपहानिर्भवेद्यदि ॥ ५ ॥

पश्चिमदिशामें इंद्रधनुष दीखे तो सदा वर्षा करताहै अन्यदिशाओंमें (उत्तरदक्षिणमें) हो तो भी वर्षाकरे, रात्रिमें पूर्वदिशामें इंद्रधनुष दीखे तो राजाकी हानि करे ॥ ५ ॥

याम्यां सेनापतिं हंति पश्चिमे नायकोत्तमम् ॥

मंत्रिणं सौम्यदिग्भागे सचिवं कोणसंभवम् ॥ ६ ॥

दक्षिणदिशामें दीखे तो सेनापतिको नष्ट करे पश्चिममें हो तो बडे हाकिम सरदारको नष्ट करे, उत्तर तथा ईशान आदि कोणोंमें दीखे तो राजाके मंत्रीको नष्ट करे ॥ ६ ॥

रात्र्यामिंद्रधनुः शुक्लवर्णाढ्यं विप्रपूर्वकम् ॥

हंति यद्दिग्भवं स्पष्टं तद्दिगीशनृपोत्तमम् ॥ ७ ॥

रात्रिमें पूर्वदिशामें सफेदवर्ण इंद्रधनुष दीखे तो ब्राह्मणोंको नष्ट कर और जिस दिशामें स्पष्ट इंद्रधनुष दीखे उसी दिशाका राजा नष्ट होताहै ॥ ७ ॥

अवनीगाढमच्छिन्नं प्रतिकूलं धनुर्द्रयम् ॥

नृपांतकृद्यदि भवेदानुकूल्यं न तच्छुभम् ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायामिंद्रचापलक्षणाध्यायः

पंचचत्वारिंशत्तमः ॥ ४५ ॥

बिना कटाहुआ धनुष पृथ्वीपर शुभफल करताहै दो धनुष अशुभफल करतेहैं, राजाको नष्ट करतेहैं अनुकूल शुभफल नहीं करते ॥ ८ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामिंद्रचापलक्षणाध्यायः

पंचचत्वारिंशत्तमः ॥ ४५ ॥

गंधर्वनगरं दिक्षु दृश्यतेऽनिष्टदं क्रमात् ॥

भ्रुभुजां वा चमूनाथसेनापतिपुरोधसाम् ॥ १ ॥

दिशाओंमें गंधर्वनगर दीखना यथाक्रमसे राजा, सेनापति, मंत्री पुरोहित इन्होंको अशुभफल करताहै ॥ १ ॥

सितरक्तपीतकृष्णं विप्रादीनामनिष्टदम् ॥

रात्रौ गंधर्वनगरं धराधीशविनाशनम् ॥ २ ॥

और सफेद, लाल, पीला, काला, ये वर्ण दीखने यथाक्रमसे ब्राह्मणआदिकोंको अशुभ है रात्रिमें गंधर्वनगर दीखे तो राजाको नष्ट करे ॥ २ ॥

इंद्रचापाग्निधूमाभं सर्वेषामशुभप्रदम् ॥

चित्रवर्णं चित्ररूपं प्राकारध्वजतोरणम् ॥ ३ ॥

इंद्रधनुष, अग्नि, धूमा इन्होंके सदृश गंधर्वनगर दीखे तो सभी को अशुभफलदायकहै विचित्रवर्ण, विचित्ररूप, कोटका आकार, ध्वजा, तोरण ॥ ३ ॥

दृश्यते चेन्महायुद्धमन्योन्यं धरणीभुजाम् ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां गंधर्वनगरदर्शनाध्यायः

षट्चत्वारिंशत्तमः ॥ ४६ ॥

इन्होंके आकार दीखें तो राजाओंका आपसमें महान् युद्ध हो ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां गंधर्वनगरदर्शनाध्यायः

षट्चत्वारिंशत्तमः ॥ ४६ ॥

प्रतिसूर्यनिभः स्निग्धः सूर्यः पार्श्वे शुभप्रदः ॥

वैडूर्यसदृशस्वच्छः शुक्लो वापि सुभिक्षकृत् ॥ १ ॥

सूर्यके तेजसे बादलमें दूसरा सूर्य दीखजाताहै वह स्निग्धवर्ण तथा बराबरमें दखिे तो शुभहै वैडूर्य मणिके समान स्वच्छ सफेद दीखेतो सुभिक्ष करताहै ॥ १ ॥

पीताभो व्याधिदः कृष्णो मृत्युदो युद्धदारुणः ॥

माला चेत्प्रतिसूर्याणां शश्वच्चौरभयप्रदा ॥ २ ॥

पीलावर्ण प्रतिसूर्य दीखे तो प्रजामें बीमारी हो, कालावर्ण होय तो मृत्युदायक तथा दारुण युद्ध होताहै, बादलमें प्रतिसूर्याकी माला दीखे तो निरंतर चोरोंका भयहो ॥ २ ॥

जलदोदकप्रतिसूर्यो भानोर्याम्येनिलप्रदः ॥

उभयस्थोऽुभयदो नृपहोपर्यधो नृहा ॥ ३ ॥

उत्तरदिशामें प्रतिसूर्य दीखे तो वर्षा होवे, दक्षिणदिशामें दीखे तो वायु चले, दोनोंतर्फ बराबरमें प्रतिसूर्य दीखे तो वर्षाको बंद-करे, सूर्यके ऊपर प्रतिसूर्य दीखे तो राजाको नष्ट करे, सूर्यके नीचे प्रतिसूर्य दीखे तो प्रजाको नष्ट करे ॥ ३ ॥

पराभवंति तीक्ष्णांशोः प्रतिसूर्याः समंततः ॥

जगद्धिनाशमाप्नोति तथा शीतद्युतेरपि ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रतिसूर्यलक्षणाध्यायः

सप्तचत्वारिंशत्तमः ॥ ४७ ॥

सूर्यके चारों तर्फ प्रतिसूर्य होकर साक्षात् सूर्यकी क्रांतिको ही, नकर देवे तो जगत्का नाशहो इसी प्रकार चंद्रमाका भी फल जानना ॥ ४ ॥

इति श्रीनारदायसंहि० भाषाटी० प्रतिसूर्यलक्षणा

ध्यायः सप्तचत्वारिंशत्तमः ॥ ४७ ॥

अथ निर्घातलक्षणम् ।

वायुनाभिहितो वायुर्गगनात्पतति क्षितौ ॥

यदा दीप्तः खगुरुतः स निर्घातोतिदोषकृत् ॥ १ ॥

वायुसे प्रतिहत हुआ वायु आकाशसे पृथ्वीपर पडता है और अपने भारापनसे प्रदीप्त होता है वह निर्घात अत्यंत दोषदायकहै यह बिजली पडनेका लक्षण जानना ॥ १ ॥

निर्घातोऽर्कोदये नेष्टः क्षितीशानां विनाशदः ॥

आयामात्प्राक्पौरजनशूद्राणां चैव हानिदः ॥ २ ॥

सूर्य उदयसमय निर्घात होय तो राजाओंको अशुभ है नष्टकरनेवाला है, पहरदिन चढे पहिले हो तो शहरमें रहनेवाले शूद्रोंको हानिदायक है ॥ २ ॥

आमध्याह्ने तु विप्राणां नेष्टो राजोपजीविनाम् ॥

तृतीययामे वैश्यानां जलजानामनिष्टदः ॥ ३ ॥

चतुर्थे चार्थनाशाय संध्यायां हंति संकरान् ॥

आद्ये यामे सस्यहानिर्द्धितीये तु पिशाचकान् ॥ ४ ॥

मयाहृतक निर्घात होय तो ब्राह्मणोंको तथा राजद्वारमें नौकर रहनेवाले जनोंको अशुभ है, तीसरे प्रहरमें होयतो वैश्योंको तथा जलचरजीवोंको अशुभ है दिनके चौथे प्रहरमें धनका नाश करे सायंकालमें नीचजातियोंको अशुभ है रात्रिके प्रथम प्रहरमें खेतीकी हानि हो दूसरे प्रहरमें पिशाचोंको नष्ट करै ॥ ३ ॥ ४ ॥

हंत्यर्द्धरात्रे तुरगांस्तृतीये शिल्पिलेखकान् ॥

चतुर्थयामे निर्घातः पतन् हन्ति तदा जनान् ॥ ५ ॥

आधीरात समय घोड़ोंको नष्ट करै, रात्रिके तीसरे प्रहरमें शिल्पी तथा लेखक जनोंको नष्ट करै, रात्रिके चौथे प्रहरमें पडाहुआ निर्घात (बिजली) सब जनोंको नष्ट करता है ॥ ५ ॥

भीषजर्जरशब्दः स तत्रतत्र दिगीश्वरम् ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां निर्घातलक्षणाध्या-
योऽष्टचत्वारिंशत्तमः ॥ ४८ ॥

वह निर्घात अर्थात् बिजलीका पडना जो भयंकर जर्जरशब्द करे तो जिस दिशामें पडे उसीदिशाके राजाको नष्ट करे ॥ ६ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां निर्घातलक्षणा
ध्यायोऽष्टचत्वारिंशत्तमः ॥ ४८ ॥

दिग्दाहः पीतवर्णश्चेत्क्षितीशानां भयप्रदः ॥

देशनाशायाम्निवर्णोऽरुणवर्णोऽनिलप्रदः ॥ १ ॥

पीतवर्ण दिग्दाह होवे तो राजाओंको भय करे, अग्निसमान वर्ण हो तो देशका नाश करे, लालवर्ण हो तो वायु चलावे ऐसे यह दि-

ग्दाह अर्थात् सूर्यके उदय वा अस्त होनेके समय दिशाओंपर लाल आदि रंग दीखजाते हैं ॥ १ ॥

धूमः सस्यविनाशाय कृष्णः शस्त्रभयप्रदः ॥

प्राग्दाहः क्षत्रियाणां च नरेशानामनिष्टदः ॥ २ ॥

धूमवर्ण हो तो खेतीको नष्ट करे, काला वर्ण हो तो शस्त्रका भय हो, पूर्वदिशामें दिग्दाह दीखे तो क्षत्रियोंको और राजाओंको अशुभ फल करे ॥ २ ॥

आग्नेय्यां युवराजस्य शिल्पिनामशुभप्रदः ॥

पीडां व्रजंति याम्यायां मूकवैश्यनराधमाः ॥ ३ ॥

अग्निकोणमें हो तो युवराज तथा शिल्पीजनोंको अशुभ फल करे, दक्षिणदिशामें हो तो मढजन, वैश्य अधमजन इन्होंको पीडा हो ॥ ३ ॥

नैऋत्यां दिशि चौराश्च पुनर्भूप्रमदा नृणाम् ॥

प्रतीच्यां कृषिकर्तारो वायव्यां पशुजातयः ॥ ४ ॥

नैऋतकोणमें हो तो चोर, दूसरे विवाह करानेवाले जन, स्त्री इन्होंके पीडा हो, पश्चिमदिशामें हो तो किसान लोग और वायुकोणमें हो तो पशुजाति नष्ट होवें ॥ ४ ॥

सौम्ये विप्रादि चैशान्यां वैश्यानां खंडिनोखिलाः ॥

दिग्दाहः स्वर्णवर्णाभो लोकानां मंगलप्रदः ॥ ५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां दिग्दाहलक्षणाध्याय

एकोनपंचाशत्तमः ॥ ४९ ॥

उत्तरमें हो तो ब्राह्मण आदि और ईशानकोणमें हो तो वैश्योंको तथा संपूर्ण लोगोंको पीडा हो और सुवर्णसमान प्रदीप्त कांतिवाला दिग्दाह होवे तो संपूर्ण लोगोंको शुभदायक है ॥ ५ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां दिग्दाहलक्षणाध्याय

एकोनपंचाशत्तमः ॥ ४९ ॥

अथ रजोलक्षणाध्यायः ।

सितेन रजसा छिन्नदिग्ग्रामवनपर्वताः ॥

यथा तथा भवंत्यंते निधनं यांति भूमिपाः ॥ १ ॥

दिशा, ग्राम, वन, पर्वत ये सफेदवायुसे आच्छादित होजायें अर्थात् अंधी चलकर आकाशमें सफेद गरम चढजाय तो राजा-लोग मृत्युको प्राप्त होवें ॥ १ ॥

रजःसमुद्भवो यस्यां दिशि तस्यां विनाशनम् ॥

तत्रतत्रापि जंतूनां हानिदः शस्त्रकोपतः ॥ २ ॥

और जिस दिशामें रज (अंधी) उडकर चलके आवे उसी दिशाके प्राणियोंके शस्त्रकोपसे हानि करे ॥ २ ॥

मंत्रीजनप्रदानां च व्याधिदं चासितं रजः ॥

अर्कोदये विजृंभंति गगनं स्थगयंति च ॥ ३ ॥

दिनद्वयं च त्रिदिनमत्युग्रभयदं रजः ॥

रजो भवेदेकरात्रं नृपं हंति निरंतरम् ॥ ४ ॥

कालेवर्णकी रज (अंधी) राजमंत्रीको व देशोंको हानि करे सूर्योदयके समय अंधीचलकर आकाशको आच्छादित करदे दोदिन

तथा तीनदिन तक अत्यंत उग्रवायु चले और एकरात्रितक निरंतर धूलचढी रहे तो राजाको नष्ट करे ॥ ३ ॥ ४ ॥

परचक्रागमं न स्याद्विरात्रं सततं यदि ॥

क्षामडामरमातंकस्त्रिरात्रं सततं यदि ॥ ५ ॥

दो रात्रितक निरंतर धूल चढी रहे तो परचक्रागमन नहीं होता और तीन रात्रितक धूल बनी रहेतो दुष्ट डाकू जनोंका प्रजामें भय हो, रोग हो ॥ ५ ॥

ईतिदुर्भिक्षमतुलं यदि रात्रचतुष्टयम् ॥

निरंतरं पंचरात्रं महाराजविनाशनम् ॥ ६ ॥

चार रात्रितक रहेतो टीडी आदि ईति तथा दुर्भिक्षका अत्यंत भय हो निरंतर पांचरात्रितक हो तो महाराजाको नष्टकरे ॥ ६ ॥

ऋतावन्यत्र शिशिरात्संपूर्णफलदं रजः ॥ ७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां रजोलक्षणाध्यायः

पंचाशत्तमः ॥ ५० ॥

शिशिरऋतुके विना अन्यऋतुकी रज (अंधी) चलना पूराफल करतीहै अर्थात् शिशिरऋतुमें अंधी चलनेका (ज्यादेपवनचलनेका) कुछ दोष नहींहै ॥ ७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां रजोलक्षणाध्यायः

पंचाशत्तमः ॥ ५० ॥

भूभारखिन्ननागेंद्रदीर्घनिःश्वाससंभवः ॥

भूकंपः सोपि जगतामशुभाय भवेत्तदा ॥ १ ॥

पृथ्वीके भारसे खिन्नहुए शेषनागके ऊंचे श्वास लेनेसे भूकंप अर्थात् भूमिकांपना भौंचाल होता है वह संसारको अशुभ फलदायी है ॥ १ ॥

यामक्रमेण भूकंपो द्विजातीनामनिष्टदः ॥

अनिष्टदो क्षितीशानां संध्ययोरुभयोरपि ॥ २ ॥

प्रहरके क्रमसे भूकंप, द्विजातियोंको अशुभफल देता है जैसे दिनके प्रथमप्रहरमें ब्राह्मणोंको अशुभ, २ प्रहरमें क्षत्रियोंको, ३ में वैश्योंको और चौथे प्रहरमें शूद्रोंको अशुभ जानना और दोनों संधियोंमें भूकंप होय तो राजाओंको अशुभ है ॥ २ ॥

अर्यमाद्यानि चत्वारि दस्रैर्द्विदितिभानि च ॥

वायव्यमंडलं त्वेतदस्मिन्कंपो भवेद्यदि ॥ ३ ॥

और उत्तराफाल्गुनी आदि चारनक्षत्र, अश्विनी, मृगशिर, पुनर्वसु इन नक्षत्रोंकी वायव्यमंडल संज्ञाहै इसमें भूकंप होय तो ॥ ३ ॥

नृपसस्यवणिग्वेश्याशिल्पवृष्टिविनाशदः ॥

पुष्यद्विदैवभरणी पितृभाग्यानलऽजपात् ॥ ४ ॥

खेती राजा, वैश्य, वेश्या, कारीगर, वर्षा इन्हींका नाश हो और पुष्य, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, कृत्तिका, पूर्वाभाद्रपद ॥ ४ ॥

आग्नेयमंडलं त्वेतदस्मिन्कंपो भवेद्यदि ॥

नृपवृष्ट्यर्चनाशाय हंति शांबरटकणान् ॥ ५ ॥

यह इन नक्षत्रोंका अग्निमंडल कहाताहै इसमें भूकंप हो तो राजाका नाश हो वर्षा नहींहो भाव महंगा रहे शांभरनमक, सुहागा इत्यादि वस्तु महंगी रहें ॥ ५ ॥

अभिजिद्धातृवैश्वेन्द्रवसुवैष्णवमैत्रभम् ॥

वासवं मंडलं त्वेतदस्मिन् कंपो भवेद्यदि ॥ ६ ॥

अभिजित, रोहिणी, उत्तराषाढ, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, श्रवण, अनुराधा
इन्हींका वासवमंडल कहाताहै इसमें भूकंप होवे तो ॥ ६ ॥

राजनाशाय कोपाय हंति माहेयदर्दुरान् ॥

मूलाहिर्बुध्म्यवरुणाः पौष्णमाद्राहिभानि च ॥ ७ ॥

राजाका नाश हो और राजाओंका वैर हो माहेय तथा
दर्दुर देशोंका नाश हो । मूल, उत्तराभाद्रपद, शतभिषा, पूर्वाषाढ,
रेवती, आर्द्रा, आश्लेषा ॥ ७ ॥

वारुणं मंडलं त्वेतदस्मिन् कंपो भवेद्यदि ॥

राजनाशकरो हंति पौण्ड्रचीनपुलिंदकान् ॥ ८ ॥

यह वारुणमंडल कहाहै इसमें भूकंप होय तो राजाको नष्ट करे
और पौण्ड्र, चीन, पुलिंद इन देशोंको नष्ट करे ॥ ८ ॥

प्रायेण निखिलोत्पाताः क्षितीशानामनिष्टदाः ॥

षड्भिर्मासैश्च भूकंपो द्वाभ्यां दाहफलप्रदः ॥ ९ ॥

विशेष करिके संपूर्ण उत्पात राजाओंको अशुभ कहे हैं भूकंपका
फल छः महीनेमें होताहै दोमहीनोंमें दिग्दाहका फल होताहै ॥ ९ ॥

अनुक्तः पंचभिर्मासैस्तदानीं फलदं रजः ॥ १० ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां भूकंपलक्षणाध्याय

एकपंचाशत्तमः ॥ ५१ ॥

और रज अर्थात् अंधी चलनेका तथा अन्यवस्तुका उत्पात पांचमहीनोंमें फल करताहै ॥ १० ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां भूकंपलक्षणा-
ध्याय एकपंचाशत्तमः ॥ ५१ ॥

अथ नक्षत्रजातफलम् ।

सुरूपः सुभगो रूक्षो मतिमान्भूषणप्रियः ॥

अंगनावल्लभः शूरो यो जातश्चाश्विभे नरः ॥ १ ॥

सुंदररूपवान्, सुंदरऐश्वर्यवान्, रूक्षवर्ण, बुद्धिमान्, आभूषण-
प्रिय, स्त्रियोंका प्रिय, शूरवीर, ऐसा मनुष्य अश्विनीनक्षत्रमें
जन्मनेसे होताहै ॥ १ ॥

कामोपचारकुशलः सत्यवादी दृढव्रतः ॥

अरोगः सुभगो जातो भरण्यां लघुभुक्सुखी ॥ २ ॥

कामशास्त्रमें निपुण, सत्यबोलने वाला, दृढनियमवाला, रोगर-
हित, सुंदर ऐश्वर्यवान्, हलका भोजन करनेवाला, सुखी ऐसा
मनुष्य भरणीमें जन्मनेसे होता है ॥ २ ॥

तेजस्वी मतिमान्दाता बहुभुक्प्रमदाप्रियः ॥

गंभीरः कुशलो मानी वह्निनक्षत्रजः शुचिः ॥ ३ ॥

तेजस्वी, बुद्धिमान्, दाता, बहुत भोजन करनेवाला, स्त्रियोंसे
प्यार रखनेवाला, गंभीर, चतुर, मानी, ऐसा पुरुष कृत्तिका नक्षत्रमें
जन्मनेसे होता है ॥ ३ ॥

सुरूपः स्थिरधीरानी भोगवान्सुरतप्रियः ॥

प्रियवाक्चतुरो दक्षस्तेजस्वी ब्रह्मधिष्ण्यजः ॥ ४ ॥

और सुंदररूपवान्, स्थिरबुद्धिवाला, मानी, भोगवान्, मैथुन प्रिय, प्रियबोलनेमें चतुर, सबकामोंमें निपुण, तेजस्वी ऐसा पुरुष रोहिणीमें जन्मनेसे होता है ॥ ४ ॥

उत्साही चपलो भीरुर्धनी सामप्रियः शुचिः ॥

आगमज्ञः प्रभुर्विद्वानिन्दुनक्षत्रजः सदा ॥ ५ ॥

और मृगशिरमें जन्मनेवाला मनुष्य चपल, उत्साहवाला, डर-पोक, धनी, साम (समझना) में प्रिय, पवित्र, शास्त्रको जानने वाला, प्रभु, विद्वान् होता है ॥ ५ ॥

अविचारपरः क्रूरः क्रयविक्रयनैपुणः ॥

गवि हिंस्रश्चंडकोपी कृतघ्नः शिवधिष्ण्यजः ॥ ६ ॥

और आर्द्रा नक्षत्रमें जन्मनेवाला पुरुष विचारवान् नहीं होता क्रूर तथा खरीदने बेचनेके व्यवहारमें निपुण, हिंसा करनेवाला, प्रचंड कोपवाला, कृतघ्न पुरुष होता है ॥ ६ ॥

दुर्मेधा वा दर्शनीयः परस्त्रीकार्यनैपुणः ॥

सहिष्णुरत्यसंतुष्टः शीघ्रगोदितिधिष्ण्यजः ॥ ७ ॥

पुनर्वसुमें जन्मनेवाला जन खराब बुद्धिवाला, दर्शनीय, परस्त्रीके कार्यमें निपुण, सहनेवाला, संतोष रहित, शीघ्रगमन करने वाला होता है ॥ ७ ॥

पंडितः सुभगः शूरः कृपालुर्धार्मिको धनी ॥

कलाभिज्ञः सत्यवादी कामी पुण्यर्क्षजो लघुः ॥ ८ ॥

और पुष्यनक्षत्रमें जन्म होय तो पंडित, सुंदरपेश्वर्यवान्, शूरवीर
कपालु, धार्मिक, धनी, कलाओंको जाननेवाला, सत्यवादी, सरल
ऐसा मनुष्य होता है ॥ ८ ॥

श्रेष्ठो धूर्तः क्रूरशूरो परदाररतः शठः ॥

अवक्रो व्यसनी दांतः सर्पनक्षत्रजो नरः ॥ ९ ॥

आश्लेषा नक्षत्रमें जन्मनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ, धूर्त, क्रूर, शूरवीर,
परस्त्रीगामी, मूर्ख, कुटिलतारहित, व्यसनी, जिवेंद्रिय होता है ॥ ९ ॥

शूरः स्थूलहनुः कुक्षो कोपवक्त्रासहः प्रभुः ॥

गुरुदेवार्चने सक्तस्तेजस्वी पितृधिष्यजः ॥ १० ॥

मघानक्षत्रमें जन्मनेवाला मनुष्य शूरवीर, भारीठोडीवाला, स्थूल-
कटिवाला, क्रोधके वचन बोलनेवाला, नहीं सहनेवाला, समर्थ,
गुरु तथा देवताके पजनमें आसक्त, तेजस्वी होता है ॥ १० ॥

द्यूतिमानटनो दाता नृपशास्त्रविशारदः ॥

कार्याकार्यविचारज्ञो भाग्यनक्षत्रजः पटुः ॥ ११ ॥

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें जन्मनेवाला पुरुष विचरनेवाला, दाता,
नृपशास्त्रमें निपुण, कार्य अकार्यके विचारमें निपुण तथा
चतुर होता है ॥ ११ ॥

जितशत्रुः सुखी भोगी प्रमदामर्दने कविः ॥

कलाभिज्ञः सत्यरतः शुचिः स्यादर्यमर्क्षजः ॥ १२ ॥

उत्तराफाल्गुनीमें जन्मनेवाला जन शत्रुओंको जीतता है सुखी
तथा भोगी स्त्रियोंसे क्रीडा करनेमें चतुर, कलाओंको जाननेवाला,
सत्यरत और पवित्र होता है ॥ १२ ॥

मेधावी तस्करोत्साही परकार्यरतो भटः ॥

परदेशस्थितः शूरः स्त्रीलाभः सूर्यधिष्ण्यजः ॥ १३ ॥

हस्तनक्षत्रमें जन्मनेवाला पुरुष बुद्धिमान्, चोरीमें उत्साहवाला, परकार्यमें रत, शूरवीर, परदेशमें रहनेवाला, पराक्रमी, स्त्रीसे लाभ करनेवाला होता है ॥ १३ ॥

चित्रमाल्यांबरधरः कामशास्त्रविशारदः ॥

द्युतिमान्धनवान्भोगी पंडितस्त्वष्टृधिष्ण्यजः ॥ १४ ॥

जो चित्रानक्षत्रमें जन्मे वह विचित्रमाला तथा विचित्र सुंदर वस्त्रोंको पहिनेवाला और कामशास्त्रमें निपुण होता है कांतिमान्, धनवान्, भोगी, तथा पंडित होता है ॥ १४ ॥

धार्मिकः प्रियवाक्छूरः क्रयविक्रयनैपुणः ॥

कामी बहुसुतो दांतो विद्यावान्मारुतर्क्षजः ॥ १५ ॥

स्वातिनक्षत्रमें जन्मनेवाला जन, धार्मिक, प्रियबोलनेवाला शूरवीर, खरीदने बेचनेके व्यवहारमें निपुण, कामी, बहुतपुत्रोंवाला, जितेंद्रिय, विद्यावान् होता है ॥ १५ ॥

अन्यायोपरतः श्लक्ष्णो मायापटुरनुद्यमः ॥

जितेंद्रियोर्थवाँलुब्धो विशाखर्क्षसमुद्भवः ॥ १६ ॥

अन्यायमें तत्पर, चतुर, मायारचनेमें चतुर, उद्यमरहित, जितेंद्रिय, धनवान्, लोभी ऐसा पुरुष विशाखानक्षत्रमें जन्मनेवाला होता है ॥ १६ ॥

नृपकार्यरतः शूरो विदेशस्थांगनापतिः ॥

सुहृपच्छन्नपापश्च पिंगलो मैत्रधिष्ण्यजः ॥ १७ ॥

राजाके कार्यमें तत्पर, शूरवीर, विदेशमें रहनेवाला, स्त्रियोंका मालिक, सुंदररूपवान्, गुप्त पापकरनेवाला, पिंगलवर्ण ऐसा पुरुष अनुराधा नक्षत्रमें जन्मनेवाला होता है ॥ १७ ॥

बहुव्ययपरः क्लेशसहः कामी दुरासदः ॥

क्रूरचेष्टो मृषाभाषी धनवानिन्द्रधिष्यजः ॥ १८ ॥

बहुतसर्वनेवाला क्लेशको सहनेवाला कामी मुशकिलसे प्राप्त होनेवाला, क्रूरचेष्टावाला, झूठबोलनेवाला, धनवान् ऐसा पुरुष ज्येष्ठानक्षत्रमें जन्मनेवाला होता है ॥ १८ ॥

हिंस्रो मानी च भोगी च परकार्यप्रकाशकः ॥

मिथ्योपचारस्त्रीलोलः श्लक्ष्णो नैर्ऋतधिष्यजः ॥ १९ ॥

जो मूलनक्षत्रमें जन्मे वह हिंसक, अभिमानी, भोगी, पराये कामको प्रकटकरनेवाला, मिथ्या उपचारकरनेवाला स्त्रीविषे चंचल, चतुर होता है ॥ १९ ॥

सुकलत्रः कामचारः कुशलो दृढसौहृदः ॥

क्लेशभाग्वीर्यवान्मानी जलनक्षत्रसंभवः ॥ २० ॥

पूर्वाषाढमें जन्मनेवाला पुरुष सुंदर स्त्रीवाला, कामी, चतुर, दृढप्रीतिवाला, क्लेश सहनेवाला, बलवान्, अभिमानी होता है ॥ २० ॥

नीतिज्ञो धार्मिकः शूरो बहुमित्रो विनीतवान् ॥

सुकलत्रः सुपुत्राढ्यश्चोत्तराषाढसंभवः ॥ २१ ॥

जो उत्तराषाढमें जन्मे वह नीतिशास्त्रको जाननेवाला, धार्मिक, शूरवीर, बहुत मित्रोंवाला, नीतिशास्त्रको जाननेवाला, सुंदर स्त्री और सुंदर पुत्रोंसे युक्त होता है ॥ २१ ॥

उदरे च दृढः श्रीमान्बहुवक्ता धनान्वितः ॥

काव्योक्तसुरताभिज्ञो धार्मिकः श्रवणर्क्षजः ॥ २२ ॥

श्रवणमें जन्मनेवाला पुरुष दृढ उदरवाला, श्रीमान्, बहुत कहने वाला, धनाढ्य, कव्योंके अलंकारोंको जाननेवाला धार्मिक होता है ॥ २२ ॥

धार्मिको व्यसनी लुब्धो नृत्यगीतांगनाप्रियः ॥

सामैकसाध्यस्तेजस्वी वीर्यवान्वसुधिष्ण्यजः ॥ २३ ॥

धनिष्ठा नक्षत्रमें जन्मनेवाला नर धार्मिक, व्यसनी, लोभी, नाचना, गाना स्त्री इन्होंमें प्यार रखनेवाला, समझानेसे कार्य सिद्धकरनेवाला, तेजस्वी तथा बलवान् होता है ॥ २३ ॥

दुर्गंधो व्यसनी क्रूरः क्षयवृद्धियुतः शठः ॥

परदाररतः शूरः शततारक्षसंभवः ॥ २४ ॥

शतभिषानक्षत्रमें जन्म हो तो दुर्गंधवाला, व्यसनी, क्रूर, क्षयवृद्धि रोगवाला, मूर्ख, परस्त्रीमें रत, शूरवीर नर होता है ॥ २४ ॥

उद्विग्नः स्त्रीजितः सौम्यः परनिंदापरायणः ॥

दांभिको दुःसहः शूरश्चाजपाद्धिष्ण्यसंभवः ॥ २५ ॥

पूर्वाभाद्रमें जन्म हो तो उद्विग्नमनवाला, स्त्रीजित, सौम्य, पराई निंदा करनेवाला, पाखंडी, दुस्सह, शूरवीर होता है ॥ २५ ॥

प्रजावान्धार्मिको वक्ता जितशत्रुः सुखी विभुः ॥

दृढव्रतः सदा कामी वाहिर्बुध्यर्क्षसंभवः ॥ २६ ॥

उत्तराभाद्रपदमें जन्मे तो संतानवाला, धार्मिक, वक्ता, शत्रुओंको जीतनेवाला, सुखी, समर्थ, दृढनियमवाला, सदा कामी होता है २६ ॥

रूपवान्धनवान्भोगी पंडितश्च जलार्थभुक् ॥

कामी च दुर्वृतः शूरः पौष्णजः परदेशगः ॥ २७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां नक्षत्रगुणाध्यायो

द्विपंचाशत्तमः ॥ ६२ ॥

रेवती नक्षत्रमें जन्मनेवाला पुरुष रूपवान्, धनवान्, भोगी, पंडित, जलके काममें द्रव्यकमानेवाला, कामी, दुष्ट आचरणवाला, शूरवीर और परदेशमें रहनेवाला होता है ॥ २७ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां नक्षत्रगुणाध्यायो

द्विपंचाशत्तमः ॥ ५२ ॥

अथ मिश्रप्रकरणम् ।

असंक्रांतिर्द्रिसंक्रांतिः संसर्पाहस्पती समौ ॥

मासौ तु बहवश्चांद्रास्त्वधिमासः परः क्षयः ॥ १ ॥

बिना संक्रांतिवाला तथा दोसंक्रांतिवाला ऐसे ये दोमहीने क्रमसे संसर्प तथा अहस्पतिनामवाले कहाते हैं और अधिमास तथा क्षयमास भी होता है ऐसे ये सब भेद चांद्रमासके जानने ॥ १ ॥

हिमाद्रिगंगयोर्मध्ये सुरार्चितवसुंधरा ॥

गोदावरी कृष्णवेण्योर्मध्ये काव्यवसुंधरा ॥ २ ॥

हिमालय और गंगाजोड़े मध्यमें बृहस्पतिकी भूमि जानना गोदावरी और कृष्णावेणी नदीके मध्यमें शुक्रकी भूमि जानना ॥२॥

विंध्यगोदावरीमध्ये भूमिः सूर्यसुतस्य च ॥

विंध्याद्रिगंगयोर्मध्ये या भूमिः सा बुधस्य च ॥ ३ ॥

विंध्याचल और गोदावरीके मध्यमें शनिकी भूमि जानना विंध्या-
चल और गंगाजीके मध्यमें जो भूमि है वह बुधकी जाननी ॥ ३ ॥

या वेण्यालंकयोर्मध्ये धरात्मजवसुंधरा ॥

समुद्रयंत्रितक्षोणीनाथौ सूर्यहिमद्युती ॥ ४ ॥

और वेणी नदी तथा लंकाके मध्यमें मंगलकी भूमि जानना
और समुद्रके पासकी भूमिके मालिक सूर्य चंद्रमा कहे हैं ॥ ४ ॥

इषमासि चतुर्दश्यामिन्दुक्षयतिथावपि ॥

उर्जादौ स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत् ॥ ५ ॥

अश्विन वदि चतुर्दशी अथवा अमावास्याको और कार्तिककी
चतुर्दशी तथा दीपमालिकाको ॥ ५ ॥

तैले लक्ष्मीर्जले गंगा दीपावल्यां तिथौ भवेत् ॥

अलक्ष्मीपरिहारार्थमभ्यंगस्नानमाचरेत् ॥ ६ ॥

तेलमें लक्ष्मी और जलमें गंगाजी रहती है इसलिये दीपमालि-
काके दिन अलक्ष्मी (दरिद्र) दूरहोनेके वास्ते तेल लगाकर स्नान
करना चाहिये ॥ ६ ॥

इन्दुक्षये च संक्रांतौ वारे पाते दिनक्षये ॥

तत्राभ्यंगे ह्यदोषाय प्रातः पापापनुत्तये ॥ ७ ॥

अमावास्या तथा संक्रांतिके दिन, व्यतीपातके दिन, तिथि
क्षयके दिन प्रातःकाल तेललगाकर स्नानकरे तो संपूर्ण पाप
दूर होवें ॥ ७ ॥

मासि भाद्रपदे कृष्णे रोहिणीसहिताष्टमी ॥

जयंती नाम सा तत्र रात्रौ जातो जनार्दनः ॥ ८ ॥

भाद्रपद कृष्णा अष्टमीको रोहिणी नक्षत्रहो तब वह जयंतीनाम
अष्टमी है उसदिन श्रीकृष्णभगवान्का जन्म भया है ॥ ८ ॥

उपोष्य जन्मचिह्नानि कुर्याज्जागरणं च यः ॥

अर्द्धरात्रयुताष्टम्यां सोऽश्वमेधफलं लभेत् ॥ ९ ॥

उसदिन व्रतकर जन्मके चिह्नकर अर्द्धरात्रियुक्त अष्टमीमें
जो जागरण करता है वह अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त
होता है ॥ ९ ॥

रोहिणीसहिताष्टम्यां श्रावणे मासि वा तयोः ॥

श्रावणे मासि वा कुर्याद्रोहिणीसहिता तयोः ॥ १० ॥

रोहिणी सहित अष्टमी श्रावणमें मिलजाय तो रोहिणीके योग
होनेसे वह भी जयंती अष्टमी जाननी उसीदिन व्रतकरना ॥ १० ॥

मासि भाद्रपदे शुक्ले पक्षे ज्येष्ठर्क्षसंयुते ॥

रात्रौ तस्मिन्दिने कुर्याज्ज्येष्ठायाः परिपूजनम् ॥ ११ ॥

भाद्रपद शुक्ला अष्टमीको ज्येष्ठा नक्षत्र होय तो उस रात्रिमें अथवा
दिनमें ज्येष्ठा नक्षत्रका पूजन करना चाहिये ॥ ११ ॥

अर्द्धरात्रयुता यत्र माघकृष्णचतुर्दशी ॥

शिवरात्रिव्रतं तत्र सोऽश्वमेधफलं लभेत् ॥ १२ ॥

और माघकृष्णा चतुर्दशी अर्द्धरात्रियुक्त हो उसदिन शिव-
रात्रि व्रत होता है वह अश्वमेधयज्ञका फल देती है ॥ १२ ॥

नक्तव्रतेषु सा ग्राह्या प्रदोषव्यापिनी तिथिः ॥

पूजाव्रतेषु सर्वेषु मध्याह्नव्यापिनी स्मृता ॥ १३ ॥

वह तिथि रात्रिके व्रतोंमें प्रदोषव्यापिनी ग्रहण की है और
संपूर्ण पूजा व्रतोंमें तो मध्याह्नव्यापिनी कही है ॥ १३ ॥

एकभुक्तोपवासेषु या विंशच्चटिकात्मिका ॥

पिष्टान्नप्राशनेष्वेव लवणाम्लविवर्जिता ॥ १४ ॥

एक भुक्तोपवास अर्थात् एकवार भोजन करनेके व्रतोंमें बीस
२० घड़ीतक रहनेवाली तिथि गृहीत है पीठीके पदार्थ खानेमें
नमक खटाईका त्याग करनेमें भी बीसघड़ी इष्टतक रहनेवाली तिथि
ग्राह्य है ॥ १४ ॥

आषाढसितपंचम्यामसंप्राश्य उपोषितः ॥

अर्चयेत्षण्मुखं देवमृणरोगविमुक्तये ॥ १५ ॥

आषाढ सुदी पंचमीको भोजन नहीं करना, उपवास व्रतकरके
षण्मुखदेव स्वामिकार्त्तिकजीका पूजन करनेसे ऋण और रोग दूर
होता है ॥ १५ ॥

तथैव श्रावणे शुक्लपंचम्यां नागपूजनम् ॥

पयःप्रदानं सर्पेभ्यो भयरोगविमुक्तये ॥ १६ ॥

तैसेही श्रावणशुक्ल पंचमीको नागपूजन होता है उसदिन रोग
दूर होनेके वास्ते सर्पोंको दूध पिलाना चाहिये ॥ १६ ॥

मासि भाद्रपदे शुक्लचतुर्थ्यां गणनायकम् ॥

पूजयेन्मोदकाहारैः सर्वविघ्नोपशांतये ॥ १७ ॥

भाद्रपद शुक्ला चतुर्थीको गणेशजीका पूजन करना और लड्डुबोसें पूजन करना तथा लड्डुबोका भोजन करना ऐसे करनेसे संपूर्णविघ्नोकी शांति होतीहै ॥ १७ ॥

माघशुक्ले च सप्तम्यां योर्चयेद्भास्करं नरः ॥

आरोग्यं श्रियमाप्नोति घृतपायसभक्षणैः ॥ १८ ॥

माघशुक्ला सप्तमीको जो पुरुष सूर्यका पूजन करता है और घृत तथा खीरका भोजन करता है वह आरोग्य (खुशी) रहता है १८ ॥

व्यंजनोपानहौ छत्रं दध्यमन्नकपात्रिकाम् ॥

वैशाखे विप्रमुख्येभ्यो धर्मप्रीत्यै प्रयच्छति ॥ १९ ॥

कनकांदोलिकाछत्रचामरैः स्वर्णभूषितैः ॥

सह दिव्यान्नपानाभ्यां दत्त्वा स्वर्गमवाप्नुयात् ॥ २० ॥

और जो पुरुष धर्महेतु वैशाखमहीनेमें बीजना जूती जोडा छत्री, दही, अन्न, थाली इन्होंका दान श्रेष्ठब्राह्मणोंके वास्ते देता है और सुवर्ण, पालकी, छत्र, चमर, सुवर्णके आभूषण, दिव्य अन्नपान, दान करता है वह स्वर्गमें प्राप्त होताहै ॥ १९ ॥ २० ॥

आश्वयुङ्मासि शुक्लायां नवम्यां भक्तितोर्चयेत् ॥

लक्ष्मीं सरस्वतीं शस्त्रान्विजयी धनवान्भवेत् ॥ २१ ॥

आश्विनशुक्ला नवमीको भक्तिसे लक्ष्मी, सरस्वती, शस्त्र इन्होंका पूजनकरनेवाला पुरुष विजयी तथा धनवान् होता है ॥ २१ ॥

कार्तिक्यामथ वैशाख्यामुपोष्य वृषमुत्सृजेत् ॥

शिवप्रीत्यै भक्तिगुतः स नरः स्वर्गभागभवेत् ॥ २२ ॥

कार्तिकशुक्ला पूर्णिमाको अथवा वैशाखशुक्ला पूर्णिमाको उपवासव्रतकरके बैल छोडे (आंकिल छोडे) भक्तिसे युक्तहोकर शिवजीकी प्रीतिके वास्ते ऐसे करनेवाला पुरुष स्वर्गमें प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

घटांत्यक्षे नृयुग्मेषु कन्या कीटतुलाधनुः ॥

कुलीरमृगसिंहाश्च चैत्राद्याः शून्यराशयः ॥ २३ ॥

और कुंभ, मीन, वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, तुला, धनु, कर्क, मकर, सिंह ये राशि यथाक्रमसे चैत्र आदि महीनोंमें शून्य जाननी जैसे चैत्रमें कुंभ, वैशाखमें मीन इत्यादि ॥ २३ ॥

अथ तिथिशून्यलग्नानि ।

तुलामृगौ प्रतिपदि तृतीयायां हरिमृगः ॥

पंचम्यां मिथुनं कन्या सप्तम्यां चापचांद्रभे ॥ २४ ॥

प्रतिपदा तिथिविषे तुला और मकर लग्न शून्य है तृतीयाविषे सिंह और मकर, पंचमीविषे मिथुनकन्या, सप्तमीविषे धन कर्क लग्न शून्य है ॥ २४ ॥

नवम्यां हरिकीटौ द्वावेकादश्यां गुरोर्गृहे ॥

त्रयोदश्यां झषवृषौ दिनदग्धाश्च राशयः ॥ २५ ॥

नवमीविषे सिंह वृश्चिक, एकादशीविषे धन मीन, त्रयोदशीविषे मीन वृष लग्न शून्य (दग्ध) कहे हैं ॥ २५ ॥

मासदग्धाह्वयात्राशीन्दिनदग्धाश्च वर्जयेत् ॥ २६ ॥

इसप्रकार मासदग्ध राशियोंको और दिनदग्ध राशियोंको वर्ज देवे ॥ २६ ॥

अथ मासशून्यतिथयः ।

अष्टमी नवमी चैत्रे पक्षयोरुभयोरपि ॥

वैशाखे द्वादशी शून्या पक्षयोरुभयोरपि ॥ २७ ॥

चैत्रके दोनों पक्षोंमें अष्टमी नवमी तिथि शून्य जाननी और
वैशाखमें दोनोंपक्षोंमें द्वादशी शून्य जाननी ॥ २७ ॥

ज्येष्ठे त्रयोदशी शुक्ला कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥

आषाढे कृष्णपक्षेपि षष्ठी शुक्लेऽथ सप्तमी ॥ २८ ॥

ज्येष्ठमें शुक्लपक्षमें त्रयोदशी, कृष्णपक्षमें चतुर्दशी और आषाढमें
कृष्णपक्षमें षष्ठी, शुक्लपक्षमें सप्तमी शून्यतिथि जाननी ॥ २८ ॥

श्रावणेपि द्वितीया च तृतीया पक्षयोर्द्रयोः ॥

प्रौष्ठपदे सिते कृष्णे द्वितीया प्रथमा तथा ॥ २९ ॥

श्रावणमें दोनों पक्षोंमें द्वितीया, तृतीया, शून्य जाननी भाद्रपद
शुक्लपक्षमें वा कृष्णमें प्रथमा द्वितीया शून्य तिथि जाननी ॥ २९ ॥

सिते कृष्णेप्याश्वयुजि दशम्यैकादशी तथा ॥

कार्तिके च सिते पक्षे चतुर्दशी शराऽसिते ॥ ३० ॥

अश्विनमें दोनों पक्षोंमें दशमी एककादशी शून्य तिथि जाननी
कार्तिकमें शुक्लपक्षमें चतुर्दशी और कृष्णपक्षमें पंचमी तिथि
शून्य जाननी ॥ ३० ॥

मार्गोऽद्रिनागसंज्ञेऽपि पक्षयोरुभयोरपि ॥

पौषे पक्षद्वये चैव चतुर्थी पंचमी तथा ॥ ३१ ॥

मार्गशीर्षमें दोनों पक्षोंमें सप्तमी अष्टमी शून्य जाननी पौषमें
दोनों पक्षोंमें चतुर्थी पंचमी शून्य जाननी ॥ ३१ ॥

माघे तु पंचमी षष्ठी शुक्ले कृष्णे यथाक्रमम् ॥

तृतीया च चतुर्थी च फाल्गुने सितकृष्णयोः ॥ ३२ ॥

माघमें शुक्लपक्षमें पंचमी कृष्णमें षष्ठी शून्य तिथि जाननी और
फाल्गुनमें शुक्लपक्षमें तृतीया कृष्णमें चतुर्थी शून्यतिथि जाननी ३२ ॥

इति शून्यतिथयः ॥

अथ गंडांतविचारः ।

अभुक्तमूलजं पुत्रं पुत्री वापि परित्यजेत् ॥

अथवाष्टाब्दकं तातस्तन्मुखं नावलोकयेत् ॥ ३३ ॥

अभुक्त मूलज पुत्रको अथवा पुत्रीको त्यागदेवे अथवा आठ
वर्षका बालकहो तबतक पिता उसके मुखको नहीं देखै ॥ ३३ ॥

मूलाद्यपादजो हंति पितरं तु द्वितीयजः ॥

मातरं तु तृतीयोर्थं सर्वस्वं तु चतुर्थजः ॥ ३४ ॥

मूलनक्षत्रके प्रथम प्रहरमें बालक जन्मे तो पिताको नष्ट करै
और दूसरे चरणमें जन्मे तो माताको, तीसरेमें धनको, चौथे चरणमें
संपूर्णवस्तुको नष्ट करता है ॥ ३४ ॥

दिवा जातस्तु पितरं रात्रौ तु जननीं तथा ॥

आत्मानं संध्ययोर्हन्ति नास्ति गंडो निरामयः ॥ ३५ ॥

दिनमें बालक जन्मे तो पिताको नष्टकरे और रात्रिमें जन्मे तो

माताको, दोनों संधियोंमें अपने आत्माको नष्ट करे ऐसे गंडांत नक्षत्रमें जन्माहुआ बालक निर्दोष नहीं है ॥ ३५ ॥

यो ज्येष्ठामूलयोरंतरालप्रहरजः शिशुः ॥

अभुक्तमूलजः सार्पमघानक्षत्रयोरपि ॥ ३६ ॥

जो बालक ज्येष्ठा और मूलनक्षत्रके मध्यके प्रहरमें जन्मता है और जो आश्लेषा तथा मघाके मध्यके प्रहरमें जन्मता है वह अभुक्त मूलज कहा है ॥ ३६ ॥

विधेयं शांतिकं तत्र गंडे दोषापनुत्तये ॥

अरिष्टं शतधा याति सुकृते शांतिकर्मणि ॥ ३७ ॥

तहां गंडांत नक्षत्रमें जन्मनेकी शांति करनी चाहिये शांतिकर्म सुकृतकरनेसे अरिष्ट (पीडा) सैकड़ों प्रकारसे दूर होता है ॥ ३७ ॥

तस्माच्छान्तिं प्रकुर्वीत प्रयत्नाद्विधिपूर्वकम् ॥

वत्सरात्पितरं हन्ति मातरं तु त्रिवर्षतः ॥ ३८ ॥

इसलिये यत्नसे विधिपूर्वक शांति करवानी चाहिये और शांति नहीं की जाय तो गंडांत नक्षत्र पिताको एकवर्षमें नष्टकरे और माताको तीनवर्षमें नष्टकरे ॥ ३८ ॥

धनं वर्षद्वये चैव श्वशुरं नववर्षके ॥

जातं बालं वत्सरेण वर्षैः पंचभिरग्रजम् ॥ ३९ ॥

धनको दोवर्षमें, श्वशुरको नववर्षमें नष्टकरे और जन्मे हुए उस बालकको एकवर्षमें और बालकके बडेभाईको पांचवर्षमें नष्टकरे ॥ ३९ ॥

श्यालकं चाष्टभिर्वर्षैरनुक्तान्हन्ति सप्तभिः ॥ ४० ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां मलमासाद्यनेकलक्षणाध्याय-
स्त्रिपंचाशत्तमः ॥ ५३ ॥

सालाको आठवर्षमें नष्टकरे ऐसे वह बालक जिसको अशुभ
हो तिसकी श्रावधि कही और बिना कहे हुए कुटुंबके जनोको सातव-
र्षमें नष्टकरे ॥ ४० ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां मलमासाद्यनेकलक्षणा-
ध्यायस्त्रिपंचाशत्तमः ॥ ५३ ॥

अथाश्वशांतिः ।

अश्वशांतिं प्रवक्ष्यामि तेषां दोषापनुत्तये ॥

भानुवारे च संक्रांतावयने विषुवद्वये ॥ १ ॥

अब अश्वोके दोष दूरहोनेके वास्ते अश्वशांतिको कहते हैं रविवार
तथा संक्रांति विषे तथा उत्तरायण दक्षिणायन होनेके समय अथवा
दिन रात्रि समान होवे उस दिन ॥ १ ॥

दिनक्षये व्यतीपाते द्वादश्यामश्विभेपि वा ॥

अथ वा भास्करे स्वातिसंयुक्ते च विशेषतः ॥ २ ॥

तिथिक्षयमें व्यतीपात योग वा द्वादशके दिन अश्विनी नक्षत्रविषे
अथवा स्वातिनक्षत्रयुक्त रविवारविषे ॥ २ ॥

ईशान्या त्वष्टभिर्हस्तैश्चतुर्भिर्वाथ मंडपम् ॥
चतुर्द्वारवितानस्रक्तोरणाद्यैरलंकृतम् ॥ ३ ॥

ईशान कोणमें आठ हाथ प्रमाणका अथवा चारहाथ प्रमाणका मंडप बनावे तिसको चारद्वार बंदनवाल, माला, तारण इत्यादिकोंसे शोभित करे ॥ ३ ॥

तन्मध्ये वेदिका तस्य पंचविंशांशमानतः ॥
मंडपस्य बहिः कुंडं प्राच्यां हस्तप्रमाणतः ॥ ४ ॥

तिसमंपडके पच्चीसवें अंश (भाग) प्रमाण तिसके मध्यमें वेदी बनावे और मंडपसे बाहिर पूर्वदिशामें एकहाथ प्रमाण अग्निकुंड बनावे ॥ ४ ॥

वरयेच्छ्रोत्रियान् विप्रान् स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ॥
सूर्यपुत्रं ह्यारूढं पंचवक्रं त्रियंबकम् ॥ ५ ॥

फिर स्वस्तिवाचन पूर्वक वेदपाठी ब्राह्मणोंका वरणकरे और सूर्यके पुत्र, अश्वपर चढे हुए, पांचमुख और तीननेत्रोंवाले ॥ ५ ॥

शुक्लवर्णवसाखड्गं रैवंतं द्विभुजं स्मरेत् ॥
सूर्यपुत्रं नमस्तेस्तु नमस्ते पंचवक्रक ॥ ६ ॥

शुक्लवर्ण ढाल तलवार धारणकिये हुए दो भुजाओंवाले ऐसे रैवंत देवका स्मरणकरे हे सूर्यपुत्र ! हे पांचमुखवाले देव तुमको नमस्कार है ॥ ६ ॥

नमो गंधर्वदेवाय रैवताय नमोनमः ॥

मंत्रेणानेन रैवंतं वस्त्रगंधाक्षतादिभिः ॥

विधिवद्वेदिकामध्ये तंडुलोपरि पूजयेत् ॥ ७ ॥

गंधर्वदेव रैवंतको नमस्कार है ऐसे इसमंत्रसे वस्त्र, गंध, अक्षत आदिकोंसे रैवंतको विधिपूर्वक तिस वेदीपर चावलोंपर स्थापितकर पूजनकरे ॥ ७ ॥

कार्यास्तत्र गणाः पंच रौद्रशाक्राश्च वैष्णवाः ॥

सगाणपतिसौराश्च रैवंतस्य समंततः ॥ ८ ॥

तहां पांच प्रकारके गण स्थापित करने रौद्रगण, इंद्रके गण, वैष्णवगण, गणेशजीके गण और सूर्यके गण ऐसे रैवंतके चारोंतर्फ स्थापितकरने ॥ ८ ॥

ऋग्वेदादिचतुर्वेदान्यजेद्द्वारेषु पूर्वतः ॥ ९ ॥

और ऋग्वेद आदिचारोंवेदोंको पूर्व आदिद्वारों विषे पूजे ॥ ९ ॥

रक्तवर्णान्पूर्णकुंभान्वस्त्रगंधाद्यलंकृतान् ॥

पंचत्वक्पल्लवोपेतान्पंचामृतसमन्वितान् ॥ १० ॥

और लालवर्णवाले पूर्णकलशोंको वस्त्र गंध आदिकोंसे विभूषितकर पंचवल्कल, पंचपल्लव, पंचामृत इन्होंसे पूरितकर ॥ १० ॥

द्वारेषु स्थाप्य ताल्लिगैर्मंत्रैर्विप्रान्प्रपूजयेत् ॥

एवं तु पूजामाचार्यः कृत्वा गृह्यविधानतः ॥ ११ ॥

तिन चारद्वारोंमें स्थापित कर तिसी २ वेदके मंत्रोंकरके तहां चार ब्राह्मणोंका पृथक् २ पूजन करे आचार्य इसप्रकार कुलकी मर्यादाके अनुसार पूजा कर ॥ ११ ॥

स्थापयेत्तु व्याहृतिभिस्तस्मिन्कुंडे हुताशनम् ॥

ततस्तदाज्यभागाति मुख्याहुतिमतांद्रितः ॥ १२ ॥

फिर व्याहृतियोंकरके तिसकुंडमें अग्नि स्थापन करे । फिर सावधान होकर आज्य भाग आहुति देकर मुख्य आहुति देना ॥ १२ ॥

अग्नये स्वाहेति हुत्वा घृतेनादौ प्रयत्नतः ॥

एवं तु पूजामंत्रेण ह्याद्यं तु प्रणवेन च ॥ १३ ॥

पलाशसमिदाज्यान्नैः शतमष्टोत्तरं हुनेत् ॥

प्रत्येकं जुहुयाद्भक्त्या तिलान्व्याहृतिभिस्ततः ॥ १४ ॥

‘अग्नये स्वाहा’ इसमंत्रसे पहले यत्नसे घृतकरके होम करे ऐसे पूजाके मंत्रसे आद्यंतमें अँकार कहके पलाशकी समिध, घृत, तिलादि अन्न इन्हों करके अष्टोत्तरशतं १०८ आहुति होमना फिर प्रत्येक मंत्रमें भूर्भुवः इत्यादि व्याहृति लगाकर तिलोंसे होम करना ॥ १३ ॥ १४ ॥

एकरात्रं त्रिरात्रं वा नवरात्रमथापि वा ॥

अनेन विधिना कुर्याद्यथाशक्त्या जितेंद्रियः ॥ १५ ॥

एक रात्रितक वा तीन रात्रितक वा नव रात्रितक इसविधिसे शक्तिके अनुसार जितेंद्रिय होकर हवन करे ॥ १५ ॥

जपादिपूर्वकं सम्यक्कर्ता पूर्णाहुतिं हुनेत् ॥

ततो मंगलघोषैश्च नैवेद्यं च समर्पयेत् ॥ १६ ॥

यजमान जपादि पूर्वक अर्थात् सब जपोंकी दशांश आहुति
करके फिर पूर्णाहुति करे फिर मंगल शब्दोंकरके नैवेद्य
समर्पणकरे ॥ १६ ॥

ततस्ते हुतशेषेण सम्यक्क्रंभोदकैर्द्विजाः ॥

प्रादक्षिण्यत्रजंतोऽश्वाञ्जयंतबलिमुत्तमम् ॥ १७ ॥

फिर वे चार ब्राह्मण तिन चार कलशोंकी धारा अश्वोंके दहिनी
पार्श्व गमन करते हुए छोडकर हुतशेष पदार्थसे उत्तम जयंत
बलिदेवे ॥ १७ ॥

जीमूतस्येत्यनुवाकाश्चतुर्दिक्षु विनिःक्षिपेत् ॥

आचार्याय ततो दद्याद्दक्षिणां निष्कपंचकम् ॥ १८ ॥

और ' जीमूतस्य ' ऐसे अनुवाक मंत्रपढकर चारों दिशाओंमें
बलि छोडना फिर पांच पल (२०) तोला सुवर्ण आचार्यको देवे १८

तदद्धं वा तदद्धं वा यथाशक्त्यनुसारतः ॥

ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्याद्धेनुं वस्त्रं धनादिकम् ॥ १९ ॥

तिससे आधी अथवा तिससे भी आधी दक्षिणा अपनी शक्तिके
अनुसार देनी चाहिये और गौ, वस्त्र धन इन्होंकी दक्षिणा ऋत्विजों
के अर्थ देनी चाहिये ॥ १९ ॥

ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छांतिवाचनपूर्वकम् ॥

एवं यः कुरुते सम्यग्वाश्वशांतिमनुत्तमाम् ॥ २० ॥

फिर स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन करवावे ऐसे अच्छे प्रकारसे जो पुरुष उत्तम अश्वशांतिको करताहै ॥ २० ॥

सोश्वाभिवृद्धिं लभते वीरलक्ष्मीं न संशयः ॥

यज्ञेनानेन संतुष्टा धातृविष्णुमहेश्वराः ॥ २१ ॥

वह अश्वोंकी समृद्धिको प्राप्त होजाताहै और शूरवीरोंकी लक्ष्मी को प्राप्त होताहै इसमें संदेह नहीं और इस यज्ञसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव प्रसन्न होते हैं ॥ २१ ॥

आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे प्रीताः स्युः पितरो गणाः ॥

लोकपालाश्च संतुष्टाः पिशाचा डाकिनीगणाः ॥ २२ ॥

और सूर्य आदि सबग्रह, पितरगण, लोकपाल, पिशाच, डाकिनी गण ये सब प्रसन्न होजाते हैं ॥ २२ ॥

भूतप्रेताश्च गंधर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ २३ ॥

इति श्रीनारदीयसंहितायां मिश्रकाध्याय-

श्वतुःपंचाशत्तमः ॥ ५४ ॥

भूत, प्रेत, गंधर्वगण, राक्षस, पन्नग ये भी सब प्रसन्न होजाते हैं ॥ २३ ॥ इति अश्वशांतिः ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां मिश्रकाध्याय-

श्वतुःपंचाशत्तमः ॥ ५४ ॥

अथ श्राद्धलक्षणाध्यायः ।

चतुर्दशी तिथिर्नंदा भद्रा शुक्रारवासरौ ॥

सितेज्ययोरस्तमयं द्यंघ्रिभं विषमांघ्रिभम् ॥ १ ॥

चतुर्दशी और नंदातिथि व भद्रातिथिविषे शुक्र और मंगल, गुरु, शुक्रका अस्त दोचरणोंका नक्षत्र और विषम चरणवाला नक्षत्र जैसे कृत्तिकाका १ पाद मेषमें है यह विषमांघ्रि है और मृगशिर आधा वृषमें है यह दोचरणोंवाला है ऐसे सब जगह जानों ॥ १ ॥

शुक्लपक्षं च संत्यज्य पुनर्दहनमुत्तमम् ॥

वसूत्तरार्द्धतः पंच नक्षत्रेषु त्रिजन्मसु ॥ २ ॥

पौष्णब्रह्मर्क्षयोः पौनर्दहनं कुलनाशनम् ॥

दिनोत्तरार्द्धे तत्कर्तुंश्चंद्रताराबलान्विते ॥ ३ ॥

और शुक्लपक्षको त्यागकर पुत्तलविधान आदिसे प्रेत दाहकरना श्रेष्ठ है और धनिष्ठाका उत्तरार्द्ध आदि पांच पंचकोंमें तथा त्रिपुष्करयोगमें और रेवती तथा रोहिणीमें पुत्तलविधान आदिसे दाहकर्म कियाजाय तो कुलका नाश होवे किन्तु मध्याह्न पीछे और क्रिया करनेवालेको चंद्र ताराका बल होनेके दिन ॥ २॥३॥

पापग्रहे बलयुते शुक्ललग्नांशवर्जिते ॥

तत्पुनर्दहनं चोक्तं श्राद्धकालमथोच्यते ॥ ४ ॥

तथा पापग्रह बलवंतहो शुक्र लग्नमें नहीं हो ऐसे मुहूर्त्तमें दाह कर्म करना शुभ है । अब श्राद्धकालको कहते हैं ॥ ४ ॥

सर्पिंडीकरणं कार्यं वत्सरे वार्द्धवत्सरे ॥

त्रिमासे वा त्रिपक्षे वा मासि वा द्वादशोत्ति वा ॥ ६ ॥

सर्पिंडीकर्म वर्षदिनमें अथवा छह महीनोंमें करना तीन महीनोंमें अथवा डेढमहीनोंमें वा दाहकर्मसे बारहवें दिन सर्पिंडीकर्म करना शुभ है ॥ ५ ॥

एष्वेत्र कालेष्वेतानि ह्येकोद्दिष्टानि षोडश ॥

कृत्तिकासु च नंदायां भृगोर्वारे त्रिजन्मसु ॥ ६ ॥

इनही समयमें एकोद्दिष्ट षोडशश्राद्ध करने चाहियें और कृत्तिका नक्षत्र और नंदातिथि शुक्रवार, त्रिपुष्करयोग इन्होंमें ॥ ६ ॥

पिंडदानं न कर्तव्यं कुलक्षयकरं यतः ॥

त्रिजन्मसु त्रिपाद्रेषु नंदायां भृगुवासरे ॥ ७ ॥

पिंडदान नहीं करना चाहिये क्योंकि पिंडदान करनेवालेके कुलका नाश होता है त्रिपुष्करयोग तीनचरणोंवाला नक्षत्र जैसे पुनर्वसु (पादत्रयं मिथुनतो-तहां पुनर्वसु तीनचरणोंवाला जानना) और शुक्रवार ॥ ७ ॥

धातृपौष्णभयोः श्राद्धं न कर्तव्यं कुलक्षयात् ॥

नंदासु च भृगोर्वारे कृत्तिकायां त्रिजन्मसु ॥ ८ ॥

रोहिण्यां च मघायां च कुर्यान्नापरपाक्षिकम् ॥

सकृन्महालये काम्यं न्यूनश्राद्धेऽखिलेषु च ॥ ९ ॥

रोहिणी रेवती, इनविषे श्राद्ध नहीं करना चाहिये श्राद्ध करनेसे कुलका नाश होताहै । और नंदातिथि शुक्रवार कृत्तिका

नक्षत्र, त्रिपुष्करयोग, रोहिणी व मघा नक्षत्रमें सर्पिंडी आदि श्राद्ध नहीं करना चाहिये परंतु महालय श्राद्ध अर्थात् कनागतोमें पार्वण श्राद्ध तो करदेना चाहिये अन्यसम्पूर्ण न्यूनश्राद्धोंमें ॥ ८ ॥ ९ ॥

अतीतविषये चैव ह्येतत्सर्वं विचिंतयेत् ॥

नभस्यमासे संप्राप्ते कृष्णपक्षे समागते ॥ १० ॥

साधारण कामनावाले श्राद्धोंमें यह पूर्वोक्त मुहूर्त्तविषय विचार लेना चाहिये भाद्रपद महीनेमें कृष्णपक्षमें ॥ १० ॥

तत्र श्राद्धं प्रकुर्वीत सकृद्रा चेदशक्तिमान् ॥

विशिष्टदिवसे कर्तुंश्चंद्रताराबलान्विते ॥ ११ ॥

एकवार तो निर्धन पुरुषने भी श्राद्ध करना चाहिये और अन्य शुभमुहूर्त्तके दिन करनेवालेको चंद्रमा तथा ताराका पूर्ण बल होय तब श्राद्ध करना चाहिये ॥ ११ ॥

नंदाश्च तिथयो निंद्या भूतायां शस्त्रघातिनाम् ॥

द्वितीया मध्यमा ज्ञेया तृतीया भरणीयुता ॥ १२ ॥

नंदातिथियोंको वर्जदेवे और चतुर्दशीको शस्त्रघातसे मरने वालोंका श्राद्ध करना चाहिये । द्वितीया मध्यम तिथि है और भरणीनक्षत्र युक्त तृतीया ॥ १२ ॥

पूज्या यदि चतुर्थी वा श्रीप्रदा पितृकर्मणि ॥

आनंदयोगः पंचम्यां याम्यर्क्षस्थे निशाकरे ॥ १३ ॥

अथवा चतुर्थी श्रेष्ठ है पितृकर्ममें लक्ष्मीदेनेवाली है पंचमीको चंद्रमा भरणीनक्षत्रपर हो तो पितृकर्ममें आनंदयोग जानना १३

भोजयेद्यः पितृस्तत्र पुत्रपौत्रधनं लभेत् ॥

यशस्करी सप्तमी स्यादष्टमी भोगदायिनी ॥ १४ ॥

तहां जो पुरुष पितरोंको भोजन कराताहै वह पुत्र पौत्र व धन-
को प्राप्त होता है सप्तमी तिथि श्राद्धकर्ममें यशकरनेवाली है और
अष्टमी भोगदेनेवाली है ॥ १४ ॥

श्राद्धकर्तुंश्च नवमी सर्वकामफलप्रदा ॥

सूर्ये कन्यागते चंद्रे रौद्रनक्षत्रगे यदा ॥ १५ ॥

और नवमी तिथि श्राद्धकरनेवालेके संपूर्ण मनोरथोंको सिद्धकर-
तीहै कन्याराशिपर सूर्य हो तब चंद्रमा आर्द्रनक्षत्रपर आवे
उसदिन ॥ १५ ॥

सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां च तिथौ तथा ॥

योगोऽयं पितृकल्याणः पितृन्यस्मिन्प्रपूजयेत् ॥ १६ ॥

सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि होय तो यह पितृकल्याणनामक
योग कहा है इस योगविषे पितरोंका पूजन करना चाहिये ॥ १६ ॥

इह संपदमाप्नोति पश्चात्स्वर्गे ह्यवाप्यते ॥

दशम्यां पुष्यनक्षत्रे सुयोगोऽमृतसंज्ञकः ॥ १७ ॥

इसपूर्वोक्त योगमें पितरोंका पूजन करनेवाला मनुष्य इस
लोकमें संपत्ति (लक्ष्मी) को प्राप्त होताहै और परलोकमें
स्वर्गको प्राप्त होताहै । दशमी तिथिको पुष्यनक्षत्र आज्ञाय तो
सुंदर अमृतसंज्ञक योग होताहै ॥ १७ ॥

अर्चयेद्यः पितृस्तत्र नित्यं तृप्तास्तु तस्य ते ॥

सर्वसंपत्प्रदाःकर्तुर्द्वादशी तिथिरुत्तमा ॥ १८ ॥

इस योगमें जो पितरोंका पूजन करताहै उसके पितर नित्य तृप्त रहतेहैं । और कर्ता यजमानको संपूर्ण संपत्ति देनेवाली उत्तम द्वादशी तिथि कहीहै ॥ १८ ॥

त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां हानिर्धनकलत्रयोः ॥

अनंतपुण्यफलदा गजच्छाया त्रयोदशी ॥ १९ ॥

त्रयोदशी वा चतुर्दशीको श्राद्ध करे तो धन स्त्रीकी हानि हो परंतु गजच्छाया योगवाली त्रयोदशी अनंत पुण्यफल देनेवाली है ॥ १९ ॥

श्राद्धकर्मण्यमावस्या पक्षश्राद्धफलप्रदा ॥ २० ॥

श्राद्धकर्ममें अमावस्या तिथि पक्षका फल देती है अर्थात् १५ दिनतक श्राद्ध करनेका पुण्य होता है ॥ २० ॥

पौष्णद्वये पुष्यचतुष्टये च हस्तत्रये मैत्रचतुष्टये च ॥

सौम्यद्वये च श्रवणत्रये च श्राद्धप्रदाता बहुपुत्रवान्स्यात् २१

इति श्रीनारदीयसंहितायां श्राद्धलक्षणाध्यायः

पंचपंचाशत्तमः ॥ ५५ ॥

और रेवती, अश्विनी, पुष्य, आदि चार नक्षत्र हस्त आदि ३ नक्षत्र अनुराधा आदि चार नक्षत्र, और मृगशिर आदि दो नक्षत्र

(३०२)

नारदसंहिता ।

श्रवण आदि ३ नक्षत्र इनमें श्राद्ध करनेवाला जन बहुत पुत्रोंवाला होता है अर्थात् इन नक्षत्रोंके दिन श्राद्धकरना श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां श्राद्धलक्षणाध्यायः

पंचपंचाशत्तमः ॥ ५५ ॥

इति श्रीइंद्रप्रस्थप्रान्तर्वर्त्तिवेरीनगरनिवासिद्विजशालिग्रामा-
त्मजबुधवसतिरामविरचितसरलानामभाषाटीकायां
नारदसंहिता समाप्ता ॥ शुभं भूयात् ॥ श्रीरस्तु ॥

श्लो०—वेदबाणाङ्गभूवर्षे तैषशुक्लदले तथा॥ पूर्णिमायां
कवेर्घस्रे टीकेयं पूर्णतामगात् ॥ १ ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥



पुस्तक मिलनेका ठिकाना—
खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना—मुंबई.